



भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 42] नई दिल्ली, शनिवार, अक्टूबर 15—अक्टूबर 21, 2016 (आश्विन 23, 1938)

No. 42] NEW DELHI, SATURDAY, OCTOBER 15—OCTOBER 21, 2016 (ASVINA 23, 1938)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग IV

[PART IV]

[गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी संस्थाओं के विज्ञापन और सूचनाएं]

[Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies]

NOTICE

NO LEGAL RESPONSIBILITY IS ACCEPTED FOR THE PUBLICATION OF ADVERTISEMENTS/PUBLIC NOTICES IN THIS PART OF THE GAZETTE OF INDIA. PERSONS NOTIFYING THE ADVERTISEMENTS/PUBLIC NOTICES WILL REMAIN SOLELY RESPONSIBLE FOR THE LEGAL CONSEQUENCES AND ALSO FOR ANY OTHER MISREPRESENTATION ETC.

BY ORDER

Controller of Publication

I, Anil Kumar S/o Late Roshan Lal, R/o RZ-J 24/223, West Sagarpur, New Delhi-46, have changed my minor son's name from SAKSHAM to SAKSHAM DHIMAN for all purposes.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

Anil Kumar
[Signature of Guardian]

CHANGE OF NAME

I, hitherto known as MANMOHAN SINGH Son of Sh. BUDHRAM GEJWAL, residing at E-582, Gali No.-20, E Block, Ashok Nagar, Delhi-110093, have changed my name and shall hereafter be known as MANMOHAN GEJWAL.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

MANMOHAN SINGH
[Signature (in existing old name)]

I, hitherto known as Chander Sood S/o Shri Ved Parkash Sood, residing at H.No. 62/46, Bhagawan Dass Road, Hoshiarpur, Ram Colony, Camp, Punjab-146001, have changed my name and shall hereafter be known as Chander Kant Sood.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

Chander Sood
[Signature (in existing old name)]

I, hitherto known as Sombir Son of Late Shri Jagdish Singh, employed as Regulating Petty Officer, Integrated Headquarters, Ministry of Defence (Navy)/Sena Bhawan, New Delhi-110011, residing at B-6, Nausena Bagh 1, Chankyapuri, Opposite Yashwant Complex, New Delhi-110021, have changed my name and shall hereafter be known as Sombir Sangwan.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

Sombir
[Signature (in existing old name)]

I, hitherto known as ABHISHEK ANAND JHA son of Late Dr. AMAR BHUSHAN JHA, Self employed as Yoga Teacher, residing at Flat No.-301, Ananya Plaza, P/542, Vidyapuri, Doctors Colony, Patna-800020, Bihar, have changed my name and shall hereafter be known as ANAND BHARADWAJ.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

ABHISHEK ANAND JHA
[Signature (in existing old name)]

I, hitherto known as S.M. TAFSIR ALAM Son of LATE SAFIR AHMAD, employed as Deputy Director General Quality Assurance (Adm) in DGQA/MoD, residing at 47/19, Rajpur Road, Civil Lines, Delhi-110054, have changed my name and shall hereafter be known as TAFSIR ALAM.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

S.M. TAFSIR ALAM
[Signature (in existing old name)]

I, hitherto known as Sultana Daughter of Sh. Nanne Khan, residing at H. No. 1028, Nangla Sabal, URF Gonda, PS Gonda, Tehsil Iglas, Distt. Aligarh, UP-202123, have changed my name and shall hereafter be known as SANIYA.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

Sultana
[Signature (in existing old name)]

I, hitherto known as ARVIND KUMAR son of Sh. JAGDISH PRASAD SHASTRI, employed as Office Assistant Gr. III, in the NBCC (India) Limited, NBCC Bhawan, Lodhi Road, New Delhi-110003, residing at K-9, Naveen Shahdara, Delhi-110032, have changed my name and shall hereafter be known as ARVIND KUMAR SHARMA.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

ARVIND KUMAR
[Signature (in existing old name)]

I, hitherto known as SUNIL KUMAR BHARTI son of Sh. SHANKER BHARTI, by profession Advocate, residing at Flat No.-31C, Pink Apartments, Sector-1A, Dwarka, New Delhi-110045, have changed my name and shall hereafter be known as SHIV BHATT.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

SUNIL KUMAR BHARTI
[Signature (in existing old name)]

I, hitherto known as VIKAS GUPTA Son of Sushil Kumar, Self employed, residing at B-004, Golf Enclave, GH-27, Sector 21C, Part-III, Faridabad, Haryana-121001, have changed my name and shall hereafter be known as VIKASH KUMAR.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

VIKAS GUPTA
[Signature (in existing old name)]

I, hitherto known as CHHAJA RAM Son of BHARAM RAM, residing at Village Tokarla, Post Kerli, Teh-Rani, District Pali, Rajasthan, have changed my name and shall hereafter be known as SAJJAN CHOUDHARY.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

CHHAJA RAM
[Signature (in existing old name)]

I, hitherto known as NARENDER SINGH Son of Sh. LAKSHMAN SINGH, employed as Chief Manager (MM) at Northern Coalfields Limited, Singrauli (MP)-486889, residing at D-48, Vikas Kunj, NCL Colony, Singrauli (MP)-486889, have changed my name and shall hereafter be known as NARENDER SINGH SAINI.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

Narender Singh
[Signature (in existing old name)]

I, hitherto known as SHESH RAHUL VISHWAS Son of VISHWAS SHESH, employed as Major in Indian Army, residing at 546, Kargil Block, ABHM, Chankyapuri, New Delhi-21, have changed my name and shall hereafter be known as RAHUL SHESH.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

Shesh Rahul Vishwas
[Signature (in existing old name)]

I, hitherto known as PRAMOD Son of LATE BISHWANATH, employed as Care Taker, CCCNL (E)/TRS/ Eastern Railway/Asansol, residing at Mohalla-Shital Tola, Bhola Jee Ka Gali, Arrah Ward No. 37, Post:- Arrah, P.S.- Arrah Nagar, Dist.:- Bhojpur (Bihar), have changed my name and shall hereafter be known as PRAMOD KUMAR SINGH.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

PRAMOD
[Signature (in existing old name)]

I, hitherto known as BHAVNA GUPTA W/o VIVEK KUMAR SINGH, residing at 104 A/1, Himmat Ganj, Prem Nagar, Allahabad-211016, U.P. have changed my name and shall hereafter be known as BHAVANA SINGH.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

BHAVANA GUPTA
[Signature (in existing old name)]

I, hitherto known as Avnika Gupta wife of Shri Sandeep Jindal, residing at Flat No. 803, Block-C1B, DDA Pocket-1, Sector-18B, Dwarka, New Delhi-110078, have changed my name and shall hereafter be known as Avnika Jindal.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

Avnika Gupta
[Signature (in existing old name)]

I, hitherto known as Shanker Mandal S/o Shri Kamal Kirtania, residing at Fundurdihari (Nehru Nagar) Ambikapur, Distt. Sarguja, (C.G.), have changed my name and shall hereafter be known as Sona Kirtania.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

Shanker Mandal
[Signature (in existing old name)]

I, hitherto known as SIYA RAM Son of Shri GAURI SHANKER, employed as Warrant Officer Incharge Command Mechanical Transport Office in Headquarter Maintenance Command in Indian Air Force, residing at SMQ 111/3, Vayusena Nagar, Nagpur (Maharashtra)-440007, have

changed my name and shall hereafter be known as SIYARAM UTTAM.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

SIYA RAM
[Signature (in existing old name)]

I, Anupam Singhal son of Surender Kumar Singhal, residing at 32-D, Pocket-B, Siddharth Extention, Delhi-110014, have changed the name of my minor daughter Nandini Singhal aged 15 years and she shall hereafter be known as Kaashvi Singhal.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

Anupam Singhal
[Signature of Guardian]

I, hitherto known as G. J. Gayitri W/o Shri K. G. Raju, employed as Personal Assistant in Advanced Data Processing Research Institute, Department of Space, Govt. of India, 203, Akbar Road, Tarbund, Secunderabad, Telengana-500009, residing at H. No.-1-5-391/2, Opp, 22M Bus Stop, Surya Nagar Colony, Old Alwal, Secunderabad-500010, have changed my name and shall hereafter be known as K. R. Gayathri.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

G. J. Gayitri
[Signature (in existing old name)]

I, Vivekanand Khandelwal son of Shri Parmanand Khandelwal, employed as General Manager—Taxation in the company Hinduja Ventures Ltd., residing at B 301, Mahudi Darshan CHS, Dattani Park, Thakur Village, Kandivali (E) Mumbai-400101, have changed the name of my minor son Sachchidanand Khandelwal aged Five (5) years and he shall hereafter be known as Sachit Khandelwal.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

Vivekanand Khandelwal
[Signature of Guardian]

I, hitherto known as VINOD KUMAR son of Shri KARUNA SHANKAR, employed as Tailor/HS in the Ordnance Clothing Factory, Shahjahanpur (UP), Ministry of Defence, residing at Indra Nagar Colony, H.N. 71, Shahjahanpur (UP)-242001, have changed my name and shall hereafter be known as VINOD KUMAR PANDEY.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

VINOD KUMAR
[Signature (in existing old name)]

I, hitherto known as A V SURESH son of A VENUGOPAL, employed in Private Limited, residing at No. 1029/5, Sapthagiri Nilayam, Near Ganesha Temple, 10th Cross Swarna Nagar, Robertsonpet, K.G.F. 563 122, Bangarpet Taluk, Kolar District, have changed my name and shall hereafter be known as SANATH.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

A V SURESH
[Signature (in existing old name)]

I, hitherto known as Rabindranath Urao Son of Late Mahadeb Oraon, employed as Income Tax Department, Ayakar Bhawan, Kolkata-700071, residing at Village—Swami Tyageswaranda Sarani, Post Office—Saradapally, P.S.—Bhadreswar, District—Hooghly, Pincode-712124, have changed my name and shall hereafter be known as Rabindranath Oraon.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

Rabindranath Urao
[Signature (in existing old name)]

I, hitherto known as Munee D/o Hargyan, residing at Village Assan, Tehsil & Distt. Jind, Haryana, have changed my name and shall hereafter be known as Monika.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

Munee
[Signature (in existing old name)]

I, hitherto known as Mohd Zaid Son of Mohd Imran, employed as Manager in the On Time Technologies Private Limited, residing at Y-3, DDA Flats, New Ranjit Nagar, New Delhi-110008, have changed my name and shall hereafter be known as Zaid Azmi.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

Mohd Zaid
[Signature (in existing old name)]

I, hitherto known as VIKAS GUPTA Son of Sushil Kumar, Self employed, residing at B-004, Golf Enclave, GH-27, Sector 21C, Part-III, Faridabad, Haryana-121001, have changed the

name of my minor son AKSHIT GUPTA aged 13 years and he shall hereafter be known as AKSHAT GUPTA.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

Vikas Gupta
[Signature of Guardian]

I, GOVIND GUPTA son of Shri K. C. GUPTA, residing at 10A/39, Block-10, Shakti Nagar, Delhi-110007, have changed the name of my minor son ANIRUDH NANNU GUPTA aged 14 years and he shall hereafter be known as ANIRUDH GUPTA.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

GOVIND GUPTA
[Signature of Guardian]

I, hitherto known as Munni Kumari W/o Late Shri Shyam Singh Rawat, residing at C-3/69, Gali No.-3, Dayal Pur Exten., Delhi-110094, have changed my name and shall hereafter be known as Meena.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

Munni Kumari
[Signature (in existing old name)]

I, hitherto known as Mohender Kumar @ Mohender Kaushik @ Mohender Kumar Kaushik S/o Late Sh. Hari Kumar, R/o Village:- Bapora, Teh & Distt. Bhiwani, Haryana-127111, have changed my name and shall hereafter be known as Mohender Kumar Kaushik.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

Mohender Kumar @ Mohender Kaushik
@ Mohender Kumar Kaushik
[Signature (in existing old name)]

I, hitherto known as PINKU S/O LATE SH. BHURE LAL, R/O B-87, Aman Vihar, Kirari Suleman Nagar, Delhi-110086, have changed my name and shall hereafter be known as PUSHKAR CHHOKAR.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

Pinku
[Signature (in existing old name)]

I, hitherto known as P JAYANTHI daughter of M PALANISWAMY and wife of S MANI, employed as Nursing Officer in the Military Nursing Service, residing at

231/20, Maps Accommodation, Command Hospital (Air Force), Bangalore-560007, have changed my name and shall hereafter be known as P JAYANTHIMHALA.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

P Jayanthi
[Signature (in existing old name)]

I, hitherto known as Mrs Manorma Rani alias Mrs. Manorma Sharma Wife of Shri A. C. Sharma, Resident of B-38, Parwana Apartments, Mayur Vihar Phase I, Delhi-110091, have changed my name and shall hereafter be known as Mrs. Madhu Sharma.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

Manorma Rani alias Manorma Sharma
[Signature (in existing old name)]

I,inderjeet Singh Walia Son of Sh. S. S. Walia, residing at 2943/13, 2nd Floor Ranjit Nagar, New Delhi-110008, have changed the name of my minor daughter Preet Kawal Walia aged 14 years and she shall hereafter be known as Preet Kaur Walia.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

inderjeet Singh Walia
[Signature of Guardian]

I, Amit Mahajan Son of Sh. Virender Mahajan, employed as General Manager—Sales & Marketing in the M/s. Decibel Technologies, Having Office at 791, 1st Floor, Udyog Vihar Phase-V, Gurgaon-122016, residing at B-268, 2nd Floor, Sushant Lok Phase-3, Sector 57, Gurgaon-122003 (India), have changed the name of my minor daughter YUKTI GIOTRA aged 14 years, 5 months and she shall hereafter be known as YUKTI MAHAJAN.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

AMIT MAHAJAN
[Signature of Guardian]

I, hitherto known as Rawinderjit Kaur daughter of Sh. Amrik Singh Wife of Jasbir Singh, residing at H. No. B-5/153, St. No. 15A, Staff Road, Murgi Mohalla, Batala, District Gurdaspur, Punjab, India, have changed my name and shall hereafter be known as Ravinderjit Kaur.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

Rawinderjit Kaur
[Signature (in existing old name)]

I, hitherto known as Naresh Kumar @ Naresh Chopra Son of Jaswant Rai, residing at House No.-69, Mohalla No.-21, Sadar Bazar, Jalandhar Cantt. Punjab, have changed my name and shall hereafter be known as Naresh Chopra.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

Naresh Kumar @ Naresh Chopra
[Signature (in existing old name)]

I, hitherto known as Parveen Kumari Wife of Sh. Sanjeev Misra, residing at H. No. 16, Yog Sadan, Street No. 2, New Adarsh Nagar, Dagana Road, Hoshiarpur, Punjab-146001, have changed my name and shall hereafter be known as Parveen Misra.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

Parveen Kumari
[Signature (in existing old name)]

I, hitherto known as PARAMJIT KAUR Wife of SUNIL KUMAR, residing at Ward No. 8, Bhattan Mohalla, Garhshankar, Tehsil Garhshankar, Distt. Hoshiarpur, Punjab, India, have changed my name and shall hereafter be known as PINKI.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

PARAMJIT KAUR
[Signature (in existing old name)]

I, hitherto known as SUNIL KUMAR MALLHA S/o Late Sh. Jagannath, employed as Technician-E in the National Science Centre, Ministry of Culture, Pragati Maidan, New Delhi-110001, residing at House No. 215, Gali No. 7, Utranchal Enclave, Kamal Pur, Burari, Delhi-110084, have changed my name and shall hereafter be known as SUNIL KUMAR.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

SUNIL KUMAR MALLHA
[Signature (in existing old name)]

I, hitherto known as Shyam Bhalla S/o Sh. Roshan Lal Bhalla, R/o E-5, 1st Floor, Near Pali Factory, East Uttam Nagar, New Delhi-110059, have changed my name and shall hereafter be known as Sharad Kumar Bhalla.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

Shyam Bhalla
[Signature (in existing old name)]

I, hitherto known as ANITA AMANI NABI wife of ALI REZA AMANI NABI, employed as Associate Professor in Chemistry in the Govt. Collage for Women, Rohtak, Haryana, residing at H.No. 585, Sector-14, Rohtak, Haryana-124001, have changed my name and shall hereafter be known as ANITA AMANI.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

ANITA AMANI NABI
[Signature (in existing old name)]

I, hitherto known as MARUT CHOUDHARI Son of MANOJ KUMAR CHOUDHARI, Self employed, residing at Village Post-Garoli, Tehsil-Nowgong, Dist.-Chhatarpur (M.P.), Pin-471201, have changed my name and shall hereafter be known as PRAVEEN CHOUDHARI.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

MARUT CHOUDHARI
[Signature (in existing old name)]

I, hitherto known as Durgesh Vashishth D/o Sh. Dinesh Kumar, employed as Asstt. Manager, ABC Consultants, Gurgaon, R/o 92, Bhogal Road, Jungpura, New Delhi-110014, have changed my name and shall hereafter be known as Darshee Sharma.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

Durgesh Vashishth
[Signature (in existing old name)]

I, SOHANLAL son of Late Sh. NATTHU RAM, residing at 410, C&D Block, Shalimar Bagh, New Delhi-110088, have changed the name of my minor son MANAV KUMAR aged 13 years and he shall hereafter be known as NAKUL LAL.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

SOHANLAL
[Signature of Guardian]

I, SOHANLAL son of Late Sh. NATTHU RAM, residing at 410, C&D Block, Shalimar Bagh, New Delhi-110088, have changed the name of my minor son HARSH KUMAR aged 16 years and he shall hereafter be known as ARJUN LAL.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

SOHANLAL
[Signature of Guardian]

I, hitherto known as Umesh Kumar S/o Shri Kailash Chand Sharma, employed as Income Tax Officer, Income Tax Office, CR Building, IP Estate, New Delhi, residing at 404, Sector-15A, Noida-201301, have changed my name and shall hereafter be known as Umesh Kumar Sharma.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

Umesh Kumar
[Signature (in existing old name)]

I, hitherto known as Deepti Manchanda Wife of Deepak Gupta, residing at D-14, 1st Floor, Preet Vihar, Delhi-110092, have changed my name and shall hereafter be known as Deepti Gupta.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

Deepti Manchanda
[Signature (in existing old name)]

I, hitherto known as Modhavadia Jitesh Parbat S/o Parbat Bhai, R/o Vil-Sindhupur, Post-Malanka, Teh-Kutiyana, Distt-Porbandar, State-Gujarat, PIN-362650 and presently R/o Qtr No 10/10, Old APS Colony, Delhi Cantt-110010, have changed my name and shall hereafter be known as Modhavadia Jitesh.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

Modhavadia Jitesh Parbat
[Signature (in existing old name)]

I, Manoj Kumar Aggarwal S/o Sh. Banwari Lal Aggarwal, R/o Flat No. 3, SFS Flats, Mukherjee Nagar, Delhi-110009, have changed the name of my minor son from Rishesh aged about 15 years and he shall hereafter be known as Rishesh Aggarwal.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

Manoj Kumar Aggarwal
[Signature of Guardian]

I, hitherto known as REKHA DHANKHER wife of MOHIT SAROHA, residing at H. No.-1173, Sector-9, Faridabad, Haryana-121006, have changed my name and shall hereafter be known as REKHA SAROHA.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

REKHA DHANKHER
[Signature (in existing old name)]

I, hitherto known as Shammi Asari @ Shammi.P.Madhu D/o Mr. P. Madhu Asari, residing at Sector-9, H.No.-911, Vasundhara, Ghaziabad (U.P.)-201012, have changed my name and shall hereafter be known as Shammi Parameswaran Madhu.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

Shammi Asari @ Shammi.P.Madhu
[Signature (in existing old name)]

I, hitherto known as Abhishek S/o Sushil Kumar, residing at RZ-37A, Upper Ground Floor Back Side, Pankha Road, Mahindra Park, Uttam Nagar, West Delhi, Delhi-110059, have changed my name and shall hereafter be known as Abhishek Mehta.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

Abhishek
[Signature (in existing old name)]

I, hitherto known as AKSHAY DHINGIA son of JITENDRA KUMAR, residing at Village-Haloli, P.O.-Sisoli, Distt.-Muzaffar Nagar, Uttar Pradesh-251319, have changed my name and shall hereafter be known as ARJUN.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

AKSHAY DHINGIA
[Signature (in existing old name)]

I, hitherto known as Agam Gandhi Son of Charanjeet Singh, residing at 5575/75, Regharpura, Karol Bagh, New Delhi-110005, have changed my name and shall hereafter be known as Agam Singh Gandhi.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

Agam Gandhi
[Signature (in existing old name)]

I, hitherto known as DEVENDRA KUMAR CHAUDHARY S/o Sh. MAHABIR SINGH, employed as Warrant Officer in Indian Air Force, residing at H.No. RZH-641A, Gali No. 16, Raj Nagar Part-II, Palam Colony, New Delhi-110077, have changed my name and shall hereafter be known as DEVENDRA KUMAR TOMER.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

DEVENDRA KUMAR CHAUDHARY
[Signature (in existing old name)]

I, Kulbir Singh Lamba son of Sukhbir Singh Lamba, residing at C-68, Ist Floor Front, Inderpuri, New Delhi-110012, have changed the name of my minor daughter Ishgun Lamba aged 14 years and she shall hereafter be known as Ishgun Kaur Lamba.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

Kulbir Singh Lamba
[Signature of Guardian]

I, Kulbir Singh Lamba son of Sukhbir Singh Lamba, residing at C-68, Ist Floor Front, Inderpuri, New Delhi-110012, have changed the name of my minor son Jyotbir Lamba aged 17 years and he shall hereafter be known as Jyotbir Singh Lamba.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

Kulbir Singh Lamba
[Signature of Guardian]

I, hitherto known as SANTOSH KUMAR Son of Shri JAIRAM, employed as Head Asset Management PVR Cinemas, residing at 16-C, Pocket R, Dilshad Garden, Delhi-110095, have changed my name and shall hereafter be known as SANTOSSH KUMAR PARAB.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

SANTOSH KUMAR
[Signature (in existing old name)]

I, Vijay Kumar S/o Sh. Khazan Singh, R/o H. No. 22, Gali No. 1, Harijan Basti, Sadatpur, Delhi-110094, have changed the name of my minor son from Punit Kumar Jayant aged about 15 years and he shall hereafter be known as Punit Kumar.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

Vijay Kumar
[Signature of Guardian]

I, hitherto known as Ranbir Singh Son of Nafe Singh, residing at H.No.-375/2, Ward No.-2, VPO Kalanaur, Tehsil Kalanaur, District Rohtak, Haryana-124113, have changed my name and shall hereafter be known as Ranbir Singh Ahlawat.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

Ranbir Singh
[Signature (in existing old name)]

I, hitherto known as Sh. Vishnu Kumhar Son of Sh. Sadhu Ram, employed as TGT Hindi in the Directorate of Education, residing at Ward No.-4, Kherli, Alwar, Rajasthan-321606, have changed my name and shall hereafter be known as VISHNU KUMAWAT.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

Vishnu Kumhar
[Signature (in existing old name)]

I, hitherto known as Ankit Grover Son of Sh. Kamal Prakash Grover, residing at A-20, Arya Nagar Apartment, I.P. Ext., New Delhi-110092, have changed my name and shall hereafter be known as Ankkit Kamal Grover.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

Ankit Grover
[Signature (in existing old name)]

I, hitherto known as PARVEEN KUMAR S/o Sh. MOHAN LAL BASRA, employed as Single Window Operator in the State Bank of Hyderabad, residing at WZ-6, Plot No.-14, Vishnu Park, New Delhi-110018, have changed my name and shall hereafter be known as PRAVEEN KUMAR BASRA.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

PARVEEN KUMAR
[Signature (in existing old name)]

I, hitherto known as Vivek Kumar Nirankari Son of Shri Gulshan Kumar Nirankari, residing at 1/354, 2nd Floor, Pradhan Mkt., Opp. SBI, Nirankari Colony, Delhi-110009, have changed my name and shall hereafter be known as Vivek Makkar.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

Vivek Kumar Nirankari
[Signature (in existing old name)]

I, hitherto known as Geeta Janmeja Wife of Pravin Kumar Janmeja, residing at No.-230, Sector-29, Noida UP, have changed my name and shall hereafter be known as Geeta Bala Janmeja.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

Geeta Janmeja
[Signature (in existing old name)]

I, Deepak Tyagi son of Mangoo Dutt Tyagi, employed as Associate General Manager in Sopra (I) Pvt. Ltd., residing at 311, Siena, Mahagun Moderne, Sector 78, Noida, U.P.-201301, have changed the name of my minor son Vasu, aged 9 years 10 months and he shall hereafter be known as Kartikey Tyagi.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

Deepak Tyagi
[Signature of Guardian]

I, hitherto known as Manandeep Gulati W/o Sh. Siddhartha Prakash Bhatnagar, residing at S-171, Ground Floor, Greater Kailash-II, New Delhi-110048, have changed my name and shall hereafter be known as MANAN BHATNAGAR.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

Manandeep Gulati
[Signature (in existing old name)]

I, hitherto known as Satish Kumar Son of Shri F. C. Chandol, employed as Asstt. Director in the Intelligence Bureau (MHA), Govt. of India, 35, S. P. Marg, New Delhi-110021, residing at House No. 1449/177, Durgapuri, Loni Road, Shahdara, Delhi-110093, have changed my name and shall hereafter be known as Satish Kumar Saini.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

SATISH KUMAR
[Signature (in existing old name)]

I, hitherto known as LACHHMI Wife of RAM KISHAN, employed as MTS S-11, Delhi Public Library, Anaj Mandi, Shahdra, Delhi-110032, residing at S-3/229, Shalimar Garden, Extn.-1, Sahibabad, Ghaziabad, U.P.-201005, have changed my name and shall hereafter be known as LAXMI.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

LACHHMI
[Signature (in existing old name)]

I, hitherto known as ARCHANA MANGAR W/o Sh. RANDHIR MANGAR, residing at D-1, 1004, The Legend Sector-57, Gurgaon, Haryana-122002, have changed my name and shall hereafter be known as ARCHANNA MANGARR.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

ARCHANA MANGAR
[Signature (in existing old name)]

I, RANDHIR MANGAR F/o DRISHTI MANGAR, residing at D-1, 1004, The Legend Sector-57, Gurgaon, Haryana-122002, have changed the name of my minor Daughter DRISHTI MANGAR aged 16 years and she shall hereafter be known as DRISHHTI MANGAR.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

RANDHIR MANGAR
[Signature of Guardian]

I, hitherto known as P Raju S/o Poochi Naicker, R/o BE-324, Gali No. 4, Hari Nagar, South West Delhi, Delhi-110064, have changed my name and shall hereafter be known as P Chinnamarisamy.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

P Raju
[Signature (in existing old name)]

I, hitherto known as VEENENDRA PAL PANWAR Son of Sh. BABU RAM, employed as Warrant Officer in the 3 Wing, Air Force Station, Palam, residing at SMQ No.-106/2, Old Pinto Park, Air Force Station, Palam, New Delhi-110010, have changed my name and shall hereafter be known as VIRENDRA PAL.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

VEENENDRA PAL PANWAR
[Signature (in existing old name)]

I, hitherto known as PRANAV VEER SALUJA S/o PRITINDER SINGH SALUJA, residing at A-63, New Friends Colony, New Delhi-110025, have changed my name and shall hereafter be known as PRANAV VEER SINGH SALUJA.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

PRANAV VEER SALUJA
[Signature (in existing old name)]

I, hitherto known as Chhunni Devi Alias Asha Doharey W/o Late Ram Nath Doharey, Pensioner from BSNL Kanpur, UP, residing at W/194, M.I.G., Keshav Nagar, Kanpur, UP-208014, have changed my name and shall hereafter be known as Asha Doharey.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

Chhunni Devi Alias Asha Doharey
[Signature (in existing old name)]

I, hitherto known as MANOHAR LAL KALRA son of NARAIN SINGH, employed at Indraprastha Power Generation Company Limited as Technical Assistant Grade-1, residing at C-256, Pandav Nagar, Delhi-92, have changed my name and shall hereafter be known as MANOHAR LAL.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

MANOHAR LAL KALRA
[Signature (in existing old name)]

I, hitherto known as VIRINDER KUMAR, VIRINDER KUMAR UPPAL, VIRENDER KUMAR UPPAL, VIRENDER UPPAL, VARINDER KUMAR UPPAL AND V. K. UPPAL Son of Late Shri RAM KISHAN UPPAL, residing at 459, Kohat Enclave, Pitam Pura, Delhi-110034, have changed my name and shall hereafter be known as VIRINDER UPPAL.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

VIRINDER KUMAR, VIRINDER KUMAR UPPAL,
VIRENDER KUMAR UPPAL, VIRENDER UPPAL,
VARINDER KUMAR UPPAL AND V. K. UPPAL
[Signature (in existing old name)]

I, hitherto known as Narinder Kaur wife of Sh. Devender Singh Aidan, a Housewife, residing at House No. 4579, Darshan Vihar, Sector-68, S.A.S. Nagar (Mohali), Punjab, India, have changed my name and shall hereafter be known as Narendra Kaur Aidan.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

NARINDER KAUR
[Signature (in existing old name)]

I, hitherto known as Pankaj S/o Sh. Krishan Gopal, R/o 297, Block-AA, Shalimar Bagh, Delhi-110088, have changed my name and shall hereafter be known as Pankaj Sharma.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

Pankaj
[Signature (in existing old name)]

I, Anil Kumar son of Shri Phule Ram, residing at A-5C/23B, Janakpuri, New Delhi-110058, have changed the name of my minor son Aman Choudhary aged 14 years and he shall hereafter be known as Aman Kumar.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

Anil Kumar
[Signature of Guardian]

I, hitherto known as JASWINDER KAUR BHATTI wife of GURDEEP SINGH BHATTI, employed as Branch Officer in the Supreme Court of India, residing at Flat No.-1061, Sector-12, R.K. Puram, New Delhi-110022, have changed my name and shall hereafter be known as JASWINDER KAUR.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

JASWINDER KAUR BHATTI
[Signature (in existing old name)]

I, hitherto known as Dinesh Kumar S/o Ashok Kumar, Self employed at House No. 209/1A, Padam Nagar, Street No. 5, Kishan Ganj, Delhi-110007, have changed my name and shall hereafter be known as Daksh Verma.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

Dinesh Kumar
[Signature (in existing old name)]

I, hitherto known as SUNITA KUMARI Wife of KAMAL SEHGAL, residing at 20, LIG Flats, Gayatri Enclave, Opp. A.N. Depot, New Delhi-110062, have changed my name and shall hereafter be known as RICHA SEHGAL.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

SUNITA KUMARI
[Signature (in existing old name)]

I, hitherto known as Balbir Kaur Wife of Satnam Singh, residing at H.No.-170, Urban Estate, Phagwara, Distt. Kapurthala, Punjab, have changed my name and shall hereafter be known as Baljeet Kaur.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

Balbir Kaur
[Signature (in existing old name)]

I, hitherto known as SOBAN SINGH S/o Late Sh. TARA SINGH, employed as Govt. Service, residing at Flat No. 189, Pocket-16, Adarsh Apartments, Sector-3, Dwarka, New Delhi, have changed my name and shall hereafter be known as SOBAN SINGH RAWAT.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

SOBAN SINGH
[Signature (in existing old name)]

I, hitherto known as Praveen Gurjar Son of Shri Mukhiya Gurjar, residing at F-13/2, Krishna Nagar, Delhi-110051, have changed my name and shall hereafter be known as Parvinder Singh.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

Praveen Gurjar
[Signature (in existing old name)]

I, hitherto known as Govind Kumar Agrawal son of Sh. Jay Narayan Agrawal, residing at H. No.-445, Gali No.-33D, Molar Band Extn., Badarpur, New Delhi-110044, have changed my name and shall hereafter be known as Govind Goyal.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

Govind Kumar Agrawal
[Signature (in existing old name)]

I, hitherto known as NUKTA PRASAD Son of Sh. BHAIKAV PRASAD, employed as Teacher in the R. P. V. V. Surajmal Vihar, (Directorate of Education, NCT of Delhi), Delhi-110092, residing at C-73, GTB Enclave, Delhi-110093, have changed my name and shall hereafter be known as NUKTA PRASAD GANGWAR.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

NUKTA PRASAD
[Signature (in existing old name)]

I, hitherto known as SATENDER S/o Sh. Gurjeet Singh, residential Address B-55A, Gali No. 3, East Vinod Nagar, Delhi-110091, have changed my name and shall hereafter be known as SATENDER SINGH.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

SATENDER
[Signature (in existing old name)]

I, hitherto known as Meenakshi Wife of Rajindra Kumar, residing at RZ-345, Braham Puri, Sagar Pur, New Delhi-110046, have changed my name and shall hereafter be known as Leelawati.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

Meenakshi
[Signature (in existing old name)]

I, hitherto known as Jaskaran Makkad Son of Shri Ajit Singh Makkad, residing at 3, New Gandhi Nagar, Ghaziabad, U.P.-201001, have changed my name and shall hereafter be known as Jaskaran Singh Makkad.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

Jaskaran Makkad
[Signature (in existing old name)]

I, Vindeshwari W/o Sh. Kawaljeet Singh, R/o 21-B-G/F/ KH-563, Sultanpur, New Delhi-110030, have changed the name of my minor son from Aman Singh Randhava age 13 years and he shall hereafter be known as Aman Singh.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

Vindeshwari
[Signature of Guardian]

I, hitherto known as Mahesh Kumar S/o Late Sh. Chetan Das, R/o H. No. J-23-24, Sriniwaspuri, New Delhi-110065, have changed my name and shall hereafter be known as Mahesh Gandhi.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

Mahesh Kumar
[Signature (in existing old name)]

I, hitherto known as Raju Kumar Son of Shri Roshan Lal, residing at C-790/91, Near Shani Bazar, Hastsal Road, Uttam Nagar, West Delhi, Delhi-110059, have changed my name and shall hereafter be known as Rajeev Kumar.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

Raju Kumar
[Signature (in existing old name)]

I, hitherto known as Harmesh Lal Son of Bhjna Ram, residing at Village Hussain Chak, P.O. Hansron Tehsil Nawashahr Distt SBS Nagar, Punjab, have changed my name and shall hereafter be known as Harmesh Singh.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

Harmesh Lal
[Signature (in existing old name)]

I, hitherto known as Priye Ranjan son of Niranjana Kumar, residing at B-16, Christian Colony, Patel Chest, Delhi-110007,

have changed my name and shall hereafter be known as Ravi Ranjan.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

Priye Ranjan
[Signature (in existing old name)]

I, hitherto known as Darshana Rani wife of Manjit Kumar, Housewife, residing at Ward No. 2, Matharuan Wali Gali, Shahkot, District Jalandhar, Punjab, have changed my name and shall hereafter be known as Darshana.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

Darshana Rani
[Signature (in existing old name)]

I, hitherto known as Manjit Singh son of Gurdas Ram, Self employed, residing at Ward No. 2, Matharuan Wali Gali, Shahkot, District Jalandhar, Punjab, have changed my name and shall hereafter be known as Manjit Kumar.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

Manjit Singh
[Signature (in existing old name)]

I, hitherto known as Jatinder Pal alias Jatinder Kumar son of Manjit Kumar, Self employed, residing at Manjit Cloth House, Main Bazar, Ward No. 2, Shahkot, District Jalandhar, Punjab, have changed my name and shall hereafter be known as Jatinder Kumar.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

Jatinder Pal alias Jatinder Kumar
[Signature (in existing old name)]

PUBLIC NOTICE

It is for general information that I, Ashib Khan S/O Mukthar residing at New Railway Colony, Quarter No.-883/B, Kota-324002 Rajasthan declare that name of mine & my father has been wrongly written as Asib Kha & Mukhtar Kha in my 10th Class education documents. The actual name of mine & my father are Ashib Khan & Mukthar, which may be amended accordingly.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

Ashib Khan
[Signature]

It is for general information that I, Kavita Rani W/O Shiv Kumar residing at VPO- Katesra, Distt Palwal, Haryana-121102 declare that name of mine, my father and my mother has been wrongly written as Kavita Sharma, Shobharam Sharma and Dayawati Sharma in my 12th class mark sheet. The actual name of mine, my father and my mother are Kavita Rani, Shobha Ram Sharma and Dayawati respectively which may be amended accordingly.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

Kavita Rani
[Signature]

It is for general information that I, JANG BAHADUR S/O RAM DEV residing at KH-580/9, GALI No.-9, H-BLOCK, SINDHI COLONY SAWROOP NAGAR, DELHI-110042 declare that name of my father has been wrongly written as RAM SUMER in my Driving license. The actual name of my father is RAM DEV which may be amended accordingly.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

JANG BAHADUR
[Signature]

It is for general information that I, Saurav Kumar S/O Gopal Jha residing at B-60, Amar Jyoti Colony, Near DTU Collage, Rohini Sector-17, Delhi-110089 declare that name of mine has been wrongly written as Saurav in my Pan Card (CKTPS4794L) and Driving license(0820050211066). The actual name of mine is Saurav Kumar respectively which may be amended accordingly.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

Saurav Kumar
[Signature]

It is for general information that I, Mala W/O Late Sh. Ram Bahadur residing at 'B' Block, 1920 Holambi Kalan, Metro Vihar, Phase-II, Delhi-110082 declare that name of my husband has been wrongly written as Sikander in my minor daughter Priya aged 15 years educational documents. The actual name of my husband is Late Sh. Ram Bahadur which may be amended accordingly.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

Mala
[Signature]

It is for general information that I, ARUN KUMAR MISHRA S/O Shri PRATAP NARAYAN MISHRA residing

at H.No.-302, GALI No.-1 BHAGAWAT BUILDING, KRISHNAPURI, MANDAWLI FAJALPUR, DELHI-110092 declare that name of mine and my wife has been wrongly written as ARUN MISHRA & GUDDI in my minor son HARSH VARDHAN MISHRA aged 14 years educational documents. The actual name of mine and my wife are ARUN KUMAR MISHRA & KESH KUMARI MISHRA, which may be amended accordingly.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

ARUN KUMAR MISHRA
[Signature]

It is for general information that I, Surinder Kumar Malhotra S/O Jawahar Lal Malhotra residing at 1A/Ashoka Apartment, 7 Rajpura Road, Civil Lines, DELHI-110054 declare that name of mine has been wrongly written as Surinder Malhotra/S.K.Malhotra in my minor son Ridhav Malhotra aged 16 years School Admission Form, Birth certificate and 10th Class CBSE Mark Sheet. The actual name of mine is Surinder Kumar Malhotra which may be amended accordingly.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

Surinder Kumar Malhotra
[Signature]

It is for general information that I, Mukesh Kumar Jain S/o Late Sh. Gyan Prakash Jain R/o 52/19, Ground Floor, Ramjas Road, Karol Bagh, New Delhi-110005 do hereby declare that name of mine has been wrongly written as Mukesh Jain in my minor son's Naman Jain and my minor daughter's Arpita Jain School records. The actual name of mine is Mukesh Kumar Jain respectively, which may be amended accordingly.

It is certified that I, complied with other legal requirements in this connection.

Mukesh Kumar Jain
[Signature]

It is for general information that I, Prashant S/o Sh. Shri Niwas R/o H. No. 785, Pana Udyan, Mamoor Pur, North West Delhi, Delhi-110040, do hereby declare that name of my father has been wrongly written as Niwas in my 10th and 12th class marksheets and certificates. The actual name of my father is Shri Niwas, which may be amended accordingly.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

Prashant
[Signature]

It is for general information that I, Sourav Kakran S/O Ashok Kumar residing at A-313, Block A, Bhoomiheen Camp, New Delhi-110019 declare that name of my father has been wrongly written as Ashok Kakran in my 10th and 12th Class Mark sheet. The actual name of my father is Ashok Kumar which may be amended accordingly.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

Sourav Kakran
[Signature]

It is for general information that I, SHYAM SUNDER S/O Sh. JIWAT RAM residing at 2094/4AL-6, GALI No.-15, PREM NAGAR, NEW DELHI-110008 declare that name of my minor son has been wrongly written as RAHUL BHARTI aged 14 years education documents. The actual name of my minor son is RAHUL KUMAR BHARTI, which may be amended accordingly.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

SHYAM SUNDER
[Signature]

It is for general information that I, Prabeer Behuria S/o Sh. Bansheedhar Behuria R/o Village Ichhapur, P.O. Kayan, P.S. Mangalpur, Distt. Jajapur, Odisha-755011, do hereby declare that name of mine has been wrongly written as Ramesh Bansidhar in my Provident Fund record. The actual name of mine is Prabeer Behuria, which may be amended accordingly.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

Prabeer Behuria
[Signature]

It is for general information that I, Sanjay Kumar S/o Sh. Hari Chand R/o H.No. 2022, Chuna Mandi, Paharganj, New Delhi-110055 do hereby declare that name of mine, my daughter and my wife has been wrongly written as Sanjay Kumar Sarswal, Muskaan Sarswal, and Rakhi Sarswal in my daughter's Muskaan educational documents and in the other documents. The correct name of mine, my daughter and my wife is Sanjay Kumar, Muskaan and Rakhi respectively, which may be amended accordingly.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

Sanjay Kumar
[Signature]

It is for general information that I, Yogender Singh S/o Narayan Singh R/o 244, Sector 4, R.K. Puram New Delhi

110022, declared that name of my father has been wrongly written as Narain Singh in my 10th and 12th class educational documents. The actual name of my father is Narayan Singh respectively, which may be amended accordingly.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

Yogender Singh
[Signature]

It is for general information that I, Harjot Kaur Modi D/o Shri Harminder Singh Modi, residing at A-141, Kalkaji, New Delhi-110019, declare that name of mine has been wrongly written as Parveen Modi in my IDBI Bond Certificate Nos. 01383313 & 03161960. The actual name of mine is Harjot Kaur Modi respectively, which may be amended accordingly.

It is certified that I have complied with other legal requirement in this connection.

Harjot Kaur Modi
[Signature]

It is for general information that I, Umed Singh Yadav S/o Sh. Purshottam R/o H. No.778, Village & P.O. Chakkarpur, Gurgaon, Haryana-122002, do hereby declare that name of mine has been wrongly written as Umed Singh in my service record. The actual name of mine is Umed Singh Yadav, which may be amended accordingly.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

Umed Singh Yadav
[Signature]

It is for general information that I, Raj Kumar Chatri S/o Sh. Padan Chatri R/o 82, Khizrabad Village, New Friends Colony, South Delhi, Delhi-110025, do hereby declare that name of mine has been wrongly written as Rajesh Thapa in my UTI Mutual Fund. The actual name of mine is Raj Kumar Chatri, which may be amended accordingly.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

Raj Kumar Chatri
[Signature]

It is for general information that I, Mamta Aggarwal W/O Sushil Kumar Aggarwal residing at D-78, New Seelampur, Delhi-110053 declare that name of my husband has been wrongly written as Susheel Kumar Aggarwal in my minor daughter Priya Aggarwal aged 16 years educational documents. The actual name of my husband is Sushil Kumar Aggarwal which may be amended accordingly.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

Mamta Aggarwal
[Signature]

It is for general information that I, Anand Swaroop Azad S/O Sh. Dukh Haran Prasad residing at Village and P.O. Deharatiker, Distt., Gorakhpur, U.P.-273213 declare that name of mine has been wrongly written as Anand Sawroop Azad in my 10th and 12th Class Mark Sheet & Passing Certificate. The actual name of mine is Anand Swaroop Azad which may be amended accordingly.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

Anand Swaroop Azad
[Signature]

It is for general information that I, Yasin Son of S Khan Residing at U-40, Arvind Nagar, Delhi - 110053 declare that name of mine has been wrongly written as Yaseem in my driving License. The actual name of mine is Yasin respectively which may be amended accordingly.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

YASIN
[Signature]

It is for general information that I, BHEDI DHAMA S/O Late RAMPAL SINGH DHAMA residing at C-360/1, GALI No.-10, NEW USMANPUR, DELHI-110053 declare that name of mine has been wrongly written as BEHDI SINGH in my educational documents. The actual name of mine is BHEDI DHAMA, which may be amended accordingly.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

BHEDI DHAMA
[Signature]

It is for general information that I, Sushila Ahlawat W/O Lt-Col. Gurbachan Singh residing at C-412, Jal Vayu Towers, Sector-56, Gurgaon-122011, Haryana declare that name of mine has been wrongly written as Sushil in my husband service record. The actual name of mine is Sushila Ahlawat which may be amended accordingly.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

Sushila Ahlawat
[Signature]

It is for general information that I, Shalu W/O Dinesh Kumar residing at H. No.-356, Ratera-24, Distt.-Bhiwani, Haryana declare that name of mine has been wrongly written as Divya Devi urff Shalu and Divya Rani in my minor daughter Jaya Rani aged 14 years Birth certificate and educational documents. The actual name of mine is Shalu which may be amended accordingly.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

Shalu
[Signature]

It is for general information that I, KAVITA SHARMA W/O VIVEK KUMAR SHARMA residing at FLAT No.-533 GH-8 LIG, PASCHIM VIHAR, NEW DELHI-110087 declare that name of my minor daughter has been wrongly written as MEGHANA aged 13 years school documents. The actual name of my minor daughter is MEGHNA SHARMA which may be amended accordingly.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

KAVITA SHARMA
[Signature]

It is for general information that I, BHURE KHAN S/O ABDUL HAKIM residing at H. No.-1635, GALI No.-12, BUDH BAZAR, SANGAM VIHAR, NEW DELHI-110062 declare that name of my wife and my minor son has been wrongly written as SHANZIDA and SHAHARUKH KHAN in my minor son SHAHRUKH KHAN aged 15 years School documents. The actual name of my wife and my minor son are SANJIDA and SHAHRUKH KHAN, which may be amended accordingly.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

BHURE KHAN
[Signature]

It is for general information that I, Kusum Garg W/O Sanjay Garg residing at 3136/228, Chander Nagar, Tri Nagar, Delhi-110035 declare that name of mine has been wrongly written as Kiran Garg in my minor son Tanish Garg aged 14 years educational documents. The actual name of mine is Kusum Garg which may be amended accordingly.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

Kusum Garg
[Signature]

It is for general information that I, SUNIL KUMAR SHARMA S/O GHANSHYAM DASS SHARMA residing at

F-60, PREET VIHAR, Delhi-110092 declare that name of mine and my wife has been wrongly written as SUNIL SHARMA and HEMA in my minor son YUVRAJ SHARMA aged 14 years birth certificate. The actual name of mine and my wife are SUNIL KUMAR SHARMA and SHRUTI SHARMA which may be amended accordingly.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

SUNIL KUMAR SHARMA
[Signature]

It is for general information that I, Vikas S/O Shri Anoop Singh residing at Village Juan District Sonipat Haryana 131024 declare that name of my father and my mother has been wrongly written as Anup and Sumitra in my 10th and 12th class mark sheet. The actual name of my father and my mother is Anoop Singh and Sumitra Devi respectively which may be amended accordingly.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

Vikas
[Signature]

It is for general information that I, Kailash Ram Arya S/O Deewan Ram Arya residing at D-II/40, Ansari Nagar, New Delhi-110029 declare that name of mine, my wife and my son's has been wrongly written as Kailash Arya, Jyoti Arya and Sanjay in my minor son Sanjay aged 17 years educational documents. The actual name of mine, my wife and my son are Kailash Ram Arya, Jyoti Devi and Sanjay Kumar Arya respectively which may be amended accordingly.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

Kailash Ram Arya
[Signature]

It is for general information that I, Afzal UL Rehman Khan Suri S/o Late Salim UL Rehman Khan Suri R/o A-104, Taj Enclave, Geeta Colony, Delhi-110031, do hereby declare that name of mine and my wife has been wrongly written as Afzal Rahman Khan Suri and Asma Nizam in my minor son Rushan Salim suri school record. The actual name of mine and my wife is Afzal UL Rehman Khan Suri and Asma Nizam Suri respectively, which may be amended accordingly.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

Afzal UL Rehman Khan Suri
[Signature]

It is for general information that I, Mukesh Dev S/O Late Sh. Shyam Singh Dev residing at Village Bajena, District

Almora, Ranikhet, Uttarakhand-263645 declare that name of mine has been wrongly written as Mahender Singh in my Father Service record. The actual name of mine is Mukesh Dev, which may be amended accordingly.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

Mukesh Dev
[Signature]

It is for general information that I, Monu Devi W/O Ravi Shankar Meena residing at Plot No.-8B, E-Block, Qutub Vihar, Phase-1, Goyla Dairy, New Delhi-110071 declare that name of mine has been wrongly written as Monni Devi in my minor son's Nilesh Kumar Meena aged 14 years and Jitender Kumar Meena aged 13 years School Record and Birth Certificate. The actual name of mine is Monu Devi which may be amended accordingly.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

Monu Devi
[Signature]

It is for general information that I, Savita W/o Jagbir Singh residing at V.P.O. Rawta, South West Delhi, Delhi-110073 declare that name of mine has been wrongly written as Kavita in my Court Judgment. The actual name of mine is Savita which may be amended accordingly.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

Savita
[Signature]

It is for general information that I, NATIN W/O PANKAJ KUMAR residing at S-182, GALI No.-29, SOUTH ANARKALI, KRISHNA NAGAR, Delhi-110051 declare that name of mine has been wrongly written as NIDHI TITORIA in my minor son SHUBH TITORIA aged 15 years educational documents. The actual name of mine is NATIN which may be amended accordingly.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

NATIN
[Signature]

It is for general information that I, Satvinder Singh S/O Trilochan Singh residing at 3414/249, Hansa Puri, Trinagar, Delhi-110035 declare that name of my father has been wrongly written as Tarlochan Singh in my C.B.S.E. (10th and 12th Class) educational documents. The actual name of my father is Trilochan Singh which may be amended accordingly.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

Satvinder Singh
[Signature]

It is for general information that I, SHIVE OME S/O AWADHESH KUMAR MISHRA residing C-36/4, GALI No.-1/3, BHAJANPURA, DELHI-110053 declare that name of mine has been wrongly written as SHIV OM in my PAN Card, VOTTER ID Card and 12th class documents. The actual name of mine is SHIVE OME, which may be amended accordingly.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

SHIVE OME
[Signature]

It is for general information that I, MADAN MOHAN HANDA S/O K L HANDA residing at 13, SWARAG ASHRAM NANAK RAM COLONY, Dr. MUHKERJEE NAGAR, NORTH WEST DELHI, DELHI-110009 declare that name of mine and my Father has been wrongly written as MADAN MOHAN and KASTURI LAL in my Driving License. The actual name of mine and my Father are MADAN MOHAN HANDA and K L HANDA, which may be amended accordingly.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

MADAN MOHAN HANDA
[Signature]

It is for general information that I, PARAM LAL SAINI S/O SH. DALLI RAM, R/O HOUSE NO. 263, U-BLOCK, MANGOLPURI S-BLOCK, NORTH WEST, DELHI - 110083 declare that my father's name has been wrongly written as DAL CHAND in my Pan Card No. BTIPS2211K. The actual name of my father is DALLI RAM which may be amended accordingly.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

PARAM LAL SAINI
[Signature]

It is for general information that I, Anita Sharma W/o Late Ravinder Kumar, R/o C-20, Divya Jyoti Apartments, Sector-19, Rohini, Delhi, do hereby declare that name of mine has been wrongly written as Uma Sharma in service records of my deceased husband. The actual name of mine is Anita Sharma, which may be amended accordingly.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

Anita Sharma
[Signature]

It is for general information that I, Ananya Chowdhury D/O Late Sh. Mahesh Chowdhury R/o RZ-8k, Gali No.4, Indira Park, Palam Colony, New Delhi-110045 declare that the name of mine and my mother has been wrongly written as Ananya Choudhary and Pinky Choudhary in my educational documents. The actual name of mine and my mother is Ananya Chowdhury and Sneh Lata Chowdhury respectively which may be amended accordingly.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

Ananya Chowdhury
[Signature]

It is for general information that I, Mamta Saxena D/O R.K. Saxena residing at Flat No.-645, Tulsi Niketan-2, Bhopura Ghaziabad UP-201001 declare that name of my father has been wrongly written as Roop Kumar Saxena in my B.A. Pass Exam. The actual name of my father is R.K. Saxena which may be amended accordingly.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

Mamta Saxena
[Signature]

It is for general information that I, RAMPAL S/O RAM BHARAN residing at 735-B, PREM NAGAR-3, SULEMAN NAGAR, Y-BLOCK, KIRARI SULEMAN, DELHI-110086 declare that name of mine has been wrongly written as RAMPHAL in my ESI Card No.-1104077271. The actual name of mine is RAMPAL which may be amended accordingly.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

RAMPAL
[Signature]

It is for general information that I, Prithvi Singh S/O Sh. Hari Ram residing at 210, Holi Chowk, Ghuman Hera, Delhi-110073 declare that name of mine has been wrongly written as Prithi Singh in Property Documents. The actual name of mine is Prithvi Singh which may be amended accordingly.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

Prithvi Singh
[Signature]

It is for general information that I, SUBHASH KUMAR S/O Sh. JAI DEV residing 751, TANDA, BAKHTAWAR PUR, NORTH WEST DELHI, DELHI-110036 declare that name of mine and my wife has been wrongly written as SUBHASH and ITESH in my minor son SOURABH aged 15 years School documents. The actual name of mine and my wife are SUBHASH KUMAR and ITESH KUMARI, which may be amended accordingly.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

SUBHASH KUMAR
[Signature]

It is for general information that I, RAJESH S/O PAN SINGH residing at D-316, EXTN.-2, NANGLOI, Delhi-110041 declare that name of mine has been wrongly written as RAJESH SINGH in my Driving License and my PSV Driver's Badge No.-P041101318. The actual name of mine is RAJESH which may be amended accordingly.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

RAJESH
[Signature]

It is for general information that I, BIJENDER KUMAR S/O Sh. RAJ SINGH residing 88, HIMALYA APPARTMENT, POCKET-A-1, SECTOR-2, ROHINI, DELHI-110085 declare that name of mine has been wrongly written as BIJENDER SINGH in my minor daughter's PRIYA KUMARI aged 17 years in 10th and 12th education documents. The actual name of mine is BIJENDER KUMAR, which may be amended accordingly.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

BIJENDER KUMAR
[Signature]

It is for general information that I, Surender Kumar S/O Shri Raghunath Rai residing at 58-B, Gali No. 5, West Azad Nagar, New Delhi-110051 declare that name of mine has been wrongly written as Surinder Juneja in my Torrent Pharmaceuticals Limited Folio No. TRE0017000. The actual name of mine is Surender Kumar which may be amended accordingly.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

Surender Kumar
[Signature]

It is for general information that I, ASHOK SHARMA S/O MAHENDER SINGH residing at HNo.-201, KEWAL PARK, AZADPUR, Delhi-110033 declare that name of mine

has been wrongly written as ASHOK KUMAR in my CONDUCTOR'S LICENCE No.-DL-08/CL/984/08-09. The actual name of mine is ASHOK SHARMA which may be amended accordingly.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

ASHOK SHARMA
[Signature]

It is for general information that I, Champa devi W/O Late Sh. Hari Parkash residing at 26-P/19B, Gali No.-1, Part-2, Indra Park, Palam Colony, New Delhi-110045 declare that name of my husband has been wrongly written as Harish Sharma in my minor son Rohit Sharma aged 15 years educational documents. The actual name of my husband is Hari Parkash which may be amended accordingly.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

Champa devi
[Signature]

It is for general information that I, SAT PAL SINGH Son of NIRMAL SINGH residing at Village - Datta, P.O. Saidupur, Tehsil-Dasuya, District Hoshiarpur, Punjab - 144203 declare that name of my wife has been wrongly written as JASPREET KAUR in my Passport. The actual name of my wife is MANPREET KAUR respectively which may be amended accordingly.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

SAT PAL SINGH
[Signature]

It is for general information that I, Surinder Pal S/O Late Sukhdev Pal residing at D-484 Indra Kalyan Vihar Okhla Phase-1 New Delhi 110020 declare that name of mine has been wrongly written as Surendra Kumar in my IDBI DEEP DISCOUNT BOND, 1997. The actual name of mine is Surinder Pal Which may be amended accordingly.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

Surinder Pal
[Signature]

It is for general information that I, Savita W/o Sanjay Bhardwaj residing at C-52/40A, Gamri Extn., Gali No.6, Bhajanpura, Delhi-110053 declare that name of mine has been wrongly written as Savita Bhardwaj/Savita Rani Kaushik in my PF and in my minor son Vishal Bhardwaj aged 15 years School documents and my LIC polices. The actual name of mine is Savita which may be amended accordingly.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

Savita
[Signature]

It is for general information that I, SURENDRA SINGH S/O Sh. PREM NARAYAN residing C-2/136, RAJU PARK, KHANPUR, NEW DELHI-110080 declare that name of mine, my wife and my minor son's has been wrongly written as SURENDRA SINGH ATTRI, SUSHILA ATTRI and MANAV KUMAR ATTRI in my minor son's MANAV ATTRI aged 13 years School documents. The actual name of mine, my wife and my minor son are SURENDRA SINGH, SUSHILA and MANAV ATTRI which may be amended accordingly.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

SURENDRA SINGH
[Signature]

It is for general information that I, Niran Badhwar w/o Late Group Captain Nitrept Lal Badhwar, residing at D-46, Sector 4, Defence Colony, Dehradun (Uttarakhand), declare that my name has been wrongly written as Nini Badhwar in my husband's Service Documents. My actual name is 'Niran Badhwar' respectively which may be amended accordingly.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

Niran Badhwar
[Signature]

LOST & FOUND

It is for general information that I, Anju Makkar W/O Deepak Makkar residing at 15, old Anarkali, Delhi-110051 declare that my certificates bearing a No. SS/MBA/875 related to Mahila Pradhan Kshetriya Bachat Yojna has been lost. The use of this Certificate of Authority by any person will be illegal.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

Anju Makkar
[Signature]

प्रपत्र 155

(नियम 329 देखें)

(सदस्यों का स्वैच्छिक समापन)

कम्पनी का नाम : मैनोडील इन्वेस्टमेंट ऐण्ड फायनैस प्राइवेट लिमिटेड
अंतिम बैठक के आयोजन की सूचना

एतद्वारा कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 497 के अनुसरण में सूचना दी जाती है कि उपरोक्त नामक कम्पनी के सदस्यों की आम सभा मकान नंबर 42, ग्राउण्ड फ्लोर, जोर बाग, नई दिल्ली-110003 में

शुक्रवार, दिनांक 28 अक्टूबर, 2016 को पूर्वा. 10.00 बजे उनके समक्ष उस विधि का विवरण प्रस्तुत करने, जिसमें की समापन संचालित किया गया है तथा कम्पनी की सम्पत्ति का निपटान किया गया है तथा परिसमापक द्वारा दी जाने वाली किसी व्याख्या की सुनवाई और कम्पनी के विशेष प्रस्ताव द्वारा कम्पनी की बहियों, लेखा तथा कम्पनी और परिसमापक के दस्तावेजों के निपटान की विधि निर्धारित करने के भी प्रयोजनार्थ आयोजित की जाएगी।

संदेश जैन
दिनांकित : 20 सितम्बर, 2016 (परिसमापक)

इंडियन क्लीयरिंग कोर्पोरेशन लिमिटेड

मुंबई 400 001

सीआईएन: यू 67120 एमएच 200 पीएलसी 170358

इंडियन क्लीयरिंग कोर्पोरेशन लिमिटेड के उप-नियमों को संशोधित कर रहे हैं

6.1.4. समझौता और नेटवर्क (1) शेअर बाजार और समाशोधन निगम के लेनदेन के समझौता और भुगतान यह शेअर बाजार और समाशोधन निगम के उपविधि और नेटवर्क का कुल प्रक्रिया के अधीन निश्चित किया जाएगा और वह भी भारत के शेअर बाजार मंडल पूर्व सुरक्षितता के साथ (2) जो उपरोनिर्दिष्ट उपविधि में निर्देशित लेनदेन के भुगतान और समाशोधन (1) शेअर बाजार और समाशोधन निगम के उपविधि के अंतर्गत परिणामाकारक अंतिम होगा। और इस संबंधित पक्षकारों में अपरिवर्तनीय बंधनकारक होगा। (3) जब समझौता अंतिम होता है और अपरिवर्तनीय होता है। शेअर बाजार या तो समाशोधन निगम का हक्कअधिकार जिस तरह का प्रकरण हो। योग्य अनामत या तो सीमित व्यवसायिकों ने जमा किया हुआ शेअर बाजार अथवा समाशोधन निगम के उपविधि के अनुसार पक्षकारों के या समाशोधन सभासदों के उपविधि के अनुसार कोई भी दायित्व या तो व्यवसायिक सभासदों के खिलाफ दावा समाशोधन सभासद अथवा पक्षकार जिस तरह का प्रकरण है।

स्पष्टीकरण :- कोई शक निकालने के लिए यह घोषित किया जाता है समझौता जब संपूर्ण हो या कूल है। जो इस उपविधि से निर्देशित किया हुआ है वह अंतिम है और अपरिवर्तनीय है और जैसे भी पैसे सुरक्षितता या तो अन्य लेनदेन जो इस निश्चित किया हुआ समझौता परिणाम होगा जहां तक यह पैसा या सुरक्षितता या अन्य लेनदेन जो प्रत्यक्ष भुगतान किया हुआ है।

इंडियन क्लीयरिंग कोर्पोरेशन लिमिटेड के लिए
प्रसाद सावंत
कंपनी सचिव

वेदान्त लिमिटेड

(पहले सेसा स्टेरलाइट लिमिटेड/स्टेरलाइट एनर्जी लिमिटेड था)

गोवा-403001

सी.आई.एन.-L13209GA1965PLC000044

सार्वजनिक सूचना

वेदान्ता लिमिटेड (पहले सेसा स्टेरलाइट लिमिटेड/स्टेरलाइट एनर्जी

लिमिटेड था) का पंजीकृत कार्यालय, सेसा घोर, 20, ईडीसी भवन, पाटो, पणजी, गोवा-403001, इंडिया है। बिजली की पारेषण लाईनें बिछाने, या बिजली के संप्रेषण के लिए विद्युत संयंत्र स्थापित करने के लिए भारत सरकार के पास इलेक्ट्रिसिटी एक्ट, 2003 की धारा 164 के अधीन सभी अधिकार प्राप्त करने के लिए सरकार को आवेदन करना चाहती है तथा वह कार्य के समुचित समन्वय हेतु आवश्यक टेलिफोनिक या टेलिग्राफिक संचार के लिए भारतीय दूरसंचार कानून, 1885 के अंतर्गत सरकारी अधिकारियों में निहित दूरसंचार लाईनों की स्थापना और उनके रखरखाव या भविष्य में स्थापित की जाने वाली दूरसंचार लाईनों या उनके रखरखाव से संबंधित सभी अधिकारों को प्राप्त करने के लिए सरकार के पास आवेदन करना चाहती है। और कम्पनी उसके लिए स्थापना, संचालन और अन्य कार्य करेगी जोकि निम्नलिखित ट्रांसमिशन योजना की सर्व, निर्माण, स्थापना, निरीक्षण और अन्य कार्य के बाद किये जाएंगे।

पारेषण कंपनी का नाम--वेदान्त लिमिटेड

योजना में शामिल कार्य :

400 के.वि. स्वतंत्र डी/सी लाइन वेदान्त (पहले सेसा स्टेरलाइट लिमिटेड/ स्टेरलाइट एनर्जी लिमिटेड था) से सुंदरगढ़ और सुंदरगढ़ पूलिंग स्टेशन में सहायक लाइन बेस की स्थापना।

उक्त पारेषण परियोजना के लिए भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय द्वारा इसके पत्र दिनांक 31.01.2014 द्वारा विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 68 के तहत मंजूरी प्रदान की गई है।

इस योजना के अंतर्गत शामिल पारेषण लाईनें, निम्न तहसीलों, तालुकों, मंडलों, प्रखंडों, गांवों, कस्बों और शहरों के अंदर से, ऊपर से, पास से और बीच से गुजरेंगी।

गांवों का नाम	तहसील	जिला
केनापाली, माहुलपाली, कुर्गा, केपासे, किरिप्सिरा, सुरुड़ा, खामाबहल, जमुनाधिया	टांगरपालि	सुंदरगढ़
तेलेंगापाली, पोदबहल, कुंदुकेला, कइंतरा, देउली, भस्मा, कइंसरा	सुंदरगढ़	सुंदरगढ़

मार्ग संचरण (रूट एलाइनमेंट) की प्रति अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में उपलब्ध है। इस सूचना के माध्यम से एतद्वारा आम जनता को नोटिस दी जाती है कि प्रस्तावित पारेषण (ट्रांसमिशन प्रणाली का निरीक्षण/ अभिवेदन इस नोटिस के प्रकाशित होने की तिथि से दो महीने के अंदर लिखित में अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में करें। अधिक विवरण और स्पष्टीकरण के लिए कृपया संपर्क करें।

नाम : श्री जयकृष्ण मोहान्ति

पदनाम : उपाध्यक्ष

वेदान्त लिमिटेड (पहले सेसा स्टेरलाइट लिमिटेड/ स्टेरलाइट एनर्जी लिमिटेड था)

कार्यालय पता : गांव : भुर्कामुन्दा, पो.आ. : कालीमंदिर, जिला :

झारसुगुड़ा-768202, ओड़िशा

FORM NO. 155

[See rule 329]

[Members Voluntary Winding-up]

Name of company: Manodeal Investment and Finance Private Limited

Notice convening final meeting

Notice is hereby given in pursuance of section 497 of the Companies Act, 1956, that a general meeting of the members of the above-named company will be held at House No. 42 Ground Floor, Jor Bagh, New Delhi-110003 on the Friday, 28th October, 2016 at 10:00 A.M. for the purpose of having an account laid before them showing the manner in which the winding-up has been conducted and the property of the company disposed of and of hearing any explanation that may be given by the liquidator and also of determining by a special resolution of the Company the manner in which the books, accounts and documents of the company and of the liquidator shall be disposed of.

(Sandesh Jain)

Dated: 20th September, 2016

(Liquidator)

INDIAN CLEARING CORPORATION LIMITED

Mumbai 400 001

CIN: U67120MH2007PLC170358

The provisions contained in the Bye-laws of the Indian Clearing Corporation Limited are amended to the extent given below:

6.1.4 "Settlement and Netting: (1) The payment and settlement in respect of a transaction in the Stock Exchange and Clearing Corporation shall be determined in accordance with the netting or gross procedure as specified in the bye-laws of the Stock Exchange and the Clearing Corporation, with the prior approval of the Securities and Exchange Board of India. (2) Payment and settlement in respect of a transaction between parties referred to in the above bye-law (1), effected under the bye-laws of the Stock Exchange or Clearing Corporation, shall be final, irrevocable and binding on such parties. (3) When a settlement has become final and irrevocable, the right of the Stock Exchange or the Clearing Corporation, as the case may be, to appropriate any collaterals or deposits or margins contributed by the trading member, clearing member or client towards its settlement or other obligations in accordance with the bye-laws of the Stock Exchange or Clearing Corporation shall take priority over any other liability of or claim against the

said trading member, clearing member or client, as the case may be.

Explanation. - For removal of doubts, it is hereby declared that the settlement, whether gross or net, referred to in this bye-law is final and irrevocable as soon as the money, securities or other transactions payable as a result of such settlement is determined, whether or not such money, securities or other transactions is actually paid.

For Indian Clearing Corporation Ltd.
Prasad Sawant
Company Secretary

Vedanta Limited

(formerly known as Sesa Sterlite Limited/Sterlite Energy Limited)

Goa-403001

CIN : L13209GA1965PLC000044

PUBLIC NOTICE

Vedanta Limited (formerly known as Sesa Sterlite Limited/Sterlite Energy Limited) having its registered office at Sesa Ghor, 20 EDC Complex, Patto, Panaji-403001, Goa, India intends to apply to the Govt. of India to confer upon him all the powers under Section-164 of Electricity Act, 2003 for the placing of electric lines or electrical plant for the transmission of electricity or for the purpose of telephonic or telegraphic communication necessary for the proper coordination of works which telegraph authority possesses under the Indian Telegraph Act, 1885 with respect to the placing of telegraph lines and posts for the purpose of a telegraph established or maintained by the Government or to be so established or maintained and will undertake the survey, construction, installation, inspection, erection and other works to be followed by commissioning, operation, maintenance and other works for the following transmission schemes-

Name of the Transmission Company—Vedanta Limited

(formerly known as Sesa Sterlite Limited/Sterlite Energy Limited)

Works covered under the scope—

400KV Vedanta (formerly known as Sesa Sterlite Limited/Sterlite Energy Limited)—Sundargarh/Jharsuguda pooling station (PG) D/C line with associated line bays at Sundargarh/Jharsuguda as a dedicated line.

The above transmission project has been accorded approval by the Ministry of Power, Government of India vide its letter dated 31.01.2014 under section 68 of the Electricity Act 2003.

The transmission lines covered under the scheme will pass through, over, around & between the following Tehsils, Talukas, Mandals, Block, Villages, Towns & Cities.

Name of Villages	Tehsil	District
Kenapalli, Mahulapalli, Kurga, Kephase, Kiripsira, Suruda, Khamarbahal, Jamunadhipa	Tangarpali	Sundargarh
Telengapali, Podabahal, Kundukela, Kaintara, Deuli, Bhasma, Kainsara	Sundargarh	Sundargarh

Copy of the Route Alignment is available in the office of the undersigned. Notice is hereby given to the general public to make observation/representation on the proposed transmission system within two months from the date of publication of this notice to the office of the undersigned in writing. For further particulars and clarification please contact :

Mr. Jayakrushna Mohanty
Vice President,
Vedanta Limited (formerly known as Sesa Sterlite Limited/Sterlite Energy Limited)
Office Address : Village : Bhurkamunda, P.O. : Kalimandir, Jharsuguda-768202, Odisha.
Email : jk.mohanty@vedanta.co.in

नेशनल कॉमोडिटी एण्ड डेरीवेटीव्ज एक्सचेंज लिमिटेड

मुंबई

नेशनल कॉमोडिटी एण्ड डेरीवेटीव्ज एक्सचेंज लि. के संस्था के बहिर्नियम एवम कंपनी का विधान, सेबी के साथ एफ.एम.सी. के विलिनीकरण के अनुसरण एवम एफ.सी.आर. अधिनियम के निरसन में एवम भारतीय प्रतिभूति एवम एक्सचेंज बोर्ड (सेबी) के निर्देशों के अनुसरण में संशोधित किया गया है एवम इसे सेबी द्वारा अपने पत्र सं. सेबी/एच.ओ./सी.डी.एम.आर.डी./डी.ई.ए./ओ.डब्ल्यू.पी/25984 दिनांक 16 सितम्बर, 2016 एवम सेबी के निर्देशन पत्र सं. सी.डी.एम.आर.डी./डी.ई.ए./ओ.डब्ल्यू./21544/2016 दिनांक 1 अगस्त 2016, के अंतर्गत अनुमोदित किया गया है.

कंपनी अधिनियम, 1956
(अंशों द्वारा सीमित कंपनी)

नेशनल कॉमोडिटी एण्ड डेरीवेटीव्ज एक्सचेंज लिमिटेड के संस्था के बहिर्नियम

- I. कंपनी का नाम नेशनल कॉमोडिटी एण्ड डेरीवेटीव्ज एक्सचेंज लिमिटेड है.
- II. कंपनी का पंजीकृत कार्यालय मुंबई में स्थित कंपनियों के पंजीयक के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत महाराष्ट्र राज्य में स्थित है. ,
- III. उद्देश्य जिसके लिये कंपनी की स्थापना की गई है, निम्न प्रकार से हैं:—
 - ए. कंपनी द्वारा इसके निगमन पर अनुसरण किये जाने वाले मुख्य उद्देश्य निम्न हैं:—
 1. सार्वजनिक हित में सुगम बनाना, सहायता करना, विनियमित करना एवम प्रबंधन करने के लिये सभी प्रकार की वस्तुओं (जिसकी अभिव्यक्ति में प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 में परिभाषित अनुसार समय-समय पर संशोधित तौर पर माल सम्मिलित होगा) में व्यवहार करना एवम वस्तुओं में राष्ट्रव्यापी व्यापार के लिये विशेषीकृत, विकसित, स्वचालित एवम आधुनिक सुविधाएं प्रदान करना एवम वस्तुओं को खरीदने एवम बेचने के लिये सभी प्रकार की संविदाएं करना, जिसमें इसके व्युत्पन्न सम्मिलित है, जैसे भविष्य, विकल्प एवम अन्य प्रकार के व्युत्पन्न, इसके समाशोधन एवम समझौता में भविष्य में अखंडता एवम ईमानदारी के उच्च मानकों सहित अनुमति प्राप्त एवम अनुमति प्राप्त करने के लिये, एवम वस्तु बाजार में सभी प्रतिस्पर्धियों के प्रवेश के साथ पारदर्शित, निष्पक्ष एवम खुले तरीके से व्यापार सुनिश्चित करना, जिसमें क्षेत्रों से या भारत के बाहर से वस्तु लेनदेनों के वित्तपोषण में संलिप्त विदेशी निधियां, बैंक एवम कॉर्पोरेट्स विदेशी सम्मिलित है.
 2. वस्तुओं एवम इसके व्युत्पन्नों में विनिमय व्यवहार के संबंध में इस तरह की सभी गतिविधियों को प्रारंभ करना, सुविधाजनक बनाना एवम उत्तरदायित्व लेना, जैसा बचाव वस्तु के भरोसेमंद राष्ट्रव्यापी मंच के लिये एवम विभिन्न वस्तुओं में प्रतिस्पर्धियों के व्यापक प्रतिनिधित्व के लिये मूल्य संबंधित जोखिम के लिये आवश्यक होता है, जिसमें सम्मिलित है उत्पादक, निर्माता, निर्यातकर्ता एवम आयातकर्ता, इस तरह की वस्तुओं में बाजार सहभागियों के लिये नया एवम अभिनव सुरक्षा तंत्र प्रदान करने के लिये बड़े स्तर पर समाज के लिये बचाव एवम अन्य संबंधित आवश्यकताएं प्रस्तावित करना, एवम सभी प्रतिस्पर्धियों, बाजार सहभागियों एवम सामान्य जनता एवम अर्थव्यवस्था के उत्तम हितों में स्वस्थ बाजार बनाये रखना एवम इसके लिये सहयोग करना, विकास करना, प्रोत्साहन देना एवम उनमें आपस में एवम सामान्य में वस्तु बाजारों में व्यावसायिकता के उच्च मानकों का परिचय कराना.
 - बी. मुख्य उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये आकस्मिक या सहायक उद्देश्य:—
 3. प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 एवम इसके अंतर्गत बनाये गये नियमों के अर्थों के अंतर्गत वस्तुओं में क्रय, विक्रय, व्यवहार एवम लेनदेन के व्यवसाय का प्रबंधन करने के उद्देश्य के लिये अधिकृत कॉमोडिटी एवम डेरीवेटीव्ज एक्सचेंज के तौर पर एक्सचेंज की मान्यता के लिये केन्द्र सरकार को आवेदन करना एवम मान्यता प्राप्त करना.
 4. साधन एवम तरीका, दशाएं विनियमित करते हुए नियमों, उपनियमों एवम विनियमों को बनाना एवम लागू करना, जिसके अधीन कॉमोडिटी एण्ड डेरीवेटीव्ज एक्सचेंज पर

व्यवसाय संपादित किया जायेगा एवम एक्सचेंज के व्यापार सदस्यों एवम समाशोधन सदस्यों के आचरण के नियम, जिसमें सदस्यता, व्यापार, समझौता, समितियाँ का संविधान, प्राधिकरण का प्रतिनिधिमंडल एवम एक्सचेंज से संबंधित विविध सामान्य मामले एवम व्यापार सदस्यों के लिये आचार संहिता एवम व्यवसाय आचार नीति भी सम्मिलित होते हैं एवम समय-समय पर, इस तरह के नियमों, उपनियमों एवम विनियमों या इनमें से किसी में संशोधन करना या बदलाव करना एवम उपरोक्त कथित उद्देश्यों के लिये कोई नया, संशोधित या अतिरिक्त नियम, उपनियम या विनियम बनाना.

5. नेशनल कॉमोडिटी एण्ड डेरीवेटीव्स एक्सचेंज के व्यापार एवम व्यवसाय के संचालन में विवादों का समाधान करना एवम व्यापार विधियों, प्रथाओं, उपयोगों, रिवाजों या शिष्टाचारों के सभी प्रश्नों पर निर्णय लेना.
6. एक्सचेंज के व्यापार सदस्यों/समाशोधन सदस्यों या कंपनी के विधान एवम एक्सचेंज के नियमों एवम उपनियमों की शर्तों में कंपनी से प्रतिभूति जमा, प्रवेश शुल्क, सदस्यता निधि, सदस्यता एवम इस तरह के अन्य प्रभार, शुल्क निश्चित करना, प्रभारित करना, वसूल करना, प्राप्त करना एवम जमाओं, लाभों, दंडों, तदर्थ करों एवम अन्य शुल्कों को भी निश्चित करना, प्रभारित करना एवम वसूल करना.
7. एक्सचेंज के व्यापार/समाशोधन सदस्यों द्वारा प्रभारित किये जाने वाले कमीशन एवम दलाली एवम अन्य शुल्कों के स्तर को विनियमित एवम निश्चित करना.
8. पंचनिर्णय द्वारा विवादों के समाधान को आसान बनाना या इस तरह की शर्तों एवम इस तरह के मामलों में पंचों या मध्यस्थों को नामांकित करना, जैसा समीचीन लग सकता है, क्षेत्रीय या स्थानीय पंचनिर्णय पैनल निर्धारित करना एवम वस्तुओं में लेनदेनों के संबंधित या उसके संबंध में या उससे बाहर उत्पन्न या संबंधित सभी लेनदेनों के संबंध में सभी विवादों एवम दावों को पंचनिर्णय के लिये प्रदान करना एवम जिसमें एक्सचेंज के सदस्यों एवम एक्सचेंज के सदस्यों एवम व्यक्तियों, जो एक्सचेंज के सदस्य नहीं हैं किन्तु एक्सचेंज के सदस्यों का गठन करते हैं, के मध्य विवादों का पंचनिर्णय सम्मिलित है, एवम इस तरह के पंचों, क्षेत्रीय पंचनिर्णय पैनल या स्थानीय पैनल को पारिश्रमिक देना, एवम इस तरह की पंचनिर्णय कार्यवाहियों, पंचों के शुल्कों, इस तरह पंचनिर्णय एवम संबंधित मामलों की लागतों के संबंध में नियम, उपनियम एवम विनियम बनाना एवम इसकी प्रक्रियाओं को विनियमित करना एवम पंचनिर्णय को लागू करना एवम सामान्यतः विवादों का समाधान करना एवम वस्तुओं में व्यापार एवम व्यवसाय के संचालन में उपयोग, रिवाज एवम शिष्टाचार के सभी प्रश्नों पर निर्णय करना.
9. अभिकर्ताओं की स्थापना करना एवम बनाए रखना या व्यवस्था करना या नियुक्त करना, कंपनी के उद्देश्यों एवम प्रयोजनों को प्राप्त करने के लिये एक या अधिक समाशोधन गृहों की स्थापना करना एवम उनका अनुरक्षण करना एवम/या माल गोदामों, गोदामों, प्रमाणीकरण अभिकरणों, समाशोधन निगमों एवम इस तरह की अन्य संबंधित अस्तित्वों या विभागों का रखरखाव करना एवम इनके कार्यचालन एवम प्रशासन को नियंत्रित एवम विनियमित करना.
10. सलाहकार या अनुसंधान प्रभाग के सेटअप या प्रबंधन में भाग लेना एवम भारत एवम विदेश में एक्सचेंज के संगठन एवम सेटअप के लिये परामर्शदाता एवम सलाहकार के तौर पर कार्य करना, एवम वस्तुओं एवम इनके विपणन के लिये परामर्शदाता के तौर पर कार्य करना एवम एक्सचेंज पर व्यापार के प्रसंगों एवम विशिष्टताओं पर सलाह देना एवम भारत या विदेश में किसी अन्य एक्सचेंज के साथ साहचर्य में प्रवेश करना, चाहे सदस्यता द्वारा या कंपनी के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिये सहयोग सिद्धान्त पर.
11. किसी सांख्यिकी, अनुसंधान, सामग्री या अन्य सूचना को प्राप्त करना, संग्रह करना, रक्षित करना, प्रसारित करना या विक्रय करना या अन्यथा किसी व्यक्ति को विचार-विमर्श या अन्यथा के लिये प्रदान करना, वाचनालय को बनाए रखना एवम एक्सचेंज के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिये या उसके संबंध में किसी समाचार पत्र, जर्नल, मैगजीन, पेम्पलेट, आधिकारिक ईयर बुक, दैनिक या अन्य आवधिक या

अन्य कार्यों पर छापना, प्रकाशित करना, उत्तरदायित्व लेना, प्रबंध करना एवम जारी रखना.

12. व्यवसायिक रणनीतियों पर परामर्श या सलाह, सहायता प्रदान करना या परामर्श या सलाह प्राप्त करने में मदद करना, जिसमें सम्मिलित है प्रबंधन, प्रौद्योगिकी, उत्पादन, विपणन एवम वित्त या प्रबंधन में भाग लेना या सलाहकार या अनुसंधान विभाग सेटअप करना एवम भारत एवम विदेश में इस तरह के सेटअप की स्थापना एवम संगठन करने के लिये परामर्शदाता एवम सलाहकार के तौर पर कार्य करना.
13. किसी सरकार, केन्द्र, राज्य, नगरपालिका या स्थानीय निकाय के साथ व्यवस्थाओं में प्रवेश करना, जो कंपनी के उद्देश्यों या उनमें से किसी के लिये अनुकूल दिख सकती है एवम इस तरह की किसी सरकार या प्राधिकरण से कोई शक्ति, लायसेंस, छूट, अनुदान या निर्णय, अधिकार या विशेषाधिकार, जो भी, प्राप्त करना, जो कंपनी उचित समझ सकती है या जो इस तरह की किन्हीं व्यवस्थाओं, शक्तियों, अनुज्ञा पत्रों, छूटों, अनुदानों, निर्णयों, अधिकारों या विशेषाधिकारों के संबंध में कंपनी की क्षमता में दिया जा रहा दिख सकता है.
14. किसी अन्य न्यास का उत्तरदायित्व लेने एवम निष्पादित करने के लिये एवम पद का उत्तरदायित्व भी लेने या निष्पादक, प्रशासक, प्राप्तकर्ता, संरक्षक एवम ट्रस्ट निगम की शक्तियों के भी प्रयोग के लिये किसी ऋणपत्र, ऋणपत्र स्टॉक या अन्य प्रतिभूतियों या दायित्वों को सुरक्षित करते हुए या गठित करते हुए किसी विलेख के न्यासियों के तौर पर कार्य करना.
15. किसी व्यक्ति, कंपनी, निगमित निकाय, न्यास, निधि, संस्था, निगम, सरकार, राज्य या नगरपालिका या अन्य प्राधिकरण या सार्वजनिक निकाय, ग्राहक, सदस्य, अंशधारक, जमाकर्ता या कोई अन्य मध्यस्थ, कोई या सभी प्रकार की संपत्तियां, जिसमें सम्मिलित है अंश, स्टॉक, ऋणपत्र, प्रतिभूतियां, नीतियां, बही ऋण, दावें, कार्यवाही में चुनना, बंधपत्र, प्रतिज्ञापत्र, सहभागिता प्रमाणपत्र, भूमि, भवन, दाय स्वरूप प्राप्त होने वाली संपत्ति, व्यवसाय संबंधित एवम उपक्रम, बंधक, प्रभार एवम वार्षिकियां, पेटेन्ट, अनुज्ञापत्र, पट्टे एवम किसी व्यक्ति, कंपनी, निगमित निकाय के विरुद्ध या प्रत्येक प्रकार के हित, एवम सभी लाभांशों, हितों, कंपनी द्वारा इस तरह से धारण की हुई इस तरह की संपत्ति के संबंध में लाभार्थी को देय या प्राप्त करने योग्य सभी लाभांशों, हितों, राशियां को संग्रह करना एवम प्राप्त करना एवम कंपनी के व्यवसाय के सामान्य कार्य में इनको धारण करना, विक्रय करना, क्रय करना, हस्तांतरित करना, विनिमय करना, बंधक रखना, रेहन रखना, निर्दिष्ट करना, इसके साथ व्यवहार करना या प्रबंध करना.
16. इस तरह के किसी न्यास के उद्देश्य के लिये विनियोजित किन्हीं अंशों, स्टॉक्स, प्रतिभूतियों, प्रमाणपत्रों या अन्य दस्तावेजों या अन्य संपत्तियों का प्रतिनिधित्व करते हुए या उन पर आधारित पसंदीदा, आस्थगित या किसी अन्य विशेष स्टॉक्स, प्रतिभूतियों, प्रमाणपत्रों या अन्य दस्तावेजों को जारी करने के लिये अवलोकन सहित किन्हीं न्यासों का गठन करना एवम स्थापित करना एवम विनियमित करना, यदि आवश्यक हो, इस तरह के किसी पसंदीदा, आस्थगित या अन्य विशेष स्टॉक्स, प्रतिभूतियों, प्रमाणपत्रों या दस्तावेजों को निपटाना या जारी करने, धारण करने के लिये इस तरह के किसी न्यास का उत्तरदायित्व लेना एवम निष्पादित करना.
17. कंपनी के व्यवसाय के संबंध में कंप्यूटर हार्डवेयर एवम सॉफ्टवेयर एवम दूरसंचार एवम किसी अन्य आवश्यक प्रणाली की स्थापना एवम संचालन के संबंध में तकनीकी हस्तांतरण, तकनीकी जानकारी, तकनीकी प्रक्रिया, तकनीकी सहायता, तकनीकी या अन्य सहभागिता के संबंध में विदेशी या अन्य कंपनियों या निगमित निकायों, फर्मों एवम व्यक्तियों के साथ संविदाओं के प्रदर्शन को निष्पादित करना या प्राप्त करना एवम बातचीत करना, प्रवेश करना.
18. कंपनी के मुख्य उद्देश्यों में संदर्भित गतिविधियों के साथ जुड़ी हुई प्रबंधकीय तकनीकी जानकारी, अध्ययनों, परियोजनाओं का विकास एवम मूल्यांकन, विशेषज्ञता, डेटा, सूचना एवम/या तकनीकी जानकारी के साथ व्यवहार के डिजाइन, निर्माण एवम विकास का उत्तरदायित्व लेना.

19. दलालों के तौर पर कार्य करना, ऋणों एवम अंशों एवम ऋणपत्रों की हामीदारी के लिए प्रबंध करने के लिये बैंकों, वित्तीय संस्थानों अन्य के साथ बातचीत करना एवम कंपनी, फर्मो, साहचर्यों, न्यासों का गठन एवम प्रोत्साहन का संचालन करना एवम उन्हें अन्यों के लिये एवम स्वयं के खाते पर चलाना एवम प्रबंध करना एवम कार्मिकों के चुनाव, भर्ती एवम पारिश्रमिक पर रखने में सहायता करना.
20. भारत एवम विदेश में तकनीकी जानकारी प्रदान करना जिसके माल के निर्माण या सामग्री की प्रक्रिया इस तरह के निर्माण या प्रक्रिया के लिये संयंत्र एवम मशीनरी की स्थापना या परिनिर्माण में सहायता संभावित होती है, जिसमें तकनीकी डिजाईन प्रदान करना, सूचनाओं की स्थापना एवम परिनिर्माण एवम सभी प्रकार के व्यवसायों, उद्योगों एवम अन्य संगठनों को अभियांत्रिकी, तकनीकी प्रबंधन एवम विभिन्न प्रकार की कुशल एवम अन्य सेवाएं प्रस्तुत करना.
21. कंपनी या उसके साथ संबंध से संबद्ध करते हुए गतिविधियों में संलिप्त होने के संबंध में या उसमें संलिप्त व्यक्तियों की तकनीकी एवम व्यावसायिक जानकारी में सुधार करना एवम उसे ऊपर उठाना एवम व्याख्यानों के निष्पादन एवम कक्षाओं को धारण करने या इस तरह के किसी तकनीकी या शैक्षणिक संस्थाओं का गठन करने एवम उनका संचालन एवम प्रशासन प्रदान करने के लिये अवलोकन सहित करना.
22. उत्पादकता बढ़ाने, सामग्रियों एवम श्रमशक्ति संसाधनों, निर्यात संवर्धन एवम आधुनिक तकनीकों के निरंतर प्रयोग के माध्यम से राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की अधिकतम विकास दर प्राप्त करना, ताकि अंशधारकों, कर्मचारियों, ग्राहकों, स्थानीय समाज एवम सोसायटी के लिये अपनी सामाजिक एवम नैतिक जिम्मेदारियां का निर्वहन करना, एवम किसी गतिविधि का उत्तरदायित्व लेना, संचालित करना, प्रोत्साहित करना एवम प्रायोजित करना या सहायता करना, जिसको निदेशक जनता या जनता के किसी अनुभाग के राष्ट्रीय कल्याण या सामाजिक, आर्थिक या नैतिक उत्थान को प्रोत्साहित करने की संभावना पर विचार कर सकते हैं एवम इस तरह की दशा एवम इस तरह के अर्थों द्वारा जैसा निदेशक उचित समझ सकते हैं एवम प्रतिकूल प्रभाव के बिना पूर्वगामी की व्यापकता के लिये किसी पुस्तक, साहित्य, समाचारपत्र के प्रकाशन के लिये किसी गतिविधि का उत्तरदायित्व ले सकते हैं, संचालित कर सकते हैं, प्रोत्साहित एवम प्रायोजित कर सकते हैं या इन उद्देश्यों को आगे बढ़ाने की संभावना या योग्यता पुरस्कार देने के लिये या किसी अन्य व्यक्ति को अपने अध्ययन, शैक्षणिक गतिविधियों या अनुसंधानों को आगे बढ़ाने के लिये या किसी संस्थान, निधि या न्यास को अपने उद्देश्यों के तौर उपरोक्त कथित उद्देश्यों किसी एक या अधिक होने के लिये दान देकर या अन्यथा किसी अन्य तरीके से स्थापित, संचालित या सहायता करने के लिये व्याख्यान या सेमिनार आयोजित करने के लिये, जैसा निदेशक अपने विवेक पर उचित समझ सकते हैं, उपरोक्त निर्दिष्ट उद्देश्यों में से किसी को लागू करने या बिना प्रतिफल के हस्तांतरित करने के क्रम में या इस तरह के मूल्य पर, जैसा निदेशक उचित समझ सकते हैं एवम किसी सार्वजनिक या स्थानीय निकाय या प्राधिकरण या केन्द्र सरकार या राज्य सरकार या किसी सार्वजनिक संस्थान या न्यास या निधियां या व्यक्तियों के संगठन को कंपनी की किसी संपत्ति के स्वामित्व को सुपुर्द करना, जैसा निदेशक अनुमोदित कर सकते हैं.
23. विकास का उत्तरदायित्व लेना, संचालित, प्रोत्साहित एवम प्रायोजित करना, जिसमें सम्मिलित है किसी ग्रामीण क्षेत्र में जनता के उत्थान या सामाजिक एवम आर्थिक कल्याण को प्रोत्साहित करने के लिये कोई कार्यक्रम एवम ग्रामीण विकास के किसी कार्यक्रम पर कोई खर्चा करना एवम इसके निष्पादन एवम प्रोत्साहन में सहायता करना, या तो प्रत्यक्ष रूप से या स्वतंत्र अभिकरण के माध्यम से या ग्रामीण विकास को प्रोत्साहित करने के लिये व्यापकता पर विपरीत प्रभाव डाले बिना किसी अन्य दशा में एवम कि शब्द ग्रामीण क्षेत्र में इस तरह का क्षेत्र सम्मिलित होगा जैसा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35सीसी तत्समय प्रभाव में ग्रामीण विकास के संबंध में किसी अन्य कानून के अंतर्गत इस तरह का क्षेत्र जिसको ग्रामीण क्षेत्र के तौर पर माना जा सकता है या ग्रामीण क्षेत्रों के तौर पर निदेशक द्वारा माना जा सकता है.

24. प्रेषण अभिकर्ता, निर्माताओं, विक्रेतों एवम विपणन के प्रतिनिधित्व के तौर व्यवसाय का संचालन करना.
25. किसी अन्य संस्था के साथ सहकारी का सदस्य बनना चाहे निगमित है या नहीं है, जिसका उद्देश्य एक्सचेंज द्वारा प्रतिनिधित्व किये हुए हितों को प्रोत्साहित करना सामान्य, वाणिज्यिक एवम व्यापार हितों को प्रोत्साहित करना एवम उनसे प्राप्त करना एवम इस तरह के संस्थान को इस तरह की सूचाओं का संचारण करना होता है, जैसा एक्सचेंज के व्यवसाय की सुरक्षा एवम प्रोत्साहन के लिये उपायों को प्रोत्साहित करने या एक्सचेंज के उद्देश्यों को आगे बढ़ाना हो सकता है.
26. भागीदारी, संयुक्त उद्यम, सहयोग या हितों का संघ, किसी व्यवसाय या उद्यम के संचालन या चलाने हितबद्ध या संलिप्त होने के संबंध में या हितबद्ध या संलिप्त किसी व्यक्ति या व्यक्तियों, कंपनी या निगम सहित, जो कंपनी संचालन करने या चलाने के लिये अधिकृत होती है जिससे कंपनी ने कोई लाभ, चाहे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, प्राप्त हुआ होगा.
27. व्यवसाय, साख, व्यापार चिन्ह, पेटेन्ट, संपत्ति, संविदाएं, अनुबंध, अधिकार, विशेषाधिकार, प्रभाव, संचालन के पूर्ण या किसी भाग पर कोई हित या संचालन के लिये रोककर किसी व्यक्ति या व्यक्तियों, फर्म, अन्य कंपनी, निगमित निकाय या निगम की संपत्तियां एवम दायित्व को क्रय करना या अन्यथा प्राप्त करना या कब्जे में लेना, जिसका संचालन करने के लिये या कंपनी के उद्देश्य के लिये उपयुक्त संपत्ति का कब्जा करने के लिये कंपनी अधिकृत होती है एवम इस तरह की शर्तों पर एवम इस तरह की व्यवस्थाओं एवम दशाओं के अधीन एवम राशि, अंशों, धन की कीमत, या अन्यथा में इस तरह के मूल्य या प्रतिफल पर या उसके लिये, यदि कोई हो, जैसा भी उचित समझा जा सकता है.
28. उद्देश्यों को कार्यान्वित करने के लिये स्टाफ को नियोजित करना या काम में लगाना एवम किसी व्यक्ति, फर्म या निगमित निकाय से तकनीकी जानकारी, तकनीकी जानकारी, अनुदान या अनुज्ञापत्र प्राप्त करना चाहे भारत में या किसी दूसरे स्थान में.
29. सभी प्रकृति के बैंक खातों को खोलना जिसमें किसी बैंक में अधिविकर्ष खातें सम्मिलित है एवम इस तरह के खातों का संचालन करना.
30. कंपनी की सेवाओं, व्यवसाय हितों को ज्ञान बनाने के इस तरह के अर्थों को अपनाना, जैसा यह उचित समझा जा सकता है एवम विशेष रूप से प्रेस, रेडियों, टेलीविजन, वेब एवम सिनेमा में विज्ञापन द्वारा, परिपत्रकों द्वारा, क्रय, निमार्ण एवम कार्य की प्रदर्शनियों या कला या सामान्य हित द्वारा, पुस्तकों एवम आवधिक के प्रकाशन द्वारा, एवम कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 293ए के तहत पुरस्कार, इनाम, छात्रवृत्ति एवम दान अनुदानित द्वारा.
31. भारत से बाहर स्थित किसी कानून के अन्तर्गत या कंपनी के लिये मान्यता प्राप्त करना एवम इस तरह के कदम उठाना, जैसा विश्व के किसी भी भाग में कंपनी को समान अधिकार एवम विशेषाधिकार प्रदान करने के लिये आवश्यक हो सकता है, जैसा समान प्रकृति की स्थानीय कंपनियों या भागीदारी को उपलब्ध होता है या उनके द्वारा प्राप्त किया जाता है.
32. कंपनी के हितों की रक्षा करने एवम उसकी ओर से प्रतिभूतियों करने के लिये न्यासियों (चाहे व्यक्ति या निगम) को नियुक्त करना.
33. एटॉर्नी एवम अभिकर्ताओं को नियुक्त करना, चाहे कमीशन, शुल्क या अन्यथा पर, एवम भारत में एवम किसी भी अन्य स्थान पर कंपनी के अभिकरण या उप-अभिकरण गठित करना.
34. ऋणपत्रों या ऋणपत्र स्टॉक धारकों के लिये न्यासियों के तौर पर कार्य करने के लिये सेवाओं का प्रतिफल प्रदान करने या प्रदान किये जाने के लिये किसी व्यक्ति या कंपनी या निगम या निगमित निकाय को पारिश्रमिक देना या कंपनी की पूंजी या ऋणपत्र या ऋणपत्र स्टॉक या अन्य प्रतिभूतियों में किन्हीं अंशों को रखना या

- सहायता करना या स्थापित करना या स्थापित करने की गारंटी देना या अपने व्यवसाय के संचालन या इस तरह के ऋणपत्रों या ऋणपत्र स्टॉक या हित के भुगतान की गारंटी के लिये.
35. कंपनी की किसी या सभी संपत्तियों, उपक्रमों, संविदाओं, जोखिमों या दायित्वों का इस तरह से बीमा करना, जैसा कंपनी उचित समझ सकती है.
36. विश्व के किसी भी भाग में किसी पेटेन्ट, पेटेन्ट अधिकार, ब्रेवेट डी इन्वेन्शन, ट्रेडमार्क, डिजाइन, अनुज्ञापत्र, छूट, अधिकार, विशेषाधिकार एवम किसी आविष्कार के तौर पर किसी रहस्य या अन्य सूचना के उपयोग के लिये कोई अनन्य या सीमित अधिकार प्रदान करने जैसे, क्रय के लिये आवेदन करना या अन्यथा प्राप्त करना, रक्षा करना एवम समीक्षा करना, जो कंपनी के किसी भी उद्देश्यों के लिये उपयोग होकर सक्षम लग सकते हैं या कंपनी के लिये लाभप्रद या उपयोगी होने की संभावना दिखती है एवम इस तरह से प्राप्त संपत्ति अधिकारों या सूचनाओं को अन्यथा खाते में बदलना या उसके संबंध में उपयोग करना, कार्यान्वित करना, विकास करना या अनुज्ञापत्र, विशेषाधिकार पारित करना एवम सभी आविष्कारों, पेटेन्ट्स एवम अधिकारों का परीक्षण करने में सहायता करना, प्रोत्साहित करना एवम राशियां खर्च करना, जो अपने व्यवसाय के संबंध में कंपनी प्राप्त या प्रस्तावित या प्राप्त करने के लिये कर सकती है.
37. वैज्ञानिक एवम तकनीकी अनुसंधान एवम परीक्षण के लिये अनुसंधान प्रयोगशालाओं एवम प्रयोगात्मक कार्यशालाओं को स्थापित करना, प्रदान करना, रखरखाव करना एवम संचालन करना एवम अध्ययनों एवम अनुसंधानों, दोनों वैज्ञानिक एवम तकनीकी अनुसंधानों एवम अनुसंधानों को प्रोत्साहित करना या अन्यथा उपदान देना एवम सभी प्रकार की वैज्ञानिक एवम तकनीकी अनुसंधानों, परीक्षणों एवम जांचों का उत्तरदायित्व लेना एवम संचालन करना एवम उपदान, वृत्तिदान प्रदान करने के द्वारा, या प्रयोगशालाओं, कार्यशालाओं, वाचनालयों को सहायता करना एवम व्याख्यान, सभाएं एवम सम्मेलनों की व्यवस्था करना एवम प्राध्यापक एवम शिक्षकों को पारिश्रमिक प्रदान करने द्वारा एवम विद्यार्थियों या अन्यथा को पुरस्कार प्रदान करना एवम सामान्यतः किसी भी प्रकार के अध्ययनों, अनुसंधानों, खोजों, परीक्षणों, जांचों एवम आविष्कारों के लिये विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति का पुरस्कार, पुरस्कार एवम अनुदान प्रदान करना, जैसा किसी भी व्यवसाय को सहायता देने की संभावना के बारे में विचार किया जा सकता है, जिस कंपनी को चलाने के लिये अधिकृत किया जाता है.
38. मिश्रित करना, किसी भागीदारी में प्रवेश करना या उसके साथ आंशिक रूप से मिश्रित करना या किसी अन्य कंपनी के व्यवसाय में हित प्राप्त करना, किसी व्यवसाय या लेनदेन को चला रहा कोई व्यक्ति या फर्म या इसमें संलिप्त या चलाने के संबंध में, इसमें कंपनी के उद्देश्य सम्मिलित होते हैं, या लाभों में हिस्से के लिये, या सहयोग के लिये या इस तरह के किसी व्यक्ति, फर्म या कंपनी के साथ आपसी सहायता के लिये, व्यवसाय पर प्राप्त करने, संचालन करने के लिये जो कंपनी के व्यवसाय के लिये आनुषंगिक होता है या इसके साथ जुड़ा हुआ होता है या जो उपरोक्त के संबंध में संचालन के लिये सुविधापूर्वक होकर कंपनी का सक्षम होना दिख सकता है, उपरोक्त कथित किसी भी कार्य या चीजों के लिये प्रतिफल के द्वारा प्रदान करना या स्वीकार करना या संपत्ति प्राप्त करना, कोई अंश, ऋणपत्र, ऋणपत्र स्टॉक या प्रतिभूतियां जिस पर सहमति हो सकती है, एवम एवम इस तरह से प्राप्त किन्हीं अंशों, ऋणपत्रों, ऋणपत्र स्टॉक या प्रतिभूतियों को धारण करना एवम बनाये रखना, या बेचना, गिरवी रखना या उनके साथ व्यवहार करना.
39. किसी उपक्रम या किसी संपत्ति को प्राप्त करने के समान उद्देश्य के लिये सभी प्रकार की कंपनियों या भागीदारियों का गठन, निर्मित, प्रोत्साहित, अनुवृत्ति, या संगठित या सहायता या उपादान करते हुए गठन, प्रोत्साहित, अनुवृत्ति या संगठित एवम सहायता या उपादान करना, चाहे चल या अचल, चाहे इस तरह के उपक्रम या कंपनी या किसी अन्य कंपनी के दायित्व सहित या इसके बिना, इसके उद्देश्यों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आगे बढ़ाने के लिये, एवम अंशों, ऋणपत्रों एवम अन्य प्रतिभूतियों को लेने या अन्यथा प्राप्त करने, धारण करने एवम निपाटारा करने एवम

कंपनी के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिये इस तरह की किसी कंपनी को उपादान देना या अन्यथा सहायता करना या प्रबंध करना या स्वामित्व रखना.

40. भारत या विश्व के किसी अन्य भाग में करना, या तो मूल, अभिकर्ताओं, न्यासियों, संविदाकारों या अन्यथा के रूप में या अकेले या अन्यो के साथ संयोजन में एवम कंपनी के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये अभिकर्ताओं, संविदाकारों, न्यासियों या अन्यथा द्वारा या माध्यम से करना.
41. अपने व्यवसाय के लिये भारत में या बाहर कार्यालय, शाखाएं एवम अभिकरण का स्वामित्व रखना, स्थापित करना या रखरखाव करना.
42. किसी सामान्य या उपयोगपूर्ण उद्देश्य या निधि या संस्थान के लिये दानों या अनुदानों या गारंटी राशियों की सदस्यता करना, योगदान करना, बनाना एवम किसी संस्था, निकाय या आंदोलन को वित्तीय सहायता करना, इसके उद्देश्यों, समाधान, समझौतों या औद्योगिक या श्रमिक समस्याओं या कठिनाईयों पर वियज पाना या व्यवसाय, उद्योग, व्यापार, वाणिज्य, वस्तु बाजार को प्रोत्साहित करना.
43. किन्ही निधियों, न्यासों एवम अग्रिम के लिये गणना की जाने के लिये उपयुक्तता को स्थापित करना एवम सहयोग करना या स्थापना में सहायता करना एवम सहयोग करना एवम आगे कंपनी के उद्देश्यों या कानून की आवश्यकता के अनुसार करना.
44. इन प्रस्तुतियों एवम कंपनी के विधान एवम एक्सचेंज के नियमों, उपनियमों एवम विनियमों में निर्दिष्ट किसी उद्देश्य के लिये कंपनी की निधियों या चल संपत्तियों के बाहर भुगतानों या अदायगी को प्रभाव देना एवम वारंट, ऋणपत्रों या अन्य परक्राम्य या हस्तांतरणीय दस्तावेजों को बनाना, निकालना, स्वीकार करना, अनुमोदन करना, छूट देना, निष्पादित करना.
45. किसी भी रूप में उधार लेना, भारतीय या विदेशी मुद्रा में ऋण (सार्वजनिक जमाओं के अतिरिक्त) उठाना, जमाएं स्वीकार करना, ऋणग्रस्तता बनाना, अनुदान प्राप्त करना या अग्रिम लेना (चाहे ब्याज मुक्त है या नहीं), इस तरह की शर्तों पर एवम इस तरह की दशा में एवम प्रतिभूति सहित या बिना, कंपनी के उद्देश्यों के लिये इक्विटी ऋण प्राप्त करना या अन्य आवश्यक राशियां उठाना, जैसा समय-समय पर निर्धारित किया जा सकता है एवम विशेष रूप से ऋणपत्रों, ऋणपत्र स्टॉक, बंधपत्रों या अन्य प्रतिभूतियों को जारी करने के द्वारा, बशर्ते हमेशा एवम यह इसके द्वारा, इस तरह के किसी उधार या राशिया उठाने की मूल एवम आधारभूत दशा के अनुसार यह इसके द्वारा स्पष्ट रूप से घोषित किया जाता है कि सभी मामलों में एवम सभी परिस्थितियों के अंतर्गत, भुगतान का दावा कर रहा कोई भी व्यक्ति, चाहे मूल या ब्याज या अन्यथा, कितना ही इस तरह से उधार ली गई या उठाई गई राशियों के संबंध में सिर्फ कंपनी की निधियों, संपत्तियों एवम अन्य संपदाओं के बाहर इस तरह के भुगतान का दावा करने का हकदार होगा, जो अकेला उत्तर देने के लिये दायी एवम सभी दावों एवम मांगों, जो भी, का भुगतान करने के लिये दायी समझा जायेगा, इस तरह से उधार ली गई या उठाई गई राशियों के संबंध में एवम उसके अंतर्गत, कंपनी के निदेशकों सदस्यों या निदेशकों के बोर्ड सभी या किसी एक या अधिक सदस्यों की उसके या उनके उत्तराधिकारियों, निष्पादकों, प्रशासकों, वारिसों एवम निर्दिष्टों की व्यक्तिगत निधियां, संपत्तियां एवम अन्य संपत्तियां नहीं होगी एवम किसी भी तरह से व्यक्तिगत दायी या इस तरह से उधार ली गई या उठाई गई राशियों के संबंध में एवम उसके अंतर्गत किसी दावे या मांग या प्रभारित किये जाने के लिये उनको या उसको स्वयं को व्यक्तिगत रूप से दायी नहीं समझा जायेगा एवम उपरोक्त कथित तौर पर राशियों का दावा करने वाले सभी व्यक्तियों के दावों को पूरा करने के लिये कंपनी की निधियों, संपत्तियों या अन्य संपदाओं के अपर्याप्त होने के प्रसंग में, इस तरह के किसी व्यक्ति के अधिकार सीमित हो जायेंगे एवम कंपनी की इस तरह की निधियों, संपत्तियों एवम अन्य संपत्तियों में उसके भाग या हिस्से से ज्यादा कुछ भी दावा करने के लिये वह हकदार नहीं होगा, शर्तों एवम दशाओं के अनुसरण में जिस पर इस तरह से राशि उधार ली गई है या उठाई गई है.

46. कंपनी की इस तरह की राशियों को निवेश करना, उधार एवम अग्रिम देना, जिसकी तत्काल आवश्यकता नहीं है, इस तरह की प्रतिभूति पर एवम ब्याज सहित या रहित एवम इस तरह के अन्य निवेश, जैसा कंपनी द्वारा समय-समय पर निर्धारित किये जा सकते हैं.
47. राशि उधार देना एवम ऋणों के संबंध में बातचीत करना, बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिसरी नोट, बंधपत्रों, ऋणपत्रों, हुण्डियों, कूपन्स एवम अन्य परक्राम्य प्रपत्र एवम प्रतिभूतियों को निकालना, स्वीकार करना, अनुमोदन करना, छूट देना, खरीदना, बेचना एवम व्यवहार करना, कमीशन पर जारी करना, क्रय के लिये हस्ताक्षर करना, लेना, प्राप्त करना एवम धारण करना, बेचना, विनिमय करना एवम अंशों, स्टॉक्स, बंधपत्रों, ऋणपत्रों, दायित्वों या किसी सरकारी, स्थानीय प्राधिकरण की प्रतिभूतियां या किसी अन्य कंपनी में अन्य हित, किराया क्रय, सामान्य गृह वित्त, निवेश न्यास, कानूनी एवम जीवन बीमा न्यास का व्यवसाय उनसे संबंधित सभी शाखाओं में संचालित करना.
48. कंपनी के सभी या किसी उद्देश्य की उपलब्धि के लिये, बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिसरी नोट, चैक, लदान बिल, वारंट्स एवम अन्य परक्राम्य लिखत को इस तरह की शर्तों या दशाओं पर प्रतिभूति सहित एवम इसके बिना निकालना, बनाना, स्वीकार करना, अनुमोदन करना, छूट देना, निष्पादित करना, जारी करना, बातचीत करना एवम बेचना, जैसा कंपनी उचित समझ सकती है एवम कंपनी की सामग्रियों या अन्य माल या किन्हीं अन्य चीजों पर किसी राशि या राशियों के लिये अग्रिम भी इस तरह की शर्तों एवम प्रतिभूतियों पर देना, जैसा कंपनी उचित समझ सकती है.
49. इस तरह की शर्तों एवम दशाओं पर जमा एवम अन्यथा पर राशि प्राप्त करना जैसा कंपनी अनुमोदन कर सकती है, एवम ऋणों एवम अन्यो की संविदाओं के संबंध में गारंटी एवम क्षतिपूर्ति देना.
50. इस तरह की दशा में किसी ऋण या दायित्व या बंधनों को सुरक्षित करना या किर्यान्वित करना, जैसा कि बंधक, रेहन, गिरवी द्वारा या उपक्रम पर प्रभारों द्वारा विशिष्ट रूप से एवम उचित समझा जा सकता है एवम कंपनी की सभी या कोई संपत्ति या संपदा (वर्तमान या भविष्य में) एवम कॉल नहीं की गई कंपनी की पूंजी या इस तरह की शर्तों पर, ऋणपत्र, ऋणपत्रों, ऋणपत्र स्टॉक, या अन्य प्रतिभूतियों का कोई विवरण या पूर्ण या अंशतः प्रदत्त तौर जमा किये गये अंशों को जारी करने के द्वारा सृजन एवम जारी करने द्वारा, जैसा उचित समझा जा सकता है.
51. प्रत्येक तरह की गारंटी एवम काऊन्टर गारंटी व्यवसाय प्रदान करना एवम लाना एवम प्रबंध करना एवम विशेष रूप में, ऋणपत्रों, बंधपत्रों, ऋणपत्र स्टॉक, बंधक, प्रभारों, संविदाओ, दायित्वों एवम प्रतिभूतियों के अंतर्गत देय या द्वारा सुरक्षित किसी मूल राशियों, ब्याज या अन्य राशियों का भुगतान एवम उस पर लाभांशों का भुगतान एवम सभी प्रकार एवम विवरण के पूंजी स्टॉक का पुर्नभुगतान.
52. मूल सदस्यता, निविदा, क्रय, एक्सचेंज या अन्यथा द्वारा किन्हीं अंशों, स्टॉक्स, ऋणपत्रों, ऋणपत्र स्टॉक, बंधपत्रों, व्युत्पन्नो, दायित्वों या प्रतिभूतियों को प्राप्त करना एवम इसके लिये सदस्य बनना, या तो सशर्त या अन्यथा एवम इसकी सदस्यता के लिये गारंटी देना एवम कंपनी के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने में स्वामित्व के लिये आकस्मिक या सभी अधिकारों एवम शक्तियों के निहित होते हुए निष्पादन एवम क्रियान्वयन करना.
53. कंपनी के किसी उद्देश्य के लिये उपयुक्त भवनों या परिसरों को खड़ा करना, निर्मित करना, विस्तार करना एवम रखरखाव करना एवम इस तरह के किसी भवन या भवनों में बदलाव करना, जोड़ना, संशोधन करना, परिवर्तन करना या हटाना या बदलना या वैकल्पिक या जगह बढ़ाना.
54. भारत में एवम किसी अन्य जगह पर किसी कार्यकाल या विवरण में भूमि, भवन, प्लेट एवम दाय स्वरूप प्राप्त होने वाली संपत्ति को खरीदना, बेचना, पट्टे पर लेना, विनिमय या अन्यथा प्राप्त करना, चाहे आवासीय, व्यवसाय, निर्माण या अन्य उद्देश्यों एवम किसी अन्य अधिकारों, सुविधाधिकार, लाभों, एवम इससे संबंधित विशेषाधिकारों के लिये एवम अपने स्वयं के उपयोग के लिये कंपनी द्वारा क्रय की गई या प्राप्त की

गई किसी भूमि या अचल संपत्ति पर कार्यालयों, प्लेट्स, घरों, कारखानों, वेयरहाउस, गोदामों, दुकानों, भवनों एवम अन्य ढांचों, कार्यों एवम सभी प्रकार की उपयुक्तता का निर्माण करना, बदलाव करना, सुधार करना, सुशोभित करना, विकास करना, प्रस्तुत करना एवम रखरखाव करना.

55. बेचना, बीमा कराना, गिरवी रखना, विनिमय करना, पट्टे पर देना, भाडे पर देना, उप-पट्टे या उप-किराये पर देना, अनुज्ञापत्र पारित करना, इसके ऊपर सुविधाकार एवम अन्य अधिकार, सुधार करना, प्रबंध करना, विकास करना एवम खाने में बदलना एवम किसी भी रीति से व्यवहार करना या कंपनी के उपक्रमों, निवेशों, संपत्तियों, संपदाओं, अधिकारों एवम प्रभावों या इसके किसी भाग को निपटाना, इस तरह के प्रतिफल के लिये, जैसा उचित समझा जा सकता है, जिसमें किसी अन्य कंपनी का कोई स्टॉक, अंश या प्रतिभूतियां सम्मिलित है, चाहे अंशतः या पूर्णतः प्रदत्त.
56. कंपनी के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिये या हित में कंपनी के किन्हीं कर्मचारियों या किसी प्रत्याशी को भारत या विदेश में प्रशिक्षण देना या प्रशिक्षण के लिये भुगतान करना.
57. कंपनी के कर्मचारियों या पूर्व-कर्मचारियों या व्यवसाय में इनके पूर्ववर्तियों एवम पत्नि/पति, विधवा या विधुर, पिता (सौतेला पिता सम्मिलित), माता (सौतेली माता सम्मिलित), भाई (सौतेला भाई सम्मिलित), बहन (सौतेली बहन सम्मिलित), पुत्र (सौतेला पुत्र सम्मिलित), पुत्री (सौतेली पुत्री सम्मिलित), पुत्र की विधवा, पुत्री का विधुर, मृतक पुत्र के बच्चे, मृतक पुत्री के बच्चे या इस तरह के कर्मचारियों या पूर्व कर्मचारियों के आश्रित के कल्याण के लिये प्रदान करना, भवन द्वारा या समय-समय पर सदस्यता द्वारा या योगदान द्वारा, प्रोवीडेंट फंड एवम अन्य असोसिएशन, संस्थाएं, निधियां या न्यास एवम संस्था एवम मनोरंजन, अस्पतालों एवम औषधालयों, चिकित्सा एवम अन्य उपस्थितियों की ओर सदस्यता प्रदान करना या योगदान करना एवम सदस्य बनना या योगदान करना या अन्यथा धर्मार्थ, दयालु, राष्ट्रीय एवम अन्य संस्थानों या उद्देश्यों में अन्यथा सहायता करना.
58. कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अधीन, कंपनी के अधिकारियों, निदेशकों, कर्मचारियों, प्रोत्साहकों एवम सेवकों या कंपनी से संबंधित किन्हीं अन्य व्यक्तियों को, कार्यवाहियों, लागतों, हानियों, दावों एवम मांगों, कुछ भी किया गया है उसके संबंध में या उनके द्वारा आदेश दिया गया था उसके संबंध में, कंपनी के हित के लिये एवम हित में, या किसी नुकसान या हानि या दुर्भाग्य के लिये, जो भी, जो कि उनके कार्यालयों एवम/या उसके संबंध में कर्तव्यों के निष्पादन में घटित हो सकता है, के विरुद्ध क्षतिपूरित करना.
59. कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों या इसके किसी संशोधनों या प्रतिस्थापन के अधीन समापन के प्रसंग में सदस्यों के बीच रोकड या वस्तुओं में कंपनी की किसी संपत्ति को वितरीत करना.
60. इसकी सभी या किसी निगमित शक्तियों, अधिकारों एवम विशेषाधिकारों का निष्पादन करना एवम भारतीय संघ में या किसी या सभी राज्यों में एवम प्रदेशों में किसी या सभी विदेशी देशों में इसकी सभी या किन्हीं शाखाओं का संचालन करना एवम इस उद्देश्य के लिये करना एवम रखरखाव करना एवम इस तरह के कार्यालयों या इसमें अभिकरणों को बंद करना, जैसा भी सुविधाजनक हो सकता है.
61. कंपनी की सभी या किसी संपत्ति, अधिकारों एवम दायित्वों, को प्राप्त करने के उद्देश्य के लिये किसी कंपनी या कंपनियों को प्रोत्साहित करना या शामिल होना या इसके उद्देश्यों या हितों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आगे बढ़ाना, या किसी अन्य उद्देश्य के लिये, जैसा कि कंपनी के लाभ के लिये प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष देखा जा सकता है या गणना की जा सकती है, एवम लेना या अन्यथा उपार्जित करना, एवम इस तरह की किसी कंपनी में अंशों को धारण करना एवम इस तरह की कंपनी द्वारा जारी किन्हीं ऋणपत्रों या अन्य प्रतिभूतियों के भुगतान की गारंटी देना.
62. कंपनी के गठन, पंजीकरण एवम स्थापना के लिये सभी लागतों, शुल्कों या खर्चों एवम आकस्मिक को अदा करना एवम इसकी पूंजी जारी करना जिसमें इसके संबंध में अंडरराईटिंग या अन्य कमीशन, दलालों की फीस या शुल्क सम्मिलित हो सकता

है जिसमें कंपनी के गठन एवम निगमन के पूर्वानुमान में एवम पहले की लागतें, बातचीत के शुल्क एवम पूर्व में बनाई गई संविदाएं या व्यवस्थाएं सम्मिलित हो सकती हैं।

63. किसी कंपनी या उपक्रम के व्यवसाय या संचालनों के प्रबंधन, पर्यवेक्षण या नियंत्रण में भाग लेना एवम इस उद्देश्य के लिये तकनीकी एवम पेशेवर सेवाएं प्रस्तुत करना एवम प्रशासक या किसी अन्य क्षमता के तौर पर कार्य करना, एवम प्रतिफल या अन्यथा के लिये किसी निदेशकों, प्रशासकों या लेखाकारों या अन्य विशेषज्ञों या अभिकर्ताओं को नियुक्त करना एवम पारिश्रमिक देना।
64. किसी भी उद्देश्य की प्राप्ति के किसी उद्देश्य की उपलब्धि के लिये सभी एवम सब कुछ आवश्यक उपयुक्त या उचित कार्य करना।

सी. अन्य उद्देश्य: शून्य।

IV. सदस्यों का दायित्व सीमित होता है।

V. (ए) कंपनी की उपरोक्त कथित अंश पूंजी रु. 70,00,00,000 (रूपये सत्तर करोड़ मात्र) में से विभाजित 6,00,00,000/— (छः करोड़ मात्र) इक्विटी अंश रु. 10/— (रूपये दस मात्र) प्रत्येक एवम रु. 10/— (रूपये दस मात्र) के 1,00,00,000 (एक करोड़ मात्र) अधिमान अंश इन अनुच्छेदों के अनुसरण में एवम अधिनियम के प्रावधानों के अधीन समय-समय पर पूंजी को बढ़ाने या कम करने की शक्ति सहित, एवम समय-समय पर कई श्रेणियों में कंपनी की पूंजी में अंशों को विभाजित करना एवम इसके साथ संबंधित इस तरह के अधिमान, स्थगित, पात्र या विशेष अधिकार, विशेषाधिकार, प्रतिबंध या दशाओं को जोड़ना, चाहे लाभान्श, मतदान, पूंजी को लौटाना या अन्यथा के संबंध में, तत्समय इन अनुच्छेदों के अनुसरण में, एवम इस तरह के किसी अधिकारों, दशाओं या प्रतिबंधों को भिन्न करना, बदलना या अभिनिषेध करना, जैसा अधिनियम में या इन प्रस्तुतियों द्वारा प्रदान किया जा सकता है।

(बी) कंपनी की न्यूनतम प्रदत्त पूंजी रु. 5,00,000/— (रूपये पांच लाख मात्र) होगी।

हम, कई व्यक्ति, जिनके नाम, पते, विवरण एवम व्यवसाय, यहां पर निर्दिष्ट हैं, इस संस्था के बहिर्नियम के अनुसरण में कंपनी में गठित होने के लिये इच्छुक हैं एवम हम कंपनी की पूंजी में अंशों की संख्या लेने के लिये क्रमशः सहमत हैं।

क्र. नं.	नाम, पता और अभिदाता का विवरण	इक्विटी प्रत्येक अभिदाता द्वारा उठाए गए शेयरों की संख्या	हस्ताक्षर	हस्ताक्षर, नाम, पता, विवरण और व्यवसाय यदि कोई हो, गवाह की
1.	आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड आईसीआईसीआई बैंक टावर्स, बान्द्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व) मुम्बई - 400051 अपने वरिष्ठ महाप्रबंधक द्वारा प्रतिनिधित्व श्री पूरनाम हाएग्रीवा, रविकुमार/ पुत्र स्व. श्री पूरनाम वेंकट सुब्रमण्यम व्यवसाय: वाणिज्य बैंकिंग	21985 इक्कीस हजार नौ सौ पच्चासी	आईसीआई सीआई बैंक लिमिटेड Sd./- अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता	सभी अभिदाताओं के के लिए गवाह Sd./- भारत रमाकांत उपाध्याय 313 श्री साईधाम सहकारिता हाउसिंग सोसाइटी, 90 फुट रोड, घाटकोपर (पूर्व), मुम्बई-400077 व्यवसाय पेशेवर कंपनी सचिव
2.	भारतीय जीवन बीमा निगम केंद्रीय कार्यालय योगाक्षमा, जीवन बीमा मार्ग पो.बॉक्स नं. 19953 मुम्बई-400021 अपने मुख्य निवेशक द्वारा प्रतिनिधित्व श्री वासुदेव राजाराम गालकर, पुत्र श्री राजाराम नारायण गालकर व्यवसाय : जीवन बीमा	5000 (पांच हजार)	भारतीय जीवन बीमा निगम के लिए Sd./- अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता	
3.	कृषि और ग्रामीण विकास के लिए राष्ट्रीय बैंक	1000	नेशनल बैंक कृषि और ग्रामीण	

क्र. नं.	नाम, पता और अभिदाता का विवरण	इक्विटी प्रत्येक अभिदाता द्वारा उठाए गए शेयरों की संख्या (एक हजार)	हस्ताक्षर	हस्ताक्षर, नाम, पता, विवरण और व्यवसाय यदि कोई हो, गवाह की
4.	प्लॉट नं. सी-24, जी ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व) मुम्बई-400051 इसके अध्यक्ष द्वारा प्रतिनिधित्व, श्री योगेश चंद नंदा, पुत्र श्री टेक चंद नंदा व्यवसाय : कृषि एवं ग्रामीण विकास के वित्तपोषण नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, एक्सचेंज प्लाजा, प्लॉट सी-1, ब्लॉक जी, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा- (पूर्व), मुम्बई 400051 अपने वरिष्ठ उपाध्यक्ष और कंपनी सचिव, श्री जे रविचन्द्रन, पुत्र श्री एस. जगन्नाथन व्यवसाय : स्टॉक एक्सचेंज	21985 इक्कीस हजार नौ सौ पच्चासी	विकास के लिए अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता Sd./- अध्यक्ष नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड के लिए Sd./- जे. रविचंद्रन कम्पनी सचिव और वरिष्ठ उपाध्यक्ष	
5.	नरेन्द्र कुमार गुप्ता पुत्र श्री बिहारी दास, पता: ए-204, मरक्यूरी, वसंत गेलेक्सी, बांगुर नगर, गोरेगांव (पश्चिम) मुम्बई - 400090 व्यवसाय : नौकरी	10 (दस)	Sd./-	
6.	श्री जे. रवि चंद्रन, पुत्र श्री एस. जगन्नाथन 703, नीट हाउस, रोड नं. 86, दादर (पश्चिम), मुम्बई -400028 व्यवसाय : नौकरी	10 (दस)	Sd./-	
7.	भाश्यम एस पुत्र श्री के. शेषन बी-403, रिवेरा बिल्डिंग, साई गार्डन के सामने, आकली रोड, लोखंडवाला टाउनशिप, कांदिवली (पूर्व), मुम्बई-400101 व्यवसाय : नौकरी	10 (दस)	Sd./-	
	कुल	50000 (पचास हजार)		

दिनांक: 17 अप्रैल, 2003

स्थान: मुंबई

कंपनी अधिनियम, 1956
(अंशों द्वारा सीमित कंपनी)

नेशनल कॉमोडिटी एण्ड डेरीवेटीव्स एक्सचेंज लिमिटेड का कंपनी का विधान

सारणी 'ए' छोड़कर

सारणी 'ए' लागू नहीं

1. कंपनी अधिनियम, 1956 के लिये प्रथम अनुसूची में सारणी 'ए' में निहित विनियम कंपनी के लिये लागू नहीं होंगे जो कि अब तक सिवाय समान को छोड़कर अधिनियम द्वारा अनुच्छेदों में दोहराए गये हैं या लागू किये गये हैं।

कंपनी इन अनुच्छेदों द्वारा संचालित की जानी है

2. कंपनी के प्रबंधन के लिये एवम इसके सदस्यों एवम उनके प्रतिनिधियों द्वारा अवलोकन के लिये विनियम, निरस्त या परिवर्तन करने या विशेष प्रस्ताव द्वारा इसके विनियमों में परिवर्धन के लिये संदर्भ सहित या कंपनी अधिनियम, 1956 द्वारा निर्धारित अनुसार, जैसा इन अनुच्छेदों में निहित है, कंपनी की वैधानिक शक्तियों के प्रयोग के अधीन होंगे. प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956, प्रतिभूति संविदा विनियमन नियम, 1957, भारतीय प्रतिभूति एवम विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 समय-समय पर सेबी द्वारा जारी कोई नियम या विनियम एवम परिपत्र इत्यादि के किसी प्रावधान के उल्लंघन में कंपनी के विधान में कोई भी प्रावधान संचालित नहीं किया जायेगा।

व्याख्या

3. (1) इन अनुच्छेदों एवम संस्था के बहिर्नियमों में, निम्नलिखित शब्दों एवम अभिव्यक्तियों का निम्नलिखित अर्थ होगा, जब तक विषय या संदर्भ द्वारा छोड़ा नहीं जाता है।

(ए) “अधिनियम” या “कथित अधिनियम” का अर्थ है कंपनी अधिनियम, 1956 एवम इसमें तत्समय प्रभाव के लिये प्रत्येक वैधानिक संशोधन, प्रतिस्थापन एवम इसका पुर्नअधिनियमन सम्मिलित होता है।

(एए) “बैंकिंग कंपनी” का वही अर्थ होगा जैसा इसके बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 5 के अनुच्छेद (सी) में निर्दिष्ट है।

(बी) “उपनियम”, “नियम” एवम “विनियम” का अर्थ है तत्समय प्रभाव के लिये विनियम के उपनियम, नियम एवम विनियम।

स्पष्टीकरण: “नियम” में कंपनी के बहिर्नियम एवम कंपनी का विधान सम्मिलित होगा।

(सी) “बोर्ड”, “निदेशकों का बोर्ड” या “निदेशक” का अर्थ है कंपनी के निदेशकों का बोर्ड या सम्मिलित रूप से कंपनी के निदेशक.

(डी) “समाशोधन सदस्य” का अर्थ है वह व्यक्ति जिसे किसी अधिकृत समाशोधन निगम में समाशोधन एवम समझौता अधिकार प्राप्त होते हैं एवम इसमें एक्सचेंज पर समाशोधन एवम समझौता अधिकार प्राप्त कोई व्यक्ति सम्मिलित होगा.

बशर्ते कि एक्सचेंज का इस तरह का समाशोधन सदस्य को इस तरह की तिथी से अधिकृत समाशोधन निगम का सदस्य बनना आवश्यक होगा, जैसा सेबी द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है.

(ई) “समाशोधन गृह” वह होता है जो सदस्यों के मध्य समाशोधन संविदाओं के लिये एवम सदस्यों को वस्तुएं पहुंचाने एवम प्राप्त करने के लिये किसी संविदा के संबंध में एवम पूर्वगामी उद्देश्यों को कार्यान्वित करने के लिये आवश्यक या सभी चीजों को करने के लिये समाशोधन गृह के सदस्यों के सामान्य अभिकर्ता के तौर पर कार्य करता है। समाशोधन गृह के कार्य एक्सचेंज द्वारा या इस उद्देश्य के लिये एक्सचेंज द्वारा पहचान किये हुए किसी अन्य अभिकरण द्वारा किया जा सकता है।

- (एफ) “माल” का अर्थ है एस.सी.आर.ए. की धारा 2 (बीबी) में इसको निर्दिष्ट करने के लिये अर्थ।
- (जी) “कंपनी” का अर्थ है “नेशनल कॉमोडिटी एण्ड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज लिमिटेड”।
- (एच) “निक्षेपागार अधिनियम” का अर्थ है निक्षेपागार अधिनियम, 1996 एवम इसमें तत्समय प्रभाव के लिये इसका प्रत्येक वैधानिक संशोधन, प्रतिस्थापन एवम पुनर्अधिनियमन सम्मिलित होता है।
- (आई) “निक्षेपागार” का अर्थ है कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) या कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत गठित एवम पंजीकृत कंपनी जिसे प्रतिभूति एवम विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 12 की उपधारा (1ए) के अंतर्गत पंजीकरण का प्रमाणपत्र पारित किया गया है।
- (जे) “एक्सचेंज” का अर्थ है कॉमोडिटी डेरिवेटिव्स एक्सचेंज जो कि पारस्परिक होता है, जो कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है एवम इसे सभी वस्तुओं पर व्युत्पन्नों में क्रय, विक्रय या व्यवहार के व्यवसाय में सहायता करने, विनियमित करने एवम नियंत्रित करने की अनुमति होती है, जैसा कि समय-समय पर केन्द्र सरकार द्वारा सूचित किया जाता है।
- (के) “कार्यकारिणी समिति” का अर्थ है एक्सचेंज के दिन-प्रतिदिन के कार्यों को प्रबंधन करने के लिये उसके विधान के अनुसरण एवम उसके निर्दिष्ट दशाओं में बोर्ड द्वारा गठित एवम नियुक्त कार्यकारिणी समिति। कार्यकारिणी समिति का सदस्य “कार्यकारिणी समिति सदस्य” कहा जायेगा।
- (एल) हटाया हुआ
- (एलए) “बीमा कंपनी” कंपनी का अर्थ वैसा ही होगा जैसा बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) की धारा 2 की उपधारा (8) में निर्दिष्ट है।
- (एलबी) “प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक” का अर्थ है मुख्य कार्यकारिणी अधिकारी या प्रबंध निदेशक या मैनेजर, कंपनी सचिव, पूर्णकालिक निदेशक, मुख्य वित्तीय अधिकारी एवम इस तरह का अन्य अधिकारी, जैसा केन्द्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है।
- (एम) “कंपनी का सदस्य” या “सदस्य” का अर्थ है कंपनी के अंशों का समय-समय पर विधिवत पंजीकृत धारक एवम इसमें निक्षेपागार अधिनियम, 1996 की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (ए) में परिभाषित कंपनी के बहिर्नियम के लिये ग्राहक एवम लाभार्थी स्वामी सम्मिलित है, किन्तु शेयर वारंट का धारक इसमें सम्मिलित नहीं होता है।
- (एमए) “प्रतिभूतियां” – सम्मिलित
1. अंश, बीजक, बंधपत्र, ऋणपत्र, ऋणपत्र स्टॉक या इस तरह की प्रकृति की या किसी निगमित कंपनी या अन्य निगमित निकाय की अन्य बिक्री योग्य प्रतिभूतियां,
 - 1ए. व्युत्पन्न,
 - 1बी. इस तरह की योजनाओं में निवेशकों को किसी किसी सामूहिक निवेश योजना द्वारा जारी ईकाईयां या कोई अन्य दस्तावेज,
 - 1सी. प्रतिभूतिकरण एवम वित्तीय संपत्तियों के पुनर्निर्माण एवम प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 2 के खण्ड (जेडजी) में परिभाषित तौर पर प्रतिभूति रसीद,
 - 1डी. किसी म्यूचुअल फंड स्कीम के अंतर्गत निवेशकों को जारी ईकाईयां या इस तरह का कोई अन्य दस्तावेज,

स्पष्टीकरण: शंकाओं के समाधान के लिये, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि “प्रतिभूतियों” में किसी भी नाम द्वारा संदर्भित कोई जुड़ी हुई बीमा पोलिसी या बीजक या इस तरह का कोई दस्तावेज या ईकाई, जो कि व्यक्ति के जीवन पर संयुक्त लाभ जोखिम प्रदान करता है, एवम बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) की धारा 2 के खण्ड (9) में संदर्भित बीमाकर्ता द्वारा जारी एवम इस तरह के व्यक्ति द्वारा निवेश, सम्मिलित नहीं होगा.

1ई. एक विशेष उद्देश्य पृथक ईकाई होकर किसी जारीकर्ता द्वारा निवेशक को कोई प्रमाणपत्र या दस्तावेज (किसी भी नाम से संदर्भित) जारी करना, जो किसी ऋण या प्राप्तियों का धारक हो, जिसमें इस तरह की ईकाई को निर्दिष्ट बंधक ऋण, एवम इस तरह के ऋण या प्राप्तियों में इस तरह के निवेशक के लाभकारी हित को स्वीकार करना, जिसमें बंधक ऋण सम्मिलित है, जैसा भी मामला हो सकता है,

2. सरकारी प्रतिभूतियां,

2ए. इस तरह के अन्य दस्तावेज, जैसा प्रतिभूतियां होने के लिये केन्द्र सरकार द्वारा घोषित किया जा सकता है,

3. प्रतिभूतियों में अधिकार एवम हित,

(एन) “व्यापार सदस्य” का अर्थ है कंपनी में व्यापार अधिकार प्राप्त व्यक्ति एवम इसमें स्टॉक दलाल सम्मिलित होता है.

(ओ) “महीना” का अर्थ है कैलेंडर महीना।

(पी) “कार्यालय” का अर्थ है कंपनी का उस समय के लिये पंजीकृत कार्यालय।

(पीए) अधिग्रहण या अंशों की धारिता या मतदान अधिकार या नियंत्रण के संदर्भ में “सामंजस्य में कार्य करने वाले व्यक्ति” यथोचित परिवर्तनों सहित होंगे एवम इसका समान अर्थ है, जैसा कि प्रतिभूतियां एवम भारतीय विनियम बोर्ड (अंशों का सारभूत अधिग्रहण एवम कब्जा) विनियम, 2011 के विनियम 2 के उप-विनियम (1) के खंड (क्यू) या इसके किसी संशोधन में निर्दिष्ट है।

(पीबी) “भारत में निवास करने वाले व्यक्ति” का अर्थ उसी समान होगा जैसा विदेश विनियम प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 2 के खंड (V) में निर्दिष्ट है।

(पीसी) “भारत से बाहर निवास करने वाले व्यक्ति” का अर्थ उसी समान होगा जैसा विदेश विनियम प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 2 के खंड (W) में निर्दिष्ट है।

(पीडी) “जनता” में सम्मिलित है जनता का कोई व्यक्ति या अनुभाग, किन्तु किसी व्यापार सदस्य या समाशोधन सदस्य या उनके सहयोगी या अभिकर्ता इसमें सम्मिलित नहीं होते हैं, बशर्ते कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, सार्वजनिक वित्तीय संस्थान, बीमा कंपनियां, सार्वजनिक क्षेत्र में वैकल्पिक निवेश निधि, जो कि व्यापार सदस्यों या समाशोधन सदस्यों के सहयोगी हैं, जनता के तौर समझे जायेंगे।

(क्यू) “अभिलेख” में लेखों के रूप में रखे जाने वाले अभिलेख या कंप्यूटर या इस तरह के किसी अन्य रूप में संग्रहित अभिलेख सम्मिलित होते हैं, जैसा निक्षेपागार अधिनियम, 1996 के संबंध में सेबी द्वारा बनाये गये विनियमों द्वारा निर्धारित किया जा सकता है।

(आर) “पंजिका” का अर्थ है अधिनियम की धारा 150 के अनुसार रखा जाने वाली सदस्यों की पंजिका।

(एस) “मुहर” का अर्थ है कंपनी की उस समय के लिये सामान्य मुहर।

(एसए) “व्यापार—सह—समाशोधन सदस्य” का अर्थ है वह व्यक्ति जिसे एक्सचेंज द्वारा एक्सचेंज के सदस्य के तौर पर समाशोधन सदस्य के रूप में एक्सचेंज के समाशोधन गृह के माध्यम से व्यापार एवम समाशोधन के अधिकार प्रदान करते हुए प्रविष्ट किया गया है।

(एसबी) “एस.सी.आर.ए.” का अर्थ है प्रतिभूति संविदा (विनियम) अधिनियम, 1956 एवम इसमें तत्समय प्रभाव के लिये इसका कोई वैधानिक संशोधन या पुनर्अधिनियम सम्मिलित है।

(एससी) “एस.ई.सी.सी.” का अर्थ है प्रतिभूति संविदा (विनियम) (स्टॉक विनियम एवम समाशोधन निगम) विनियम, 2012 एवम तत्समय प्रभाव के लिये जारी इसके परिपत्रकों एवम दिशानिर्देशों के कोई वैधानिक संशोधन या पुनर्अधिनियम सम्मिलित है।

(एसडी) “भारत का प्रतिभूति एवम एक्सचेंज बोर्ड/सेबी” का अर्थ है भारतीय प्रतिभूति एवम एक्सचेंज बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 3 के अंतर्गत स्थापित प्रतिभूति एवम एक्सचेंज बोर्ड है।

(टी) “अधिकरण” का अर्थ है अधिनियम की धारा 10एफबी की उपधारा (1) के अंतर्गत गठित राष्ट्रीय कंपनी कानून अधिकरण।

(यू) “लिखित” या “लिखित में” का अर्थ है एवम इसमें सम्मिलित है दिखाई देने वाले रूप में किसी भी माध्यम में छपे हुए शब्द, छपे हुए, प्रस्तुत किये या पुनः प्रस्तुत किये हुए।

(ए) “वर्ष” का अर्थ है “कंपनी का वित्तीय वर्ष”।

- (2) शब्द व्यक्तियों के आशय में कंपनियां, निगम, फर्म, संयुक्त परिवार या संयुक्त ईकाइयां, व्यक्तियों का संघ, सोसायटी, न्यास, सार्वजनिक वित्तीय संस्थान, किसी सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों या बैंकों या कंपनियों के सहायक सम्मिलित होंगे।
- (3) शब्द पुल्लिंग के आशय में स्त्रीलिंग एवम विपरीत क्रम एवम कंपनियों, निगमों, फर्मों इत्यादि के मामले में तटस्थ लिंग सम्मिलित होंगे।
- (4) शब्द एकवचन के आशय में बहुवचन एवम विपरीत क्रम सम्मिलित होगा।
- (5) उपयोग में लिये गये शब्द एवम स्पष्टीकरण एवम इन अनुच्छेदों में निर्दिष्ट नहीं किन्तु कंपनी अधिनियम, 2013, भारतीय प्रतिभूति एवम एक्सचेंज बोर्ड, 1992, प्रतिभूति संविदा (विनियम) अधिनियम, 1956, निक्षेपागार अधिनियम, 1996 या इसके अन्तर्गत बनाये गये किसी नियम या विनियम में निर्दिष्ट का अर्थ क्रमशः उन अधिनियमों, नियमों एवम विनियमों या इसके किसी वैधानिक संशोधन या अधिनियमन, जैसा भी मामला हो सकता है, के लिये निर्दिष्ट के समान होगा।
- (6) मुख्य/सीमान्त टिप्पणियां इसके निर्माण को प्रभावित नहीं करेगी।

शुद्ध संपत्ति की आवश्यकता

3ए. (1) एक्सचेंज के पास हर समय कम से कम सौ करोड़ रुपये की शुद्ध संपत्ति होगी।

स्पष्टीकरण: इस अनुच्छेद के उद्देश्य के लिये “एक्सचेंज की शुद्ध संपत्ति” का अर्थ है प्रदत्त इक्विटी अंश पूंजी + मुक्त संचय (वैधानिक निधियों, लाभ निधियों एवम पुनर्मूल्यांकन से बाहर बनाये गये संचय को छोड़ते हुए) — व्यवसाय में निवेश, चाहे संबंधित हो या असंबंधित हो, संचित हानि का कुल मूल्य एवम रिटर्न ऑफ नहीं किये गये आस्थगित खर्च, रिटर्न ऑफ नहीं किए गये खर्चों को सम्मिलित करते हुए।

- (2) एक्सचेंज अपने अंशधारकों को किसी भी दशा में लाभों का वितरण नहीं करेगा, जब तक उपरोक्त निर्दिष्ट शुद्ध संपत्ति प्राप्त नहीं कर ली जाती है।
- (3) एक्सचेंज सेबी द्वारा अनुमति प्राप्त/निदेशित अनुसार या पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के सितम्बर महीने की तीस तारीख को वार्षिक आधार पर वैधानिक लेखा परीक्षक से अंकित शुद्ध संपत्ति प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेगा।

अंश पूंजीअधिकृत अंश पूंजी

4. (1) (ए) समय-समय पर कंपनी की अधिकृत पूंजी कंपनी के बहिर्नियम के खण्ड V (ए) के अनुसार होगा।

पूंजी को बढ़ाने या कम करने की शक्ति

- (बी) कंपनी को अपनी पूंजी को समय-समय पर बढ़ाने या कम करने एवम समय के बिन्दु पर विभिन्न श्रेणियों में से अंशों को पूंजी में विभाजित करने एवम इससे इसको क्रमशः इस तरह के अधिमान्य, संचयी, परिवर्तनीय, गारंटी, स्थगित, योग्य या अन्य विशेष अधिकारों, विशेषाधिकारों, दशाओं या प्रतिबंधों, जैसा इन प्रस्तुतियां द्वारा या इनके अनुसरण में निर्धारित किया जा सकता है, से संबद्ध करने एवम इस तरह के किसी अधिकार, विशेषाधिकार या दशा या प्रतिबंध को इस तरह की दशा में, जैसा तत्सम समय के लिये इन प्रस्तुतियों द्वारा अनुमति दी जा सकती है या इसकी ओर से तत्समय प्रभाव में कानूनी प्रावधानों के संबंध में शक्ति है।

- (2) कंपनी की न्यूनतम प्रदत्त पूंजी रु. 5,00,000 /— (रूपये पांच लाख मात्र) होगी।

सदस्यों एवम ऋणपत्र धारकों इत्यादि की पंजिका

5. अधिनियम की धारा 150, 151 एवम 152 के अनुसरण में कंपनी को सदस्य पंजिका, सदस्यों की सूची, ऋणपत्र धारकों की पंजिका एवम ऋणपत्र धारकों की सूची रखनी होगी।

सदस्यों एवम ऋणपत्र धारकों की विदेशी पंजिका

6. कंपनी विदेशी पंजिका को रखने के संबंध में अधिनियम की धारा 157 द्वारा उसमें निहित शक्तियों का प्रयोग ले सकती है एवम बोर्ड अधिनियम की धारा 158 के प्रावधानों के अधीन इस तरह के विनियमों को बना एवम बदल सकती है।

सदस्यों एवम ऋणपत्र धारकों इत्यादि की पंजिका का निरीक्षण

7. सदस्यों की पंजिका, सदस्यों की सूची, ऋणपत्र धारकों की पंजिका एवम सूची, अधिनियम की धारा 159 के अंतर्गत तैयार किये गये वार्षिक रिटर्नस की प्रतियां, इसके साथ-साथ अधिनियम की धारा 161 के अंतर्गत इसके साथ जोड़े जाने के लिये आवश्यक प्रमाणपत्रों एवम दस्तावेजों की प्रतियां होगी, उसको छोड़कर, जब सदस्यों या ऋणपत्र धारकों की पंजिका को अधिनियम या इन अनुच्छेदों के प्रावधानों के अंतर्गत बंद किया जाता है, कार्य के घंटों (इस तरह के यथोचित प्रतिबंध के अधीन जैसा कंपनी लागू कर सकती है) के दरम्यान किसी सदस्य या ऋणपत्र धारक के निरीक्षण के लिये बिना किसी शुल्क के एवम इस तरह की राशि के भुगतान पर किसी अन्य व्यक्ति के निरीक्षण के लिये खुला होने के लिये, जैसा इस तरह के निरीक्षण के लिये अधिनियम द्वारा निर्धारित किया जा सकता है। इस तरह का कोई भी सदस्य या व्यक्ति इस तरह की राशि के भुगतान पर वहां से उद्धरण ले सकता है, जैसा इस तरह के निरीक्षण के लिये अधिनियम द्वारा निर्धारित किया जा सकता है।

पंजिका, सूची इत्यादि का उद्धरण भेजने के लिये कंपनी

8. अधिनियम के अंतर्गत रखे जाने के लिये आवश्यक सदस्यों की पंजिका, सदस्यों की सूची, ऋणपत्र धारकों की पंजिका एवम सूची या इसके किसी भाग की प्रति को किसी सदस्य, ऋणपत्र धारक या निवेदन पर अन्य व्यक्ति को कंपनी द्वारा भेजा जायेगा, जैसा कि अधिनियम द्वारा निर्धारित किया जा सकता है। प्रति गैर कार्य दिवसों के अनन्तर, दस दिनों की अवधि के अंदर भेजी जायेगी, जिस पर कंपनी द्वारा निवेदन प्राप्त किया जाता है।

आवंटन पर प्रतिबंध

9. आवंटन अधिनियम की धारा 69, 70 एवम 73 में निहित तौर पर निदेशक प्रतिबंध का अवलोकन करेंगे एवम अधिनियम की धारा 75 में आवंटन प्रदान किये जाने के तौर वापस लौटाने के लिये कारण होगा।

निदेशकों के निपटान पर अंश

10. अधिनियम एवम इन अनुच्छेदों के प्रावधानों के अधीन, तत्समय के लिये कंपनी की पूंजी में अंश (कंपनी की किसी बढ़ने वाली पूंजी के गठन का भाग होने वाले किसी अंश को सम्मिलित करते हुए)

उन निदेशकों के नियंत्रण के अंतर्गत होंगे, जो इन्हें आवंटित या अन्यथा इनको या इनमें से किसी को इस तरह के अनुपात में एवम इस तरह की शर्तों एवम दशाओं पर एवम या तो प्रीमियम पर या सममूल्य पर या छूट पर (अधिनियम की धारा 79 के प्रावधानों के अनुपालन के अधीन) एवम इस तरह के समय पर आवंटित कर सकते हैं या निपटा सकते हैं, जैसा कि वे समय-समय पर उपयुक्त एवम उचित समझ सकते हैं, बशर्ते कि अंशों को कॉल करने के लिये किसी व्यक्ति को, सामान्य सभा में कंपनी को अनुदानित को छोड़कर, किसी अन्य व्यक्ति को विकल्प या अधिकार नहीं दिया जायेगा.

निदेशक अंशों को पूर्ण प्रदत्त या अंशतः प्रदत्त के तौर पर आवंटित कर सकते हैं

11. अधिनियम एवम इसके अनुच्छेदों के प्रावधानों के अधीन निदेशक, किसी संपत्ति को बेचने या माल को हस्तांतरित करने या मशीनरी की आपूर्ति करने या कंपनी को प्रदान की गई सेवाओं के लिये भुगतान या अंश भुगतान के तौर पर कंपनी की पूंजी में अंशों को आवंटित एवम जारी कर सकते हैं एवम कोई अंश जो इस तरह से आवंटित किया जा सकता है, पूर्ण प्रदत्त या अंशतः प्रदत्त के तौर पर जारी किया जा सकता है एवम यदि इस तरह से जारी किया जाता है तो उसे पूर्ण प्रदत्त अंश या अंशतः प्रदत्त अंश होने के लिये समझा जायेगा.

अंशों को स्वीकार करना

12. कंपनी में अंशों के लिये आवेदक द्वारा या उसकी ओर से इनमें किसी अंश का आवंटन करते हुए हस्ताक्षरित कोई आवेदन इन अनुच्छेदों के अर्थ के अंतर्गत अंशों की स्विकृती होगी, एवम कोई व्यक्ति जो इस प्रकार या अन्यथा किसी अंश को स्वीकार करता है एवम जिसका नाम पंजिका में है, सदस्य होने के लिये इन अनुच्छेदों के उद्देश्य के लिये होगा.

पंजीकृत धारकों के अतिरिक्त अंशों में किसी हित को मान्यता देने के लिये कंपनी बाध्य नहीं होती है

13. इसमें अन्यथा प्रदान किये तौर पर के अतिरिक्त, कंपनी उस व्यक्ति से व्यवहार करने की हकदार होगी जिसका नाम किसी अंश के धारक के तौर पर सदस्यों की पंजिका में इसके स्वामी के तौर पर प्रविष्ट होगा एवम किसी अन्य व्यक्ति के भाग पर इस तरह के अंश में किसी बेनामी, न्यास या इक्विटी या न्यायसंगत, प्रासंगिक या अन्य दावे या हित को मान्यता देने के लिये बाध्य नहीं होगी, चाहे इसकी सूचना अभिव्यक्त या अंतर्निहित की जायेगी या नहीं की जायेगी.

कंपनी के अंशों पर खरीदने या लेने के लिये कंपनी की निधियां को लागू नहीं किया जा सकता है

14. अधिनियम की धारा 77 एवम 77ए द्वारा अनुमति प्राप्त सीमा के अतिरिक्त, कंपनी की निधियों का कोई भी भाग कंपनी के अंशों की प्रतिभूति पर क्रय करने के लिये या लेने के लिये नियोजित नहीं किया जायेगा.

सदस्यों के दायित्व

15. प्रत्येक सदस्य या उसका उत्तराधिकारी, निष्पादक या प्रशासक अपने उस अंश या अंशों द्वारा प्रतिनिधित्व पूंजी के भाग का भुगतान इस तरह के समय या समयों पर एवम इस तरह की दशा पर कंपनी को करेगा, जो उस पर तत्सम अदत्त बचा हुआ हो सकता है, जैसा कि बोर्ड इसके भुगतान को समय-समय पर आवश्यक या नियत करेगा.

न्यास मान्यता प्राप्त नहीं

16. सक्षम क्षेत्राधिकार के न्यायालय द्वारा पारित आदेश या अधिनियम द्वारा प्रदान किये अनुसार को छोड़कर, किसी भी न्यास का कोई भी नोटिस, अभिव्यक्त या गर्भित या रचनात्मक, कंपनी के सदस्यों या ऋणपत्र धारकों की पंजिका पर प्रविष्ट नहीं किया जायेगा.

वर्ग अधिकारों में संशोधन

अंशधारकों की विभिन्न श्रेणियों के अधिकारों एवम असहमत अंशधारकों के अधिकारों में संशोधन करने के लिये शक्ति

17. (1) यदि किसी भी समय कंपनी की अंश पूंजी अंशों की विभिन्न श्रेणियों में विभाजित किये जाते हैं, तो किसी भी श्रेणी के अंशों के साथ जुड़े हुए अधिकार एवम विशेषाधिकार अधिनियम के प्रावधानों के अधीन हो सकते हैं एवम चाहे कंपनी उस श्रेणी के लिये जारी अंशों के कम से कम $3/4$ धारकों की लिखित में सहमति या इस श्रेणी के लिये जारी अंशों के धारकों की सभा में पारित विशेष प्रस्ताव की मंजूरी के साथ परिसमाप्त, अलग, रूपांतरित, प्रभावित हो रही है.

- (2) यह अनुच्छेद कंपनी की किसी शक्ति से छोटा नहीं होता है जो कर लिया होगा, यदि यह अनुच्छेद छोड़ा गया था एवम यदि इस श्रेणी के जारी अंशों के कम से कम 10 प्रतिशत धारक होकर असहमत अंशधारक व्यक्ति, जो कि अधिनियम की धारा 107 में प्रदान किए अनुसार परिवर्तन या संशोधन करने के लिये अभिकरण को परिवर्तन के लिये आवेदन करने के लिये प्रस्ताव के पक्ष में सहमत नहीं थे या वोट देने के पक्ष में नहीं थे.

हामीदारी कमीशन

अंशों को रखने के लिये कमीशन

18. (1) अधिनियम की धारा 76 के प्रावधानों के अधीन, कंपनी किसी भी समय किसी व्यक्ति को किन्हीं अंशों, ऋणपत्रों या ऋणपत्र स्टॉक या कंपनी की किसी अन्य प्रतिभूति या कंपनी का ग्राहक बनने के लिये सहमति या ग्राहक बनने के लिये या कंपनी के किन्हीं अंशों, ऋणपत्रों या ऋणपत्र स्टॉक या किसी अन्य प्रतिभूति के लिये सदस्यता (चाहे पूर्ण या सशर्त) उपार्जन करने के लिये सहमति देना या उपार्जन करने के लिये कमीशन अदा कर सकती है. यदि अंशों के संबंध में कमीशन पूंजी के बाहर अदा किया जायेगा या देय होगा, तो वैधानिक दशाओं एवम आवश्यकताओं का अवलोकन एवम पालन किया जायेगा. राशि या कमीशन की दर अधिनियम द्वारा निर्धारित दरों से अधिक नहीं होगी. कमीशन रोकड़ में या कंपनी के अंशों, ऋणपत्रों या ऋणपत्र स्टॉक में अदा किया जा सकता है.

दलाली

- (2) कंपनी इस तरह की दलाली का भुगतान करने के लिये इस तरह के अंशों को भी जारी कर सकती है, जैसा कि अधिनियम के अंतर्गत अनुमति के अंतर्गत किया जा सकता है.

प्रमाणपत्र

प्रमाणपत्र कैसे जारी किये जाने हैं

19. अंशों के लिये टाईटल का प्रमाणपत्र कंपनी की मुहर के अंतर्गत जारी किया जायेगा एवम विधिवत गठित मुख्यारनामा के अंतर्गत दो निदेशकों या निदेशकों की ओर से व्यक्तियों या इस उद्देश्य के लिये बोर्ड द्वारा नियुक्त किये गये समान अन्य व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षर किये जायेंगे. इस तरह के अंशों का प्रमाणपत्र अधिनियम की धारा 113 के प्रावधानों के अधीन इस तरह के अंशों के हस्तांतरण के पंजीकरण के लिये आवेदन के पश्चात दो महीनों के अंदर या आवंटन के पश्चात तीन महीनों के अंदर अधिनियम की धारा 53 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसरण में सुपुर्द किया जायेगा, जैसा भी मामला हो सकता है, जब अंशों को जारी करने की दशाओं में अन्यथा प्रदान नहीं किया गया है, बशर्ते हमेशा कि कुछ भी निहित होने के बावजूद भी, अंशों के टाईटल का प्रमाणपत्र अधिनियम के इस तरह के अन्य प्रावधानों के अनुसरण में या इसके अंतर्गत बनाये गये नियमों के अनुसार निष्पादित या जारी किया जा सकता है, तत्समय के लिये या समय-समय पर प्रभाव में हो सकता है.

प्रमाणपत्रों के लिये सदस्यों के अधिकार

20. (1) प्रत्येक सदस्य प्रत्येक श्रेणी के सभी अंशों के लिये या अपने नाम पर पंजीकृत नामकरण के लिये बिना भुगतान के एक प्रमाणपत्र प्राप्त करने का हकदार होगा, यदि निदेशक प्रत्येक श्रेणी के एक या अधिक अंशों के लिये एक या कई प्रमाणपत्र जारी करने के लिये इस तरह से अनुमोदन (इस तरह के शुल्क या शुल्कों का भुगतान करने पर शुल्कों के भुगतान के बिना निदेशकों के विवेक पर जैसा कि निदेशक समय-समय पर निर्धारित कर सकते हैं) करते हैं. अंशों का प्रत्येक प्रमाणपत्र अंशों की उस संख्या एवम उस पर भुगतान की गई राशि को उल्लिखित करेगा, जिसके संबंध में यह जारी किया गया है एवम इस तरह के प्रारूप में होगा, जैसा निदेशक निर्धारित या अनुमोदित करेंगे. जहां पर सदस्य ने अपनी धारित राशि में समाविष्ट अंशों का भाग हस्तांतरित किया है, वह बिना किसी शुल्क के लिये शेष के लिये प्रमाणपत्र का हकदार होगा.
- (2) इसमें उपरोक्त में सबकुछ निहित होने के बावजूद भी, अपने एकमात्र विवेक पर बिक्री योग्य लॉट से कम के नामकरण में से अंश प्रमाणपत्रों, ऋणपत्रों एवम बॉण्ड प्रमाणपत्रों के उपविभाजन या एकत्रीकरण के लिये आवेदनों को अस्वीकार कर सकता है, उसको छोड़कर जब इस तरह का उप-विभाजन या एकत्रीकरण कानून के सक्षम न्यायालय के आदेश पर या वैधानिक प्रावधानों का अनुपान किये जाने के लिये आवश्यक होता है.

एक विरूपित, खोये या नष्ट हुए प्रमाणपत्र के स्थान पर नये प्रमाणपत्र को जारी करने के लिये

21. (1) प्रमाणपत्र का नवीनीकरण किया जा सकता है या इसकी प्रतिलिपि जारी की सकती है, यदि इस तरह का प्रमाणपत्र — (ए) यह साबित हो जाता है कि यह खो गया है या नष्ट हो गया है, या (बी) विरूपित या क्षतविक्षत हो गया है या फट गया है, कंपनी को वापिस दे दिया गया है, या (सी) पृष्ठांकन या हस्तांतरण के लिये इसके पीछे कोई भी स्थान नहीं बचा है.
- (2) प्रमाणपत्र को जारी करने या नवीनीकरण या इसकी प्रतिलिपि जारी करने की दशा में, प्रमाणपत्र का प्रारूप (मूल या नवीनीकृत) या इसकी प्रतिलिपि, सदस्यों की पंजिका या नवीनीकृत या प्रतिलिपि प्रमाणपत्र पंजिका में प्रविष्ट किया जाने वाला विवरण, इस तरह की पंजिका से, जिसके भुगतान पर शुल्क, जिसकी शर्तें एवम दशाएं, जिस पर प्रमाणप. नवीनीकृत किया जा सकता है या इसकी प्रतिलिपि जारी की जा सकती है, कंपनी (अंश प्रमाणपत्र जारी करना) नियम, 1960 या इसके प्रतिस्थापन या संशोधन में किन्हीं अन्य नियमों द्वारा इस तरह से निर्धारित होगा.

कॉल्स

कॉल्स

22. निदेशक समय-समय पर इस तरह के कॉल कर सकते हैं, जैसा उनके द्वारा क्रमानुसार धारित अंशों पर अदत्त सभी राशियों के संबंध में सदस्य पर वे उचित समझ सकते हैं एवम निश्चित समय पर देय किये गये इसके आवंटन की दशाओं द्वारा नहीं एवम प्रत्येक सदस्य प्रत्येक कॉल पर राशि का भुगतान करेगा, जो निदेशकों द्वारा उस समय एवम उन स्थानों पर नियुक्त उन पर इस तरह से व्यक्ति के लिये बनाई गई है. कॉल का भुगतान किशतों द्वारा किया जा सकता है.

समरूप आधार पर की जाने वाली समान श्रेणी के अंशों पर कॉल

23. जहां अंशों पर आगे की अंश पूंजी के लिये कोई कॉल किया जाता है, इस तरह की कॉल समान श्रेणी के अंतर्गत आने वाले सभी अंशों पर समरूप आधार पर की जायेगी. इस अनुच्छेद के उद्देश्य के लिये, समान सांकेतिक मूल्य के अंशों, जिन पर भिन्न राशियां प्रदत्त की गई हैं, समान श्रेणी के अंतर्गत आने के लिये नहीं समझा जायेगा.

प्रस्ताव से दिनांक के लिये कॉल

24. कॉल को उस समय किया गया है ऐसा समझा जायेगा जब इस तरह की कॉल के लिये अधिकृत निदेशकों का प्रस्ताव पारित किया गया था एवम इस तरह की तिथी पर सदस्यों की पंजिका पर सदस्यों द्वारा देय किया जा सकता है या इस तरह की अनुवर्ती तिथी पर निदेशकों के विवेक पर निदेशकों द्वारा निर्धारित किया जायेगा.

कॉल की सूचना

25. भुगतान के लिये प्रत्येक कॉल की सूचना की तिथी से कम से कम 14 दिनों का समय दिया जायेगा बशर्ते कि इस तरह की कॉल के भुगतान के लिये समय से पहले निदेशक सदस्यों को लिखित में सूचना देकर इसे रद्द कर सकते हैं.

बोर्ड समय को बढ़ा सकता है

26. निदेशक समय-समय पर अपने विवेक पर किसी कॉल के भुगतान के लिये नियत समय को बढ़ा सकते हैं एवम इस तरह के समय को सभी या किसी सदस्य के लिये विस्तारित कर सकते हैं, जिसे निदेशक इस तरह के विस्तार का हकदार समझ सकते हैं, किन्तु अनुग्रह एवम पक्ष के मामले के तौर पर कोई भी सदस्य इस तरह के किसी विस्तार को पाने का हकदार नहीं होगा.

संयुक्त धारक का दायित्व

27. अंशों के संयुक्त धारक इसके संबंध में सभी कॉल्स पर भुगतान के लिये संयुक्त एवम व्यक्तिगत रूप से दायी होंगे.

कॉल के अनुसार निश्चित समय पर या किशतों द्वारा देय राशि

28. यदि किसी अंश या अन्यथा को जारी करने की शर्तों द्वारा यदि किसी राशि को किसी निश्चित समय पर या किसी निश्चित समय पर किशतों द्वारा देय बनाया जाता है, चाहे अंश की राशि के खाते पर या प्रीमियम के द्वारा, तो इस तरह की प्रत्येक राशि या किशत देय होगी जैसे यदि यह कॉल निदेशकों द्वारा विधिवत किया गया था एवम जिसका उचित नोटिस दिया गया है एवम

तदनुसार कॉल्लस के संबंध में इसमें निहित सभी प्रावधान इस तरह की राशि या किश्त से संबंधित होंगे.

तत्काल भुगतान किये जाने वाले ऋणों के लिये जमा एवम कॉल इत्यादि

29. राशि, यदि कोई हो, उनके द्वारा दिये गये किन्हीं अंशों के आवंटन पर, जो कि बोर्ड द्वारा आवंटित किन्हीं अंशों के संबंध में जमा, कॉल या अन्यथा के माध्यम से अदा की जाने की आवश्यकता या अदा करने के लिये निर्देशित किये जाने के लिये सदस्यों की पंजिका में आवंटिती के नाम के प्रविष्टि पर इस तरह अंशों के धारक के नाम के तौर पर तत्काल किया जायेगा, इसके आवंटिती से कंपनी द्वारा वसूली योग्य एवम बकाया ऋण होने के लिये एवम तदनुसार उसके द्वारा अदा किये जायेंगे.

जब ब्याज कॉल या किश्त पर देय होता है

30. यदि किसी कॉल या किश्त के संबंध में देय राशि इसके भुगतान के लिये निश्चित दिनांक पर या पहले अदा नहीं की जाती है, तो तत्समय के लिये धारक या अंश का आवंटिती, जिसके संबंध में कॉल किया जायेगा या किश्त बकाया होगी, इस तरह की दर पर इस पर ब्याज का भुगतान करेगा, जैसा वास्तविक भुगतान के समय के लिये इसके भुगतान के लिये नियुक्त दिन से समय-समय पर निदेशकों द्वारा निश्चित किया जा सकता है, किन्तु निदेशक इस तरह के ब्याज को पूर्ण या आंशिक रूप से माफ कर सकते हैं.

कॉल्लस के पुर्वानुमान में भुगतान पर ब्याज लगाया जा सकता है

31. निदेशक, यदि उचित समझते हैं, तो वे उसके द्वारा धारित अंशों पर बकाया सभी राशियां या इसके किसी भाग को, इस पर उधार लेने के इच्छुक किसी सदस्य से, वास्तव में कॉल की गई राशियों से परे, एवम इस तरह से उधार में अदा की गई राशियों पर, या इसके तत्संबंधी, जैसा कि समय-समय पर अंशों पर की गई कॉल की राशियों का अधिक होना, जिसके संबंध में, इस तरह का उधार दिया गया है, कंपनी इस तरह की दर पर ब्याज का भुगतान कर सकती है, जैसा कि सदस्य उधार में इस तरह की राशियों पर भुगतान कर रहा है एवम इस पर निदेशक सहमत होते हैं एवम निदेशक इस तरह के सदस्यों को लिखित में एक महीने का नोटिस देकर इस तरह की उधार की राशि का पुर्नभुगतान किसी भी तरह कर सकते हैं, बशर्ते सदस्य उसके द्वारा इस तरह से अदा की गई राशियों के संबंध में किसी भी तरह के मतदान अधिकार का हकदार नहीं होगा, जब तक यह वर्तमान में देय होने के लिये इस तरह की राशि के लिये नहीं होगा.

अंशधारकों के विरुद्ध कंपनी द्वारा कार्यवाही में साक्ष्य

32. अपने अंशों के संबंध में कंपनी को देय होने वाली किन्हीं राशियों के दावे की वसूली के लिये किसी सदस्य उसके कानूनी प्रतिनिधि के विरुद्ध कंपनी द्वारा विचारण या सुनवाई पर कोई कार्यवाही की जाती है या वाद दायर किया जाता है, तो यह साबित करना पर्याप्त होगा कि सदस्य का नाम, जिसके संबंध में अंशों की राशियों की वसूल करने के लिये मांग की जानी है, सदस्यों की पंजिका में प्रविष्ट किया गया है, जैसा सदस्य/सदस्यों में से कोई सदस्य किसी प्रासंगिक तिथी पर जिस पर राशियों को वसूली की मांग की जानी है, अंशों पर बकाया होने के लिये आरोपित की जाती है, एवम बुलावे के लिये बनाया गया प्रस्ताव कार्यवृत्त पुस्तिका में विधिवत अभिलिखित किया जाता है, एवम इस तरह के बुलावे का नोटिस सदस्य, धारक या संयुक्त धारक या उसके कानूनी प्रतिनिधियों को इन अनुच्छेदों के अनुसरण में विधिवत जारी किया जाता है. उन निदेशकों की नियुक्ति को साबित करने की आवश्यकता नहीं होगी, जिन्होंने इस तरह का कॉल किया है, ना ही बोर्ड पर निदेशकों का कोरम उपस्थित था, जिस पर इस तरह का कोई कॉल किया गया था, आव्हान या गठित किया गया है, ना ही कोई अन्य मामला, जैसा भी, किन्तु उपरोक्त कथित मामलों का सबूत ऋण का का निर्णायक साक्ष्य होगा.

जप्ती, समर्पण एवम धारणाधिकार

सदस्य सदस्यता के विशेषाधिकार का हकदार नहीं होता है जब तक सभी कॉल्लस का भुगतान नहीं किया जाता है

33. कोई भी सदस्य कोई लाभांश प्राप्त करने या सदस्य के तौर पर किसी विशेषाधिकार का उपयोग करने का हकदार नहीं होगा, जब तक वह उसके द्वारा धारण किये गये प्रत्येक अंश पर तत्समय बकाया एवम देय सभी कॉल्लस का भुगतान नहीं करेगा, चाहे अकेले या किसी व्यक्ति के साथ संयुक्त रूप से, ब्याज एवम खर्चों सहित, यदि कोई हो.

यदि कॉल या किश्त अदा नहीं की जाती है, तो नोटिस दिया जाना चाहिए

34. यदि कोई सदस्य किन्हीं अंशों के संबंध में बकाया किसी कॉल या किश्त या किसी राशि के पूर्ण या किसी भाग का, या तो मूल या ब्याज द्वारा, इसके भुगतान के लिये नियत दिन पर या इससे पहले, भुगतान करने में असफल रहता है, तो निदेशक किसी भी समय इस तरह के समय की अवधि के पश्चात्, कॉल या किश्त के तौर पर या इसके किसी भाग पर या अन्य राशियां अदत्त बनी रहती है या इसके संबंध में निर्णय या डिक्ली असंतोषप्रद बना रहता है, पूर्ण या भाग में, इस तरह के सदस्य या व्यक्ति पर नोटिस जारी करने पर, यदि कोई हो, इस तरह की कॉल या किश्त या इस तरह के इसके भाग या अन्य राशियों के भुगतान के लिये उसके द्वारा आवश्यक हस्तांतरण द्वारा अंशों के लिये हकदार, किसी ब्याज के साथ अदत्त बने रहने पर, जो घटित हो सकता है एवम सभी खर्चे (कानूनी या अन्यथा) जिनका भुगतान किया गया है या इस तरह के गैर-भुगतान के कारण से कंपनी द्वारा खर्च किये गये हैं.

नोटिस का प्रपत्र

35. नोटिस की दिनांक से कम से कम 14 दिनों की अवधि के लिये नोटिस दिया जायेगा एवम स्थान या स्थानों जहां पर एवम जिस पर इस तरह की कॉल्स या किश्त या उपरोक्त कथित तौर पर अन्य राशियों का इस तरह का भाग इस तरह का ब्याज एवम खर्चे अदा किये जाने हैं. नोटिस में यह भी कथन किया जायेगा कि अंशों की नियुक्ति के उस स्थान पर एवम समय पर या समय से पहले भुगतान नहीं करने के प्रसंग में, जिसके लिये कॉल की गई थी या किश्त देय है, जब्ती के लिये दायी होंगे.

भुगतान की चूक की दशा में, अंशों को जप्त किया जाना है

36. यदि किन्हीं अंशों के संबंध में उपरोक्त कथित तौर पर इस तरह के किसी नोटिस की मांग का पालन नहीं किया जाता है, जिसमें संबंध में इस तरह का नोटिस दिया गया है, तो इसके पश्चात् किसी भी समय सभी कॉल्स या किश्तों के भुगतान से पहले, इसके संबंध में ब्याज, खर्चे या बकाया राशि, इस प्रभाव के लिये निदेशकों के प्रस्ताव द्वारा जप्त कर ली जायेगी. इस तरह की जप्ती अधिनियम के प्रावधानों के अधीन होगी, जिसमें सभी घोषित लाभांश एवम/या बोनस या जब्त किये गये अंशों के संबंध में देय कोई अन्य राशियां एवम जप्ती से पहले भुगतान नहीं की गई राशियां.

जप्ती प्रावधानों के लिये आवेदन

37. जप्ती के लिये अनुच्छेदों के प्रावधान इस तरह से भुगतान नहीं की गई राशियों के मामले में लागू होगी जिसके द्वारा अंशों को जारी करने की शर्तें नियत समय पर देय बन जाती हैं, जैसे यदि यह विधिवत बनाई गई या सूचित कॉल के सदाचार देय की गई थी.

सदस्यों की पंजिका में जप्ती की प्रविष्टि

38. जब किसी अंश को जप्त किया जाता है, जप्ती की प्रविष्टि इसकी दिनांक सहित सदस्यों की पंजिका में की जाती है.

जप्त किये गये अंश कंपनी की संपत्ति बन जाती हैं एवम इनको बेचना इत्यादि हो सकता है

39. इस तरह से जप्त किया गया कोई अंश कंपनी की संपत्ति समझा जायेगा एवम उसे बेचना, पुनःआवंटित या निपटाया जा सकता है, या तो इसके मूल धारक को या किसी अन्य व्यक्ति को इस तरह की शर्तों पर एवम इस तरह की दशा पर, जैसा भी निदेशक उचित समझेंगे.

जप्ती रद्द करने की शक्ति

40. इस तरह से जप्त किये गये किसी अंश के पहले किसी भी समय निदेशक इस तरह की दशाओं पर, जैसा वे उचित समझ सकते हैं, इसकी जप्ती को रद्द करेंगे, पुनः आवंटन करेंगे या अन्यथा निपटारा करेंगे.

जप्ती के समय देय ब्याज के साथ राशि का भुगतान करने के लिये अंशधारक तब भी उत्तरदायी

41. (1) कोई सदस्य जिसके अंश जप्त किये गये हैं, जप्त अंशों के संबंध में सदस्य को रोका जाना है, किन्तु जप्ती के बावजूद भी, वह भुगतान के लिये उत्तरदायी होगा एवम भुगतान तक जप्ती के समय से उस पर ब्याज के साथ जप्ती के समय पर इस तरह के अंशों के संबंध में या उस पर देय कंपनी की सभी कॉल्स, किश्तों, ब्याज, खर्चों एवम अन्य राशियों का तत्काल भुगतान करेगा, इस तरह की दर पर जैसा निदेशकों द्वारा निर्धारित किया जा सकता है एवम निदेशक पूर्ण भुगतान या इसके किसी भाग का भुगतान करने के लिये निदेशक बाध्य कर

सकते हैं, यदि वे इसे उचित समझते हैं किन्तु ऐसा करने के लिये किसी अहसान के अंतर्गत नहीं।

- (2) इस तरह के सदस्य का दायित्व रोक दिया जायेगा यदि एवम जब अंशों के संबंध में इस तरह की सभी राशियों का पूर्ण भुगतान कंपनी द्वारा प्राप्त किया जायेगा।

अंश(ओं) का समर्पण

42. निदेशक इस तरह की शर्तों पर समर्पण के इच्छुक किसी सदस्य से या के लिये किसी अंश(ओं) का समर्पण अधिनियम के प्रावधानों के अधीन स्वीकार कर सकता है।

अंशों पर कंपनी का धारणाधिकार

43. कंपनी अपने पूर्ण प्रदत्त अंशों पर धारणाधिकार नहीं रखेगी। अंशतः प्रदत्त अंशों के मामले में, कंपनी को इस तरह के अंशों के संबंध में सिर्फ नियत समय पर देय या सभी राशियों को कॉल करने के लिये प्रथम एवम सर्वश्रेष्ठ धारणाधिकार होगा। इस तरह के किसी धारणाधिकार को अधिनियम की धारा 205 के अधीन इस तरह के अंशों के संबंध में समय-समय पर घोषित लाभांशों के लिये विस्तारित किया जायेगा।

विक्रय द्वारा धारणाधिकार लागू करना

44. इस तरह के धारणाधिकार को लागू करने के उद्देश्य के लिये, इस तरह की दशा में इसके अधीन अंशों का विक्रय कर सकती है, किन्तु कोई भी विक्रय नहीं किया जायेगा, जब तक इस संबंध में राशि उस संबंध में देय नहीं होती है जो धारणाधिकार वर्तमान में विद्यमान है या जब तक चौदह दिनों की समाप्ति के पश्चात राशि के इस तरह के भाग के भुगतान का कथन एवम मांग करते हुए लिखित में नोटिस द्वारा, जिसके संबंध में विद्यमान धारणाधिकार वर्तमान में देय है, इसके लिये सदस्य या हकदार व्यक्ति को उसकी मृत्यु या दिवालियापन के कारण से दिया गया है।

विक्रय की आय का आवेदन

45. इस तरह की लागतों के भुगतान के पश्चात इस तरह के किसी विक्रय की शुद्ध आय उस ऋण या दायित्व को पूरा करने में या उसकी ओर लागू होगी जिसके संबंध में धारणाधिकार विद्यमान होता है, जहां तक यह वर्तमान में देय एवम बाकी है, यदि कोई, सदस्य या व्यक्ति को अदा किया जाता है, यदि कोई हो, इस तरह से बेचे गये अंशों के हस्तांतरण का हकदार होता है।

जप्ती का प्रमाणपत्र

46. कंपनी के किसी निदेशक, प्रबंधक या सचिव के हस्ताक्षर के तहत लिखित में प्रमाणपत्र जिसके संबंध में कॉल की गई थी एवम जिस अंश की जप्ती निदेशकों के प्रस्ताव द्वारा की गई थी उस बारे में इस तरह के अंशों के हकदार सभी व्यक्तियों के विरुद्ध इसमें तथ्य के निर्णायक साक्ष्य होंगे।

क्रेता एवम जप्त अंशों का टाइटल

47. कंपनी अंश के लिये इसके किसी विक्रय, पुनः आवंटन या इसकी अन्य निपटान पर प्रतिफल प्राप्त कर सकती है, यदि कोई हो, एवम व्यक्ति जिसको इस तरह के अंश बेचे गये हो, पुनः आवंटित या निपटान किये जा सकते हैं, अंश के धारक के तौर पर पंजीकृत हो सकते हैं एवम इस तरह का व्यक्ति प्रतिफल के आवेदन को देखने के लिये बाध्य नहीं होगा, यदि कोई हो, ना ही अंश की जप्ती, विक्रय, पुनः आवंटन या निपटान के संदर्भ में कार्यवाहियों में किसी अनियमितता या अशक्तता द्वारा अंश के लिये उसका टाइटल प्रभावित होगा एवम विक्रय द्वारा व्यथित किसी व्यक्ति की प्रतिकार सिर्फ हानि होगा एवम अनन्य रूप से सिर्फ कंपनी के विरुद्ध होगा।

आंशिक भुगतान जप्ती में बाधा नहीं

48. किन्हीं अंशों के संबंध में कॉल्स या बकाया अन्य राशियों के लिये कंपनी के पक्ष में ना तो निर्णय ना ही डिक्री ना ही कोई आंशिक भुगतान या इसके अंतर्गत ऋण का चुकाव ना ही किसी राशि के भाग का कंपनी द्वारा प्राप्ति जो किन्हीं अंशों के संबंध में किसी सदस्य से समय-समय पर बकाया होगी या तो मूल या ब्याज के द्वारा ना ही किसी राशि के भुगतान के संबंध में कंपनी द्वारा पारित कोई अनुग्रह इसमें प्रदान किये गये तौर पर इस तरह के अंशों की जप्ती को रोकेगा।

अंशों को प्राप्त या धारण करने के लिये पात्रता

- 48ए. (1) इन अनुच्छेदों में कुछ भी निहित होने के बावजूद भी, कोई भी व्यक्ति एक्सचेंज के किन्हीं इक्विटी अंशों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त या धारण नहीं करेगा, जब तक सेबी द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार वह उचित एवम उपयुक्त व्यक्ति नहीं होता है.
- (2) कोई भी व्यक्ति जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, व्यक्तिगत रूप से या व्यक्तियों के साथ एक्सचेंज के इक्विटी अंशों को अनुकूल, प्राप्त करने का कार्य कर रहा है, इस तरह कि एक्सचेंज में उसकी अंशधारिता एक्सचेंज की प्रदत्त इक्विटी अंश पूंजी के 2 प्रतिशत से ज्यादा होती है, तो उसे प्राप्त करने के 15 दिनों के अंदर सेबी का अनुमोदन लेना होगा.
- (3) उपरोक्त (एक्सचेंज में अंशधारिता) उप-अनुच्छेद (2) के अंतर्गत प्रदत्त इक्विटी अंश पूंजी के पांच प्रतिशत से ज्यादा प्राप्ति या धारण के लिये पात्र कोई व्यक्ति, सिर्फ तभी एक्सचेंज की प्रदत्त अंश पूंजी के पांच प्रतिशत से ज्यादा प्राप्त या धारण कर सकता है, यदि उसने सेबी का पूर्व अनुमोदन प्राप्त कर लिया है.
- (4) हटाया गया.
- (5) यदि उपरोक्त उप-अनुच्छेद (2) के अंतर्गत अनुमोदन किसी व्यक्ति को सेबी द्वारा पारित नहीं किया जाता है, तो इस तरह का व्यक्ति अपनी अतिरिक्त अंशधारिता को तत्काल विनिहित करेगा.
- (6) एक्सचेंज में प्रदत्त इक्विटी अंश पूंजी के दो प्रतिशत से ज्यादा धारण करने वाला कोई व्यक्ति प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पंद्रह दिनों के अंदर एक्सचेंज में घोषणापत्र प्रस्तुत करेगा कि उसने सेबी द्वारा निर्धारित उपयुक्त एवम उचित मापदण्डों का पालन किया है.
- (7) किसी व्यक्ति को सेबी द्वारा “उपयुक्त एवम उचित व्यक्ति” न होने या इस तरह से घोषित होने से रोकने के प्रसंग में, इस तरह का व्यक्ति एक्सचेंज में अपनी अंशधारिता को तत्काल विनिहित करेगा. आगे, अंशों का लंबित अनावरण, एक्सचेंज में इस तरह के व्यक्ति का मतदान अधिकार रोक दिया जायेगा एवम इस तरह की धारिता के बदल में कोई कॉर्पोरेट लाभ एक्सचेंज द्वारा निलंबन में/रोक कर रखे जायेंगे. एक्सचेंज आवश्यक कदम उठायेगा, जैसा उचित समझा जा सकता है, ताकि यह सुनिश्चित हो जाए कि इस तरह के व्यक्ति की अंशधारिता तत्काल विनिहित हो गई है.

इन अनुच्छेदों के उद्देश्यों के लिये, एक व्यक्ति सेबी के निर्देशों के अनुसार, समय-समय पर संशोधित अनुसार, उचित एवम उपयुक्त व्यक्ति समझा जायेगा, एवम जो वर्तमान में, निम्न प्रकार से है:—

- (ए) इस तरह के व्यक्ति की सामान्य प्रतिष्ठा एवम निष्पक्षता एवम सत्यनिष्ठा का अभिलेख है, सम्मिलित किन्तु सीमित नहीं—
- i) वित्तीय सत्यनिष्ठा,
 - ii) अच्छी प्रतिष्ठा एवम चरित्र, एवम
 - iii) ईमानदारी.
- (बी) इस तरह का व्यक्ति निम्नलिखित अयोग्यताओं में से किसी से ग्रस्त नहीं है—
- i) व्यक्ति या उसका कोई पूर्णकालिक निदेशक या प्रबंध भागीदार नैतिक पतन या वित्तीय अपराध या प्रतिभूति कानून के विरुद्ध किसी अपराध में संलिप्त होते हुए किसी अपराध के लिये न्यायालय द्वारा अपराधी घोषित किया गया है,
 - ii) व्यक्ति के विरुद्ध समापन के लिये आदेश पारित किया गया है,
 - iii) व्यक्ति या उसके किसी पूर्णकालिक निदेशक या प्रबंध भागीदार को दिवालिया घोषित किया गया है एवम मुक्त नहीं किया गया है,
 - iv) सेबी या किसी अन्य नियामक प्राधिकरण द्वारा व्यक्ति या उसके किसी पूर्णकालिक निदेशक या प्रबंध भागीदार को वस्तु व्युत्पन्नों या प्रतिभूतियों में व्यवहार करने से या वस्तु व्युत्पन्न या प्रतिभूतियों में प्रवेश करने से रोकने, प्रतिबंधित या वंचित करते हुए आदेश पारित किया गया है एवम आदेश में निर्दिष्ट अवधि की समाप्ति की तिथि से तीन वर्षों की अवधि पूरी नहीं हुई है,

- v) व्यक्ति या उसके किसी पूर्णकालिक निदेशक या प्रबंध भागीदार के विरुद्ध कोई आदेश, जिसका प्रतिभूति बाजार पर व्यवहार है, सेबी या किसी अन्य नियामक प्राधिकरण द्वारा पारित किया गया है एवम आदेश की तिथि से तीन वर्षों की अवधि पूरी नहीं हुई है,
- vi) सक्षम क्षेत्राधिकार के न्यायालय द्वारा व्यक्ति को अस्वस्थ मस्तिष्क का होना पाया गया है एवम निष्कर्ष प्रभावशील है, एवम
- vii) व्यक्ति आर्थिक रूप से मजबूत नहीं है.

यह प्रश्न उत्पन्न होने पर कि क्या व्यक्ति उचित एवम उपयुक्त व्यक्ति है, इस संबंध में सेबी का निर्णय अंतिम होगा.

अंशधारिता

- 48बी. (1) एक्सचेंज की अंश पूंजी का कम से कम 51 प्रतिशत जनता द्वारा धारण किया जायेगा.
- (2) भारत का निवासी व्यक्ति, किसी भी समय, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, व्यक्तिगत रूप से या व्यक्तियों के साथ एकत्रित रूप से कार्य करते हुए, मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में प्रदत्त इक्विटी अंश पूंजी का पांच प्रतिशत से ज्यादा प्राप्त या धारण नहीं करेगा:
- बशर्ते कि –
- i) स्टॉक एक्सचेंज,
 - ii) निक्षेपागार,
 - iii) बैंकिंग कंपनी,
 - iv) बीमा कंपनी, एवम
 - v) सार्वजनिक वित्तीय संस्था,
- या तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, या तो व्यक्तिगत रूप से या व्यक्तियों के साथ एकत्रित रूप से कार्य करते हुए, एक्सचेंज की प्रदत्त इक्विटी अंश पूंजी का 15 प्रतिशत तक प्राप्त या धारण करेगा.
- (3) भारत से बाहर निवास करने वाला व्यक्ति, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, या तो व्यक्तिगत रूप से या व्यक्तियों के साथ एकत्रित रूप से कार्य करते हुए, प्रदत्त इक्विटी अंश पूंजी के पांच प्रतिशत से ज्यादा प्राप्त या धारण नहीं करेगा:
- (4) समय-समय पर केन्द्र सरकार द्वारा अन्यथा निर्धारित सीमाओं के अधीन, भारत से बाहर निवास करने वाले सभी व्यक्ति की एक्सचेंज की प्रदत्त इक्विटी अंश पूंजी में संयुक्त धारिता, किसी भी समय, अपनी कुल प्रदत्त इक्विटी अंश पूंजी के 49 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी.
- बशर्ते कि एक्सचेंज के प्राप्त अंश अन्यथा द्वितीयक बाजार के माध्यम से विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक नहीं होंगे.
- स्पष्टीकरण: द्वितीयक बाजार के माध्यम से एक्सचेंज में अंशों की प्राप्ति का निम्न प्रकार से अर्थ लगाया जायेगा:—
- 1) यदि एक्सचेंज सूचीबद्ध नहीं है, तो विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज के बाहर लेनदेनों के माध्यम से अपने अंशों को प्राप्त कर सकते हैं, बशर्ते यह अंशों का प्रारंभिक आवंटन नहीं होता है,
 - 2) यदि एक्सचेंज सूचीबद्ध है, तो विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक द्वारा लेनदेन उस मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से किया जायेगा जहां इस तरह के अंश सूचीबद्ध होते हैं.
- (5) समाशोधन निगम एक्सचेंज में किसी भी प्रकृति के अधिकार, अंश या हित, जो भी प्रकृति का, धारण नहीं करेगा.
- (6) एक्सचेंज निगरानी करेगा एवम सेबी द्वारा इस संबंध में जारी की गई आवश्यकताओं एवम दिशानिर्देशों के पालन को सुनिश्चित करेगा.

- (7) 1) एक्सचेंज में किसी व्यक्ति की अंशधारिता या मतदान अधिकार इन अनुच्छेदों में निर्दिष्ट सीमाओं से अधिक नहीं होंगे.
- 2) आगे, इन अनुच्छेदों में निर्दिष्ट तौर पर अंशधारिता में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से स्वामित्व या नियंत्रण में कोई दस्तावेज सम्मिलित होगा, जो भविष्य की किसी तिथी पर इक्विटी के लिये पात्रता या इक्विटी के ऊपर अधिकार प्रदान करता है.
- बशर्ते कि इन अनुच्छेदों में निर्दिष्ट अंशधारिता की सीमा से अधिक इस तरह के दस्तावेज से उत्पन्न कोई इक्विटी या इक्विटी के ऊपर अधिकार, 6 मई 2014 से प्रारंभ होने वाली पांच वर्षों की अवधि के अंदर निर्दिष्ट सीमा तक कम किये जायेंगे.
- (8) एस.सी.आर.ए., नियमों एवम एस.ई.सी.सी. विनियमों के प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, एक्सचेंज प्रत्येक तिमाही की समाप्ति से पंद्रह दिनों के अंदर तिमाही आधार पर, सेबी द्वारा निर्दिष्ट प्रपत्र में, अंशधारिता स्वरूप का सेबी के लिये खुलासा करेगा, जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित है:-
- ए) दस विशालतम अंशधारकों के नाम, उनके धारित अंशों की संख्या एवम प्रतिशत सहित,
- बी) एस.ई.सी.सी. विनियमों के विनियम 17 एवम 18 के अंतर्गत आनेवाले अंशधारकों के नाम, जिन्होंने इस तिमाही में अंश प्राप्त किये थे.
- एक्सचेंज सभी समय निगरानी करेगा एवम पूर्वगामी आवश्यकताओं को सुनिश्चित करेगा.
- (9) प्रभाव में अन्य कानूनों के अंतर्गत आवश्यकताओं के अतिरिक्त, एक्सचेंज कम से कम 10 वर्षों की अवधि के लिये अपनी प्रतिभूतियों को जारी एवम हस्तांतरित करने से संबंधित सभी लेखों, पंजिकाओं, अन्य दस्तावेजों एवम अभिलेखों को बनाये रखेगा एवम रक्षित करेगा.

अंशों का हस्तांतरण एवम संचरण

हस्तांतरण के दस्तावेज प्रस्तुत किए बिना हस्तांतरण पंजीकृत नहीं होना चाहिए

49. कंपनी के अंशों या ऋणपत्रों को कंपनी पंजीकृत नहीं करेगी, जब तक अधिनियम की धारा 108 के प्रावधानों के अनुसरण में नहीं होंगे, हस्तांतरण का उचित दस्तावेज हस्तांतरणकर्ता या हस्तांतरिती की ओर से या द्वारा विधिवत मुहरबंद या निष्पादित एवम हस्तांतरिती का नाम, पता एवम व्यवसाय निर्दिष्ट करते हुए, यदि कोई हो, अंशों एवम ऋणपत्रों से संबंधित प्रमाणपत्रों सहित कंपनी को सुपुर्द किये गये हैं, या इस तरह के प्रमाणपत्र अंशों एवम ऋणपत्रों के आवंटन पत्र सहित विद्यमान नहीं है, बशर्ते कि जहां हस्तांतरिती द्वारा कंपनी लिखित में आवेदन पर एवम हस्तांतरण के दस्तावेज के लिये आवश्यक मुहर सहित, यह निदेशकों के बोर्ड की संतुष्टि के लिये साबित होता है कि हस्तांतरणकर्ता की ओर से हस्ताक्षरित हस्तांतरण का दस्तावेज एवम हस्तांतरिती द्वारा या उसकी ओर से खो दिया गया है, कंपनी इस तरह की शर्तों पर क्षतिपूर्ति के लिये हस्तांतरण पंजीकृत कर सकती है, जैसा बोर्ड उचित समझ सकता है, बशर्ते आगे इस अनुच्छेद में कुछ भी अंशधारक या ऋणपत्र धारक के तौर पर किसी व्यक्ति को कंपनी की किसी शक्ति से प्रतिकूल प्रभाव से नहीं होगा, जिसको कानून के संचालनों द्वारा कंपनी के किसी अंश या ऋणपत्र के अधिकार संचारित किये गये हैं.

हस्तांतरण का प्रपत्र

50. किसी अंश के हस्तांतरण का दस्तावेज अधिनियम की धारा 108 के अनुसरण में एवम निर्धारित प्रपत्र में होगा.

कानूनी प्रतिनिधि द्वारा हस्तांतरण

51. कानूनी प्रतिनिधि द्वारा मृतक सदस्य के अंशों का हस्तांतरण या कंपनी में अन्य हित, हालांकि कानूनी प्रतिनिधि स्वयं सदस्य नहीं होता है, वैध होने के लिये, जैसा कि हस्तांतरण के दस्तावेज के निष्पादन के समय वह एक सदस्य था.

हस्तांतरण के पंजीकरण के लिये आवेदन

52. (1) किसी अंश या अंशों के हस्तांतरण के पंजीकरण के लिये आवेदन या तो हस्तांतरणकर्ता द्वारा या हस्तांतरिती द्वारा किया जा सकता है.
- (2) जहां हस्तांतरणकर्ता द्वारा आवेदन किया जाता है एवम अंशतः प्रदत्त अंशों से संबंधित होता है, हस्तांतरण पंजीकृत नहीं होगा, जब तक कंपनी हस्तांतरिती को आवेदन का नोटिस नहीं

देती है एवम नोटिस की प्राप्ति के दो सप्ताहों के अंदर हस्तांतरिती द्वारा हस्तांतरण के लिये आपत्ति नहीं दिया जाता है.

- (3) उप-अनुच्छेद (2) के उद्देश्य के लिये, हस्तांतरिती को नोटिस यह नहीं समझा जायेगा कि इसे विधिवत दिया गया है, जब तक इसे स्थानांतरण के दस्तावेज में दिये गये पते पर हस्तांतरिती को पूर्वदत्त पंजीकृत डाक द्वारा प्रेषित नहीं किया जाता है, एवम यदि इस तरह से प्रेषित किया जाता है, तो यह समझा जायेगा कि उसे उस समय विधिवत सुपुर्द किया गया है जब यह सामान्य डाक में सुपुर्द किया गया होगा.

हस्तांतरण को अस्वीकार करने के लिये कंपनी की शक्ति

53. इस अनुच्छेद में किन्हीं अंशों के हस्तांतरण को पंजीकृत करने से अस्वीकार करने के लिये कंपनी की शक्तियां प्रतिकूल प्रभाव के कुछ भी नहीं होगी.

हस्तांतरणकर्ता उत्तरदायी होता है जब तक पंजिका में हस्तांतरिती का नाम प्रविष्ट नहीं होता है

54. हस्तांतरणकर्ता को किन्हीं अंशों का धारक बना रहने के लिये समझा जायेगा, जब तक हस्तांतरिती का नाम इसके संबंध में सदस्यों की पंजिका में प्रविष्ट नहीं किया जाता है.

हस्तांतरण का पंजीकरण रखा जाना है

55. कंपनी “हस्तांतरण पंजिका” के तौर पर संदर्भित पुस्तिका रखेगी एवम इसमें किसी अंश के प्रत्येक हस्तांतरण या संचरण का विवरण निष्पक्ष एवम स्पष्ट रूप से प्रविष्ट किया जायेगा.

हस्तांतरण पर पंजीकरण का संशोधन

56. अधिनियम की धारा 111ए के प्रावधानों के अधीन, कंपनी के अंशों या ऋणपत्रों या इनमें कोई हित स्वतंत्र रूप से हस्तांतरणीय होगा, बशर्ते कि यदि कंपनी बिना किसी पर्याप्त कारणों के उस दिनांक से दो महीनों के अंदर अंशों के हस्तांतरण के पंजीकरण को अस्वीकार करती है जिस पर हस्तांतरण का दस्तावेज या हस्तांतरण की सूचना, जैसा भी मामला हो सकता है, कंपनी को वितरीत की जाती है, उपरोक्त धारा के अंतर्गत प्रदान की गई दशा में हस्तांतरिती अधिकरण में अपील कर सकता है.

अवयस्क इत्यादि को हस्तांतरण नहीं

57. उस व्यक्ति को कोई भी हस्तांतरण नहीं किया जायेगा जो अवयस्क या अस्वस्थ मस्तिष्क का है. यद्यपि, अधिनियम के प्रावधानों के अधीन, निदेशक अपने एकमात्र विवेक पर, इस तरह की शर्तों पर अवयस्क को कंपनी का सदस्य बनने के लिये अनुमोदित कर सकते हैं, जैसा निदेशक नियत कर सकते हैं.

हस्तांतरण दस्तावेजों की अभिरक्षा

58. पंजीकरण के पश्चात हस्तांतरण का दस्तावेज कंपनी द्वारा रखा जायेगा एवम इसे अपनी अभिरक्षा में बनाये रखा जायेगा. हस्तांतरण के सभी दस्तावेज, जिसे निदेशक पंजीकरण के लिये अस्वीकार कर सकते हैं, मांग पर इसको जमा कराने वाले व्यक्ति को वापिस लौटाया जायेगा. निदेशक इस तरह की अवधि के पश्चात निदेशक कंपनी में रखे हुए सभी हस्तांतरण विलेखों को नष्ट कर सकते हैं, जैसा भी वे निर्धारित कर सकते हैं.

हस्तांतरण लेखों का समापन

59. निदेशक को प्रत्येक वर्ष में अधिकतम 45 दिनों के समय की इस तरह की अवधि या अवधियों किन्तु लगातार 30 दिनों से अधिक नहीं, जैसा वे उचित समझ सकते हैं, के लिये कंपनी के सदस्यों या ऋणपत्र धारकों की पंजिका को बंद करने के लिये अधिनियम की धारा 154 के अंतर्गत आवश्यक तौर पर विज्ञापन द्वारा अधिकतम सात दिनों का पूर्व नोटिस देन की शक्ति होगी.

मृतक धारक के अंशों का टाईटल

60. मृतक सदस्य के अंशों के संबंध में उत्तराधिकार प्रमाणपत्र या अन्य कानूनी प्रतिनिधित्व के मृतक सदस्य या धारक के निष्पादक या प्रशासक जहां वह एकमात्र या केवल जीवित धारक था, केवल एक व्यक्ति होगा जिसे कंपनी इस तरह के सदस्यों के नाम पर पंजीकृत अंशों के किसी टाईटल के होने के तौर पर मान्यता दे सकती है एवम कंपनी इस तरह के निष्पादकों या प्रशासकों को मान्यता देने के लिये बाध्य नहीं होगी जब तक सबसे पहले मृतलेख का प्रमाण या प्रबंधाधिकार पत्र प्राप्त नहीं कर लेते हैं या इस तरह के धारक उत्तराधिकार प्रमाणपत्र या अन्य कानूनी प्रस्तुतिकरण के धारक होते हैं, जैसा भारत में सक्षम क्षेत्राधिकार के न्यायालय द्वारा मामला हो सकता है, बशर्ते कि, किसी भी मामले में जहां निदेशक अपने पूर्ण विवेक से उचित समझता है, तो निदेशक इस तरह की

शर्तों पर मृतलेख के प्रमाणपत्र या प्रबंधाधिकार या उत्तराधिकार प्रमाणपत्र को प्रस्तुत करने सहित वितरित कर सकते हैं, जैसा निदेशकों के तौर पर क्षतिपूर्ति या अन्यथा अपने पूर्ण विवेक पर आवश्यक समझते हैं एवम किसी व्यक्ति का नाम पंजीकृत कर सकते हैं जो सदस्य के तौर पर मृतक सदस्य के नाम पर विद्यमान अंश(ओं) का पूर्ण हकदार होने के लिये दावा करता है।

हस्तांतरण के अतिरिक्त अंशों के हकदार व्यक्तियों का पंजीकरण

61. इन अनुच्छेदों के अनुसरण में हस्तांतरण के अलावा किसी सदस्य की किसी कानूनी अर्थों द्वारा मृत्यु, पागलपन, दिवालियापन या दिवालिया के परिणामस्वरूप किन्हीं अंशों का हकदार बन रहा कोई व्यक्ति, निदेशकों की सहमति के साथ (जो वे किसी दायित्व के अंतर्गत देने के लिये नहीं होंगे) इस तरह के साक्ष्य को प्रस्तुत करने पर हो सकता है, कि चरित्र को स्वीकार करते हैं जो वह इस अनुच्छेद के अंतर्गत करने के लिये प्रस्तावित करता है, या निदेशक के तौरपर अपना टाईटल की आवश्यकता होगी या तो इस तरह के अंशों के संबंध में सदस्य के तौर पर पंजीकृत होने के लिए या इस अनुच्छेदों में निहित हस्तांतरण के तौर पर विनियमों के अधीन इस तरह के अंशों का कुछ अन्य व्यक्तियों को हस्तांतरण हो सकता है। यह अनुच्छेद “संचरण खण्ड” के तौर पर इन अनुच्छेदों में संदर्भित है।

नामांकित व्यक्ति को पंजीकृत करने से इन्कार

62. किन्हीं अंशों के संचरण द्वारा हकदार व्यक्ति या उसके नामांकित व्यक्ति को पंजीकृत करने से इन्कार करने के लिये निदेशकों को समान अधिकार होंगे जैसा यदि पंजीकरण के लिये साधारण हस्तांतरण में हस्तांतरिती का नाम था।

बोर्ड के लिये संचरण का साक्ष्य आवश्यक हो सकता है

63. अंश का प्रत्येक संचरण इस तरह की दशा में सत्यापित होगा जैसा निदेशकों को आवश्यक हो सकता है एवम कंपनी किसी भी संचरण को पंजीकृत करने से इन्कार कर सकती है जब तक यह सत्यापित होता है या इस तरह के पंजीकरण के संबंध में क्षतिपूर्ति दी जाती है या नहीं दी जाती है जो निदेशक अपने विवेक पर पर्याप्त समझ सकते हैं, बशर्तें फिर भी यह कि वहां कंपनी या निदेशकों पर किसी क्षतिपूर्ति को स्वीकार करने के लिये कोई दायित्व नहीं होगा।

हस्तांतरण या संचरण पर शुल्क

64. कंपनी में किन्हीं अंशों के हस्तांतरण या संचरण के संबंध में कंपनी को कोई शुल्क देय नहीं होता है।

अंशों का नामांकन

65. (1) कंपनी किसी व्यक्ति निर्धारित रीति से किसी समय कंपनी के अंशों के प्रत्येक धारक या ऋणपत्रों के धारक को नामांकित कर सकती है जिसमें अपनी मृत्यु के प्रसंग में कंपनी में अपने अंश या ऋणपत्र निहित होंगे।
- (2) जहां कंपनी में अंशों या ऋणपत्रों को एक से ज्यादा व्यक्तियों द्वारा संयुक्त रूप से धारण किया जाता है, संयुक्त धारक निर्धारित रीति से उस व्यक्तियों को साथ में नामांकित कर सकते हैं जिसको सभी संयुक्त धारकों की मृत्यु के प्रसंग में कंपनी के अंशों या ऋणपत्रों में सभी अधिकार निहित होंगे।
- (3) तत्समय प्रभाव में या किसी प्रकृति के लिये किसी अन्य कानून में कंपनी के इस तरह के अंशों या ऋणपत्रों में कुछ भी निहित होने के बावजूद भी, चाहे वसीयती या अन्यथा, जहां अभिप्राय प्रदान की निर्धारित रीति में नामांकन किया गया है या कंपनी के अंशों या ऋणपत्रों पर किसी व्यक्ति का अधिकार निहित है, कंपनी के अंशधारकों या ऋणपत्र धारकों की मृत्यु पर, जैसा भी मामला हो सकता है, संयुक्त धारकों की मृत्यु पर नामांकित कंपनी के अंशों या ऋणपत्रों में सभी अधिकारों का हकदार बनता है, जैसा भी मामला हो सकता है, कंपनी के इस तरह के अंशों या ऋणपत्रों के संबंध में सभी संयुक्त धारक, अन्य सभी व्यक्तियों के निषेध के लिये, जब तक निर्धारित रीति में नामांकन परिवर्तित या रद्द किया जाता है।
- (4) जहां पर नामांकित व्यक्ति अवयस्क होता है, अवयस्कता के दरम्यान अपनी मृत्यु के प्रसंग में कंपनी के अंशों या ऋणपत्रों का हकदार बनने के लिये किसी व्यक्ति को, निर्धारित रीति से, नियुक्त करने के लिये नामांकन बनाने के लिये अंशों या ऋणपत्रों के धारकों के लिये यह विधिसम्मत होगा।

अंशों का संचरण

66. (1) कोई व्यक्ति जो अनुच्छेद 65 के प्रावधानों के प्रभाव द्वारा इस तरह के साक्ष्यों को प्रस्तुत करने पर नामांकित व्यक्ति बनता है, जैसा बोर्ड द्वारा आवश्यक या इसके पश्चात प्रदान के अधीन हो सकता है, चुनाव करना, या तो (ए) अंश या ऋणपत्र के धारक के तौर पर स्वयं के पंजीकृत होने के लिये, जैसा भी मामला हो सकता है, या (बी) अंश या ऋणपत्र का इस तरह से हस्तांतरण करने के लिये, जैसा भी मामला हो सकता है, मृतक अंशधारक या ऋणपत्र धारक के तौर पर, जैसा भी मामला हो सकता है, किया जा सकता है.
- (2) यदि व्यक्ति नामांकित व्यक्ति बनकर, इस तरह हकदार बन रहा है, अंश या ऋणपत्र के धारक के तौर पर पंजीकृत होने के लिये स्वयं चुना जाता है, जैसा भी मामला हो सकता है, तो वह स्वयं द्वारा हस्ताक्षरित लिखित नोटिस कंपनी को यह कथन करते हुए सुपुर्द करेगा या भेजेगा कि वह इस तरह से चुना गया है एवम इस तरह का नोटिस मृतक अंशधारक या ऋणपत्र धारक के मृत्यु प्रमाणपत्र सहित होगा, जैसा भी मामला हो सकता है.
- (3) अंशों या ऋणपत्रों के हस्तांतरण एवम हस्तांतरणों के पंजीकरण के लिये अधिकार के संबंध में इस अधिनियम की सभी सीमाएं, प्रतिबंध एवम प्रावधान, उपरोक्त कथित तौर पर इस तरह के किसी नोटिस या हस्तांतरण के लिये लागू होंगे, जैसा यदि सदस्य की मृत्यु नहीं हुई थी एवम नोटिस या हस्तांतरण उस अंशधारक या ऋणपत्र धारक द्वारा हस्ताक्षरित हस्तांतरण था, जैसा भी मामला हो सकता है.
- (4) व्यक्ति जो नामांकित व्यक्ति बन रहा है, धारक की मृत्यु के कारण अंश या ऋणपत्र का हकदार बन रहा है, समान लाभांशों एवम अन्य फायदों का हकदार बनंगा, जिसके लिये वह हकदार हुआ होगा, यदि वह अंश या ऋणपत्र का पंजीकृत धारक था, इसको छोड़कर कि कंपनी की सभाओं के संबंध में सदस्यता द्वारा किसी अधिकार के कार्यान्वयन के संबंध में वह अपने अंश या ऋणपत्र के संबंध में सदस्य के तौर पंजीकृत होने से पहले हकदार नहीं होग, बशर्ते कि बोर्ड को किसी भी समय इस तरह के किसी व्यक्ति को चुनने के लिये नोटिस देने की आवश्यकता हो सकती है, या तो उसे स्वयं पंजीकृत होकर या अंश या ऋणपत्र हस्तांतरित करके, एवम यदि नोटिस का पालन 90 दिनों के अंदर नहीं किया जाता है, तो इसके पश्चात बोर्ड अंश या ऋणपत्र के संबंध में देय सभी लाभांशों, बोनस या अन्य राशियों का भुगतान रोक सकता है, जब तक नोटिस की आवश्यकताओं का पालन नहीं किया गया है.

हस्तांतरण के पंजीकरण को प्रतिबंधित करते हुए कंपनी नोटिस की उपेक्षा करने के लिये दायी नहीं होती है

67. कंपनी कोई भी दायित्व या जिम्मेदारी अपने ऊपर नहीं लेगी, जो भी, अंशों के प्रत्यक्ष कानूनी स्वामी (सदस्यों की पंजिका में दर्शित या दिखने के अनुसार) द्वारा बनाये गये अंशों या तात्पर्यित किये जाने के लिये अंशों के किसी हस्तांतरण के लिये दिये जा रहे प्रभाव या उनको पंजीकृत किये जाने के परिणामस्वरूप, इन अंशों में या किसी न्यायोचित अधिकार, टाईटल या हित का दावा करते हुए या व्यक्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव डालने के लिये, इसके बावजूद भी कि कंपनी ने इस तरह के हस्तांतरण के पंजीकरण को प्रतिबंधित करते हुए नोटिस या इस तरह के न्यायोचित अधिकार, टाईटल या हित का नोटिस कंपनी द्वारा दिया गया था, एवम इस तरह के नोटिस या इसक संदर्भ को कंपनी की किसी पुस्तिका में प्रविष्ट किया जा सकता है एवम कंपनी को किसी नोटिस को प्रभाव देने या ध्यान देने की आवश्यकता नहीं होगी या कंपनी बाध्य नहीं होगी, जो कि उनको दिया जा सकता है, किसी न्यायोचित टाईटल या हित या दायित्व के अंतर्गत, जो भी, ऐसा करने में लापरवाही या अस्वीकार करने के लिये, हालांकि, इसे कंपनी की कुछ पुस्तकों में प्रविष्ट या संदर्भित किया गया हो सकता है, किन्तु फिर भी कंपनी को इस तरह के किसी नोटिस के संबंध में एवम इस तरह के किसी नोटिस पर ध्यान देने या इसको प्रभाव देने की स्वतंत्रता होगी, यदि निदेशक ऐसा उचित समझेंगे.

ऋणपत्रों का हस्तांतरण

68. इन अनुच्छेदों के प्रावधान, यथोचित परिवर्तनों सहित, कंपनी के ऋणपत्रों के अधिकार के कानून द्वारा आवंटन एवम हस्तांतरण या संचरण के लिये लागू होंगे.

हस्तांतरण एवम पहले से अधिकृत अधिकारों पर प्रतिबंध

69. सेबी के पत्र सं. सी.डी.एम.आर.डी./डी.ई.ए./ओ.डब्ल्यू./21544/2016 दिनांक 1 अगस्त, 2016 के अनुसरण में हटाया.

प्रतिभूतियों का अप्रत्यक्षीकरण

प्रतिभूतियों का अप्रत्यक्षीकरण

70. (1) इन अनुच्छेदों में कुछ भी निहित होने के बावजूद भी, कंपनी निक्षेपागार अधिनियम, 1996 के अनुसरण में अपनी प्रतिभूतियों का अप्रत्यक्षीकरण करने एवम अप्रत्यक्षीकृत रूप में प्रतिभूतियों प्रस्तावित करने के लिये हकदार होगी.

निवेशकों के लिये विकल्प

- (2) कंपनी द्वारा प्रस्तावित प्रतिभूतियों की सदस्यता लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिभूति प्रमाणपत्र प्राप्त करने या निक्षेपागार सहित प्रतिभूतियों को धारण करने का विकल्प होगा. इस तरह का व्यक्ति जो प्रतिभूतियों का लाभार्थी स्वामी होता है, किसी भी समय निक्षेपागार से बाहर निकल सकता है, यदि किसी प्रतिभूति के संबंध में निक्षेपागार अधिनियम द्वारा प्रदान रीति में कानून द्वारा अनुमति प्राप्त है, एवम कंपनी इस ढंग से एवम निर्धारित समय के अंदर, प्रतिभूतियों का आवश्यक प्रमाणपत्र लाभार्थी स्वामी को जारी करेगी.

प्रतिभूतियों का लाभार्थी स्वामी

- (3) यदि व्यक्ति निक्षेपागार सहित अपनी प्रतिभूति को धारण करने के लिये चुनता है, तो कंपनी प्रतिभूति के आवंछन के विवरण के संबंध में इस तरह के निक्षेपागार को सूचित करेगी, एवम सूचनाओं की प्राप्ति पर, निक्षेपागार इसे प्रतिभूति के लाभार्थी के स्वामी के तौर पर आवंटित के नाम को अपने अभिलेख में प्रविष्ट करेगा.

प्रतिस्थापित प्रपत्र में होने के लिये निक्षेपागार में प्रतिभूतियां

- (4) निक्षेपागार द्वारा धारित सभी प्रतिभूतियां निर्धारित की जायेगी एवम प्रतिस्थापित प्रपत्र में होगी. अधिनियम की धारा 153, 153ए, 187बी, 187सी एवम 372ए में कुछ भी निहित लाभार्थी स्वामियों की ओर से धारित प्रतिभूतियों के संबंध में निक्षेपागार के लिये लागू नहीं होगा.

निक्षेपागारों एवम लाभार्थी स्वामियों के अधिकार

- (5) ए) अधिनियम या इन अनुच्छेदों में कुछ भी निहित होने के बावजूद भी, निक्षेपागार द्वारा लाभार्थी स्वामी की ओर से प्रतिभूति के स्वामित्व के हस्तांतरण को प्रभाव में लाने के उद्देश्य के लिये पंजीकृत स्वामी होना समझा जायेगा.
- बी) उपरोक्त (ए) में अन्यथा प्रदान के अतिरिक्त, प्रतिभूतियों के पंजीकृत स्वामी के तौर पर निक्षेपागार को उसके द्वारा धारण की गई प्रतिभूतियों के संबंध में कोई भी मतदान अधिकार या कोई अन्य अधिकार नहीं होगा.
- सी) कंपनी की प्रतिभूतियों को धारण करने वाला प्रत्येक व्यक्ति एवम जिसका नाम निक्षेपागार के अभिलेखों में लाभार्थी स्वामी के तौर पर प्रविष्ट किया गया है, कंपनी का सदस्य होगा. प्रतिभूतियों का लाभार्थी स्वामी सभी अधिकारों एवम लाभों का हकदार होगा एवम अपनी प्रतिभूतियों के संबंध में सभी दायित्वों के अधीन होगा, जो कि निक्षेपागार द्वारा धारण की गई है.

दस्तावेजों की तामील

- (6) इस अधिनियम या इन अनुच्छेदों के विपरीत कुछ भी होने के बावजूद भी, जहां निक्षेपागार द्वारा प्रतिभूतियां धारण की जाती है, लाभार्थी स्वामित्व के अभिलेख फ्लोपी या डिस्क की सुपुर्दगी द्वारा या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के द्वारा कंपनी पर इस तरह के निक्षेपागार द्वारा तामील किया जा सकता है.

प्रतिभूतियों का हस्तांतरण

- (7) अधिनियम की धारा 108 एवम इन अनुच्छेदों में निहित कुछ भी हस्तांतरणकर्ता एवम हस्तांतरिती दोनों द्वारा प्रभावित प्रतिभूतियों के हस्तांतरण के लिये लागू नहीं होगा जो कि निक्षेपागार के अभिलेखों में लाभार्थी स्वामियों के तौर पर प्रविष्ट होते हैं.

निक्षेपागार में व्यवहारित प्रतिभूतियों का आवंटन

- (8) इस अधिनियम या इन अनुच्छेदों में कुछ भी होने के बावजूद भी, जहां प्रतिभूतियां निक्षेपागार द्वारा व्यवहारित की जाती हैं, तो इस तरह की प्रतिभूतियों के आवंटन पर कंपनी तत्काल निक्षेपागार को इसके विवरण के संबंध में सूचित करेगी।

निक्षेपागार में धारित प्रतिभूतियों की विशिष्ट संख्या

- (9) इस अधिनियम एवम इन अनुच्छेदों में कंपनी द्वारा जारी प्रतिभूतियों के लिये विशिष्ट संख्या होने की आवश्यकता के संबंध में निक्षेपागार में धारित प्रतिभूतियों के लिये लागू नहीं होगा।

लाभार्थी स्वामियों की पंजिका एवम सूची

- (10) निक्षेपागार अधिनियम, 1996 के अंतर्गत निक्षेपागार द्वारा रखी गई लाभार्थी स्वामियों की पंजिका एवम सूची को इन अनुच्छेदों के उद्देश्यों के लिये सदस्यों एवम प्रतिभूति धारकों की पंजिका एवम सूची समझा जायेगा।

अंशों का स्टॉक में रूपांतरण

अंशों का स्टॉक में रूपांतरण एवम पुनः रूपांतरण

71. साधारण सभा में कंपनी के प्रस्ताव को पारित करने के साथ, निदेशक किसी प्रदत्त अंश को स्टॉक में रूपांतरित कर सकते हैं एवम किसी मूल्यवर्ग के प्रदत्त अंशों में से किसी स्टॉक को पुनः परिवर्तित कर सकते हैं। जब कोई अंश स्टॉक में परिवर्तित किया गया है, इस स्टॉक के कई धारक अपने संबंधित हितों को इसमें या इस तरह के हित के किसी भाग को उस समान दशा में एवम समान विनियमों के अधीन भविष्य में हस्तांतरित कर सकते हैं, जैसा एवम जिसके अधीन कंपनी की पूंजी के पूर्ण प्रदत्त अंश हस्तांतरित किये जा सकते हैं या इसके पास, जैसी भी परिस्थितियों प्रस्तुत होगी।

अंशधारकों के अधिकार

72. स्टॉक धारकों पर प्रदान होगा, उसके क्रमशः समान अधिकार एवम लाभ, जैसा लाभों में सहभागिता एवम कंपनी की सभा में मतदान के संबंध में एवम अन्य उद्देश्यों के लिये, जैसा कंपनी की पूंजी में समान राशि के अंशों समान श्रेणी द्वारा निहित किया गया होगा, जैसा जिससे अंश इस तरह के स्टॉक में परिवर्तित किये गये हैं, किन्तु इस तरह के कोई भी विशेषाधिकार या लाभ (कंपनी के लाभों में सहभागिता या परिसमापन पर कंपनी की संपत्तियों को छोड़कर) किसी स्टॉक द्वारा निहित होगा, जो नहीं होगा, यदि अंशों में विद्यमान है, इस तरह के विशेषाधिकार या लाभों में निहित है।

पूंजी की वृद्धि, कमी एवम परिवर्तन

पूंजी में बढ़ोतरी

73. कंपनी साधारण सभा में समय-समय पर इस तरह की राशि के नये अंशों के सृजन द्वारा अपने अंशों को बढ़ा सकती है, जैसा यह उचित समझा जाता है एवम नये अंश, इस तरह की शर्तों एवम दशाओं पर सृजित एवम इसमें जोड़े गये इस तरह के अधिकार एवम विशेषाधिकार अधिनियम एवम इन अनुच्छेदों के प्रावधानों के अधीन होंगे, जैसा साधारण सभा में सृजित करने पर ये निदेशित होंगे, एवम यदि इस तरह का कोई भी निदेशन नहीं दिया जाता है, तो निदेशक निर्धारित करेंगे।

पूंजी के आगे के वितरण

74. इन अनुच्छेदों के अनुसरण में अपनी शक्तियों के अंतर्गत निदेशकों द्वारा या साधारण सभा में कंपनी द्वारा जारी या प्रवृत्त नये अंश (उपरोक्त कथित तौर पर पूंजी में बढ़ोतरी के परिणामस्वरूप) अधिनियम एवम इन अनुच्छेदों के प्रावधानों के अधीन हो सकते हैं एवम निम्नलिखित प्रावधानः—

- (1) ए) इस तरह के नये अंश उन व्यक्तियों के लिये प्रस्तावित किये जायेंगे जो प्रस्ताव की दिनांक को अनुपात में कंपनी के इक्विटी अंशों के धारक हैं, जैसा उस दिनांक को उन अंशों पर प्रदत्त पूंजी के लिये प्रस्तुत परिस्थितियों के अनुसार आसपास है,
- बी) उपरोक्त कथित प्रस्ताव प्रस्तावित अंशों की संख्या निर्दिष्ट करते हुए एवम प्रस्ताव की दिनांक से पंद्रह दिनों के समय की सीमा पर बनाया जायेगा, जिसके अंदर, यदि प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया जाता है, तो यह समझा जायेगा कि अस्वीकार कर दिया गया है,
- सी) उपरोक्त कथित प्रस्ताव को व्यक्ति को प्रस्तावित अंशों को छोड़ने के संबंध में व्यक्ति द्वारा अमल में लाने योग्य अधिकार सम्मिलित करना या उनमें से कोई एक किसी अन्य व्यक्ति के पक्ष में उनमें से कोई समझा जायेगा एवम खण्ड (बी) में संदर्भित नोटिस में इस अधिकार का कथन निहित होगा,

- डी) उपरोक्त कथित नोटिस में निर्दिष्ट समय की समाप्ति के पश्चात या उस व्यक्ति से पूर्व सूचना प्राप्ति पर, जिसको इस तरह का नोटिस दिया गया है, कि व्यक्ति ने प्रस्तावित अंशों को स्वीकार करने से इन्कार किया है, निदेशकों का बोर्ड इस तरह की दशा में उनको निपटा सकता है, जैसा वे कंपनी के लिये अधिक लाभप्रद समझते हैं,
- (2) उप-अनुच्छेद (1) के खण्ड (सी) में कुछ भी नहीं समझा जायेगा:—
- ए) समय विस्तार करने के लिये जिसके अंतर्गत प्रस्ताव को स्वीकार किया जाना चाहिये, या
- बी) इस आधार दूसरी बार के लिये अधिकारों के त्याग को कार्यान्वित करने के लिये किसी व्यक्ति को अधिकृत करने के लिये, कि व्यक्ति जिसके पक्ष में त्याग पहले किया गया था, त्याग में समाविष्ट अंशों को लेने से अस्वीकार किया है.

साधारण सभा के नियंत्रण के अंतर्गत अंश

75. इस अतिरिक्त एवम अनुच्छेद 10 के अंतर्गत निदेशकों पर प्रदत्त उद्देश्य के लिये शक्तियां से अप्रतिष्ठित हुए बिना, कंपनी साधारण सभा में अधिनियम की धारा 81 के प्रावधानों के अनुसरण में निर्धारित कर सकती है कि कोई भी अंश (चाहे कंपनी की मूल पूंजी का गठित भाग हो या ना हो) इस तरह के व्यक्तियों (चाहे कंपनी के सदस्य या ऋणपत्रों के धारक हो या ना हो) को इस तरह के अनुपात में एवम इस तरह की शर्तों एवम दशाओं पर एवम या तो प्रीमियम पर या सममूल्य पर या छूट (अधिनियम की धारा 79 के प्रावधानों के अनुपालन के अधीन) पर प्रस्तावित किया जायेगा, जैसा इस तरह की साधारण सभा निर्धारित करेगी.

मूल पूंजी के समान

76. अब तक इसके अतिरिक्त इन अनुच्छेदों द्वारा या जारी की गई दशाओं द्वारा अन्यथा प्रदान, नये अंशों के सृजन द्वारा किसी पूंजी को उठाना मूल पूंजी का भाग समझा जायेगा एवम भुगतान की कॉल्स एवम किशतें, हस्तांतरण एवम संचरण, जप्ती, धारणाधिकार, समर्पण, मतदान एवम अन्यथा के भुगतान के संदर्भ सहित इसमें निहित प्रावधानों के अधीन होगा.

पूंजी की कमी

77. अधिनियम की धारा 100 के प्रावधानों के अधीन, कंपनी समय-समय पर विशेष प्रस्ताव द्वारा कानून की किसी अधिकारिता में अपने अंशों में कमी कर सकती है एवम इसके विवरण में आधार पर किसी प्रदत्त अंश पूंजी का भुगतान कर सकती है, जो कि वापिस या अन्यथा बुलाई जा सकती है एवम यदि एवम जहां तक यह आवश्यक है एवम तदनुसार इसकी अंश पूंजी एवम इसके अंशों की राशि को कम करने के द्वारा इसमें बहिर्नियम को बदल सकते हैं.

विभाजन एवम उप-विभाजन

78. कंपनी अपने संस्था के बहिर्नियम की दशाओं को साधारण प्रस्ताव द्वारा साधारण सभा में बदल सकती है, ताकि:—
- (1) अपने विद्यमान अंशों से बड़ी राशि के अंशों में अपने सभी या किन्हीं अंशों को समेकित या विभाजित करना.
 - (2) संस्था के बहिर्नियम द्वारा मूल रूप से निश्चित छोटी राशि के अंशों में से उप-विभाजित अंश या उनमें से कोई, फिर भी अधिनियम के प्रावधानों के अधीन, इस आधार पर, इन अनुच्छेदों के अधीन, प्रस्ताव जिसके द्वारा कोई अंश उप-विभाजित होता है, यह निर्धारित किया जा सकता है कि इस तरह के उप-विभाजन के परिणामस्वरूप अंशों के धारकों के मध्य इस तरह का एक या अधिक अंश को किसी अन्य या इस तरह के किन्हीं अन्य अंशों को कोई वरीयता या लाभ या अन्यथा दिया जा सकता है.
 - (3) रद्द किये गये अंश जो इस तरह की साधारण सभा की दिनांक को किसी व्यक्ति द्वारा नहीं लिये गये हैं या लेने के लिये सहमति नहीं दी गई है एवम इस तरह से रद्द किये गये अंशों की राशि घटाई गई है.

अंशों के संयुक्त धारक

अंशों के संयुक्त धारक

79. जहां किसी अंश के धारकों के तौर पर दो या दो से अधिक व्यक्ति पंजीकृत होते हैं, निम्नलिखित के अधीन एवम अनुच्छेद में निहित अन्य प्रावधानों के अधीन कंपनी से संबंधित मामलों के लिये पंजिका में नाम लिखे हुए प्रथम व्यक्ति को एकमात्र धारक समझा जायेगा.
- (1) किसी अंश के संयुक्त धारकों के तौर पर तीन से अधिक व्यक्तियों को पंजीकृत करने से अस्वीकार करने के लिये कंपनी हकदार होगी.
 - (2) किसी भी अंश का संयुक्त धारक व्यक्तिगत के साथ-साथ संयुक्त रूप से सभी कॉल्स एवम अन्य भुगतानों के लिये एवम उनके सम्बंध में दायी होगा, जो इस तरह के अंश के संबंध में किये जाने चाहिये.
 - (3) इस तरह के किसी संयुक्त धारक की मृत्यु पर, सिर्फ उत्तरजीवी अंश के किसी टाईटल क तौर पर कंपनी द्वारा अधिकृत होगा, किन्तु निदेशकों को मृत्यु के इस तरह साक्ष्य की आवश्यकता हो सकती है, जैसा वे उचित समझ सकते हैं एवम किसी अन्य व्यक्ति(यों) के साथ मृतक को संयुक्त रूप से धारित अंशों पर किसी दायित्व से मृतक संयुक्त धारक की संपत्ति को जारी करने के लिये इसमें कुछ भी निहित नहीं लिया जायेगा.
 - (4) इस तरह के संयुक्त धारकों में से कोई एक इस तरह के अंश के संबंध में देय किसी लाभांश या अन्य राशियों के लिये प्रभावपूर्ण पावतियां प्रदान कर सकता है.
 - (5) सिर्फ वही व्यक्ति जिसका नाम किसी अंश के संयुक्त धारकों में से एक के तौर पर सदस्यों की पंजिका में पहले होता है, वह कंपनी से इस तरह के अंश के संबंध में प्रमाणपत्र की सुपुर्दगी या दस्तावेज (जिसकी अभिव्यक्ति अनुच्छेद 201 में निर्दिष्ट सभी दस्तावेजों को सम्मिलित करना समझा जायेगा) को प्राप्त करने एवम के लिये हकदार होगा एवम इस तरह के व्यक्ति को तामील किया गया कोई नोटिस या दस्तावेज सभी संयुक्त धारकों पर तामील किया गया है ऐसा समझा जायेगा.
 - (6) दो या अधिक संयुक्त धारकों में से कोई एक इस तरह के अंशों के संबंध में किसी सभा में या तो व्यक्तिगत रूप से या एटोर्नी द्वारा मतदान कर सकता है, जैसा यदि वह इसके लिये एकमात्र हकदार था एवम यदि इस तरह के एक से अधिक संयुक्त धारक किसी सभा में व्यक्तिगत रूप से या प्रतिनिधि द्वारा या एटोर्नी द्वारा उपस्थित है तो इस तरह से उपस्थित व्यक्तियों में से कोई एक जिसका नाम इस तरह के अंशों के संबंध में पंजिका में सबसे पहले या ऊपर (जैसा भी मामला हो सकता है) होता है, इसके संबंध में मतदान करने के लिये एकमात्र हकदार होगा, किन्तु अन्य संयुक्त धारक सभा में उपस्थित रहने के हकदार होंगे, बशर्त हमेशा कि व्यक्तिगत रूप से सभा में उपस्थित संयुक्त धारक इस तरह के अंशों के संबंध में पंजिका में सबसे पहले या ऊपर (जैसा भी मामला हो सकता है) नाम वाला धारक, एटोर्नी द्वारा या प्रतिनिधि द्वारा उपस्थित संयुक्त धारक से वरीयता में मतदान करने का हकदार होगा. मृतक सदस्य के कई निष्पादक एवम प्रशासक जिसका (मृतक सदस्य) एकमात्र नाम किसी अंश में रहता है, इस खण्ड के उद्देश्य के लिये संयुक्त धारक होना समझा जायेगा.

उधार लेने की शक्ति

दशाएं जिन पर धन उधार लिया जा सकता है

80. अधिनियम की धारा 58ए, 292 एवम 293 के प्रावधानों एवम इसके अंतर्गत बनाये गये विनियमों के अधीन, बोर्ड समय-समय पर बोर्ड की सभा में प्रस्ताव पारित करके सदस्यों या जनता से जमाएं या उधार राशियां स्वीकार कर सकता है एवम सभी तरह से इस तरह की शर्तों एवम दशाओं पर, जैसा उचित समझा जा सकता है, इस तरीके से इस तरह की राशि या राशियों का भुगतान उठा सकता है एवम सुरक्षित कर सकता है.

बंधपत्र, ऋणपत्र इत्यादि निदेशकों के नियंत्रण के अधीन होने हैं

81. कंपनी द्वारा जारी या जारी किये जाने वाले कोई बंधपत्र, ऋणपत्र, ऋणपत्र स्टॉक या अन्य प्रतिभूतियां निदेशकों के नियंत्रण के अंतर्गत होगी जो इन्हें इस तरह की शर्तों एवम दशाओं एवम इस तरीके से एवम इस तरह के प्रतिफल के लिये जारी कर सकते हैं, जैसा वे कंपनी के लाभ के लिये उचित समझेंगे.

प्रतिभूतियां इक्विटी से मुक्त आवंटित की जा सकती हैं

82. कंपनी या व्यक्ति के मध्य किसी इक्विटी से ऋणपत्र, ऋणपत्र स्टॉक, बंधपत्र या अन्य प्रतिभूतियां मुक्त आवंटित की जा सकती है जिसको यह जारी की जा सकती है.

छूट इत्यादि पर या विशेष विशेषाधिकार सहित जारी करना

83. विमोचन, समर्पण, आहरण, अंशों के आवंटन, कंपनी की साधारण सभा पर उपस्थिति, निदेशकों की नियुक्ति एवम अन्यथा के तौर पर कोई भी बंधपत्र, ऋणपत्र, ऋणपत्र स्टॉक या अन्य प्रतिभूतियां छूट, प्रीमियम या अन्यथा पर एवम किसी विशेष विशेषाधिकार पर जारी किया जा सकता है.

अनपेक्षित पूंजी को बंधक रखना

84. यदि कंपनी की कोई अनपेक्षित पूंजी किसी बंधक या अन्य प्रतिभूति में सम्मिलित की जाती है या प्रभारित की जाती है, तो निदेशक उस व्यक्ति को अधिकृत कर सकते हैं जिसके पक्ष में इस तरह का बंधक या प्रतिभूत निष्पादित की गई है या इस तरह की अनपेक्षित पूंजी के संबंध में सदस्यों पर कॉल करने के लिये उस पर विश्वास में किसी अन्य व्यक्ति द्वारा एवम कॉलस के संबंध में इसमें पहले निहित प्रावधान इस तरह के प्राधिकरण के अंतर्गत कॉलस करने के लिये, यथोचित परिवर्तनों सहित लागू होंगे एवम इस तरह का प्राधिकरण इसे अमल में लाने योग्य बना सकता है या तो सर्शत या बिना शर्त एवम या तो व्यक्ति रूप से या अनिश्चित रूप से एवम या तो बोर्ड की शक्तियों के निषेध के लिये या अन्यथा एवम आवंटन के योग्य होगा, यदि इस तरह से व्यक्त किया जाना है.

क्षतिपूर्ति दी जा सकती है

85. यदि निदेशक या उनमें से कोई या कोई अन्य व्यक्ति कंपनी से मुख्यतः बकाया किसी राशि के भुगतान के लिये व्यक्तिगत रूप से दायी बनेगा, इस तरह के दायित्व के संबंध में किसी हानि से उपरोक्त कथित तौर पर दायी बनने के कारण निदेशकों या व्यक्ति को सुरक्षित करने के लिये क्षतिपूर्ति के द्वारा कंपनी की पूर्ण सम्पत्तियों या इसके किसी भाग को प्रभावित करते हुए या कोई बंधक, चार्ज या प्रतिभूति के उपर निदेशकों द्वारा निष्पादित की जा सकती है या निष्पादित करने का कारण हो सकती है.

प्रभारों का पंजीकरण रखा जाना

86. कंपनी की संपत्ति को विशेष रूप से प्रभावित करते हुए सभी गिरवियों, ऋणपत्रों एवम प्रभारों को बोर्ड अधिनियम की धारा 143 के प्रावधानों के अनुसरण में उचित पंजिका में रखना एवम बंधकों एवम प्रभारों के पंजीकरण के संबंध में एवम प्रभारों की पंजिका के लेनदारों या सदस्यों को प्रदान किये जाने वाले निरीक्षण के संबंध में एवम प्रभार सृजित करते हुए दस्तावजों की प्रतियां के संबंध में कथित अधिनियम की आवश्यकताओं का विधिवत पालन करेगा. इस तरह की राशियां, जैसा अधिनियम द्वारा निर्धारित की जा सकती है, प्रभारों की पंजिका के प्रत्येक निरीक्षण के लिये लेनदारों या कंपनी के सदस्यों के अलावा किसी व्यक्ति द्वारा देय होगी.

सभाएं

वार्षिक साधारण सभा

87. कंपनी प्रत्येक वर्ष, अन्य सभाओं के अतिरिक्त, वार्षिक साधारण सभा आयोजित करेगी, जो कि अधिनियम की धारा 166 के प्रावधानों के अनुसरण में अपनी “वार्षिक साधारण सभा” की शैली में होगी.

असाधारण आम बैठक

88. वार्षिक साधारण सभा के अतिरिक्त सभी साधारण सभाओं को असाधारण आम बैठक से पुकारा जायेगा.

असाधारण आम बैठक को बुलाना

89. (1) बोर्ड जब भी उचित समझता है, एवम कंपनी के इस तरह के सदस्यों की मांग पर, इसके पश्चात निर्दिष्ट तौर पर, कंपनी की असाधारण आम बैठक तुरंत आयोजित कर सकता है, एवम आयोजित करेगा.

- (2) मांग में विचार—विमर्श के लिये मामलों निर्धारित किये जायेंगे, जिसके लिये सभा आयोजित की जानी है, मांग करने वाला द्वारा हस्ताक्षरित होगी एवम कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में जमा कराई जायेगी.
- (3) मांग में प्रत्येक एक या अधिक मांग करने वालों द्वारा हस्ताक्षरित जैसा प्रपत्र में निहित हो सकता है.
- (4) किसी मामले के संबंध में सभा की मांग करने वाले हकदार सदस्यों की संख्या उनमें से इस तरह के सदस्य होंगे, मांग को जमा करने की तिथी पर धारित तौर पर, उस मामले के संबंध में मतदान के अधिकार को साथ रखते हुए उस दिनांक पर कंपनी की इस तरह की प्रदत्त पूंजी का कम से कम $1/10$ होगा.
- (5) जहां दो या दो से अधिक पृथक मामलों मांगपत्र में निर्धारित किये जाते हैं, इस तरह के प्रत्येक मामले के संबंध में उप-अनुच्छेद (4) के प्रावधान पृथक से लागू होंगे, एवम तदनुसार मांगपत्र सिर्फ उन मामलों के संबंध में वैध होगा, जिसके संबंध में उप-अनुच्छेद में निर्दिष्ट दशा को परिपूर्ण किया जाता है.
- (6) यदि बोर्ड किसी मामले के संबंध में वैध मांगपत्र की प्रस्तुति की दिनांक से 21 दिनों के अंदर उन मामलों पर विचार—विमर्श के लिये विधिवत सभा (मांग की दिनांक से 45 दिनों के अंदर) बुलाने की प्रक्रिया प्रारंभ नहीं करता है, तो उन सभी द्वारा धारित प्रदत्त अंशपूंजी के मूल्य में बहुमत या कंपनी की इस तरह की प्रदत्त अंशपूंजी के कम से कम $1/10$, जैसा उप-अनुच्छेद (4) में संदर्भित है, जो भी कम हो. यद्यपि, इस उप-अनुच्छेद (4) के उद्देश्य के लिये, निदेशक, इस तरह के मामले में, जिस पर विशेष प्रस्ताव के तौर पर प्रस्ताव प्रस्तावित किया जाना है, इस तरह का नोटिस दे सकता है, जैसा कि अधिनियम की धारा 189 की उपधारा (2) द्वारा आवश्यक होता है.
- (7) मांगपत्र देने वालों या उनमें से किसी द्वारा उप-अनुच्छेद (6) के अंतर्गत बुलाई गई सभा:
 - ए) उसी तरीके से बुलाई जायेगी, जैसा संभव हो, कि जिसमें बोर्ड द्वारा सभा बुलाई जानी है, किन्तु,
 - बी) मांगपत्र की प्रस्तुति की दिनांक से तीन महीनों की समाप्ति के पश्चात आयोजित नहीं की जायेगी, बशर्ते कि उस अवधि के समाप्ति के पश्चात कुछ दिनों के स्थगन से, उपरोक्त कथित तीन महीनों की अवधि की समाप्ति से पहले सभा प्रारंभ करने से रोकने के लिये, इस उप-अनुच्छेद में निहित नहीं समझा जायेगा.
- (8) जहां दो या दो से अधिक व्यक्ति संयुक्त रूप से कंपनी कोई अंश या हित धारण करते हैं, तो उनमें से सिर्फ एक या कुछ द्वारा हस्ताक्षरित सभा बुलाने के लिये मांगपत्र या नोटिस, इस अनुच्छेद के उद्देश्य के लिये, समान बल एवम प्रभाव में होंगे, जैसा यदि यह उनमें से सभी द्वारा हस्ताक्षरित किया गया है.
- (9) सभा बुलाने के लिये बोर्ड की असफलता के कारण से मांगपत्र कर्ता द्वारा किए गए कोई उचित खर्च की प्रतिपूर्ति कंपनी द्वारा मांगपत्र कर्ता को की जायेगी एवम इस तरह से प्रतिपूर्ति की गई कोई राशि, इस तरह के निदेशकों के लिये अपनी सेवाओं के लिये प्रतिफल शुल्कों द्वारा कंपनी से बकाया होने के लिये या कोई बकाया राशि में से कंपनी द्वारा रोकी जायेगी, जैसा कि यह उनकी चुक थी.

सभा का नोटिस

90. (1) कंपनी की साधारण सभा कम से कम 21 दिनों के लिखित नोटिस द्वारा बुलाई जा सकती है.
- (2) अल्पकालीन नोटिस देने के पश्चात साधारण सभा बुलाई जा सकती है, जो कि उप-अनुच्छेद (1) में निर्दिष्ट है, यदि इसके अनुसार सहमति होती है:
 - ए) इस पर मतदान के लिये हकदार सभी सदस्यों द्वारा वार्षिक साधारण सभा के मामले में, एवम
 - बी) कंपनी की प्रदत्त अंश पूंजी के इस तरह के भाग के कम से कम 95 प्रतिशत धारिता वाले कंपनी के सदस्यों द्वारा किसी अन्य सभा के मामले में, सभा के लिये मतदान के लिये उनको प्रदान अधिकार के तौर पर, बशर्ते कि जहां कंपनी को कोई सदस्य सभा में रखे जाने वाले कुछ प्रस्तावों पर सिर्फ मतदान के लिये हकदार होता है एवम अन्यो पर नहीं, उन सदस्यों को पूर्व प्रस्ताव या प्रस्तावों के संबंध में इन

उप-अनुच्छेदों के उद्देश्यों के लिये खाते में से लिया जायेगा एवम उत्तरवर्ती के संबंध में नहीं.

नोटिस की तामील की विषय-वस्तु एवम रीति एवम व्यक्ति जिन पर इसकी तामील की जानी है

91. (1) कंपनी की सभा के प्रत्येक नोटिस में स्थान एवम दिन एवम सभा का समय निर्दिष्ट किया जायेगा एवम इस पर सम्पादित होने कार्य के कथन इसमें निहित होंगे.
- (2) कंपनी की प्रत्येक सभा का नोटिस दिया जायेगा:
- ए) अधिनियम की धारा 53 की उपधारा (1) से उपधारा (5) द्वारा किसी प्रकार से अधिकृत कंपनी के प्रत्येक सदस्य को,
- बी) सदस्य की मृत्यु या दिवालियापन के परिणामस्वरूप अंश के लिये हकदार व्यक्तियों को, या डाक के माध्यम से भेजी जा रही सदस्य का दिवालियापन, उनको नाम द्वारा या मृतक के प्रतिनिधि टाईटिल द्वारा या दिवालिया के निर्दिष्टों द्वारा या पते पर किसी विवरण द्वारा, यदि कोई हो, संबोधित करते हुए पूर्व पदत्त पत्र में, इस तरह से हकदार होने के लिये दावा कर रहे व्यक्तियों द्वारा भारत में आपूर्ति करने के उद्देश्य के लिये, या जब तक किसी प्रकार से नोटिस देकर इस तरह के पते की आपूर्ति की गई है, जिसमें यह दिया गया हो सकता है कि यदि मृत्यु या दिवालियापन नहीं हुआ था.

नोटिस देने में चूक, सभा के समय कार्यवाहियों को अमान्य करने के लिये नहीं

92. किसी सदस्य या अन्य व्यक्ति द्वारा नोटिस देने में आकस्मिक चूक या नोटिस की गैर-प्राप्ति, जिसको यह दिया जाना चाहिये, सभा की कार्यवाहियों को अमान्य नहीं करेगा.

साधारण सभा कार्यवाही

93. (1) वार्षिक साधारण सभा के मामले में, सभा में संपादित किये जाने वाले सभी कार्य विशेष समझे जायेंगे, व्यवसाय के अपवाद के साथ इस संबंध के लिये:
- ए) खातों, बेलेंस शीट एवम निदेशकों के बोर्ड एवम अंकेशकों के प्रतिवेदन का विचार-विमर्श,
- बी) लाभांशों की घोषणा,
- सी) उन सेवानिवृत्तियों के स्थान पर निदेशकों की नियुक्ति, एवम
- डी) अंकेशकों की नियुक्ति एवम पारिश्रमिक तय करना, एवम
- (2) किसी अन्य साधारण सभा के मामले में सभी व्यवसाय विशेष समझे जायेंगे,
- (3) जहां पर सभा में व्यवसाय की कोई वस्तुएं संपादित की जानी है, उपरोक्त कथित तौर पर विशेष समझी जाती है, सभा के नोटिस को जोड़ा गया है, इस तरह के व्यवसाय की प्रत्येक वस्तु से संबंधित सभी सामग्री तथ्यों से बाहर कथन का निर्धारण, संबंधित की प्रकृति या हित विशेष रूप से सम्मिलित, यदि कोई हो, जिसमें प्रत्येक निदेशक एवम प्रबंधक, यदि कोई हो, बशर्ते कि जहां उपरोक्त कथित तौर पर विशेष व्यवसाय की कोई वस्तु कंपनी की सभा पर संपादित की जानी है, जिससे संबंधित, या किसी अन्य कंपनी के प्रभाव, अंशधारिता हित की सीमा, जिसमें अन्य कंपनी का प्रत्येक निदेशक एवम मैनेजर, यदि कोई हो, कंपनी का, भी कथन में निर्धारित किया जायेगा. यदि इस तरह की अंशधारिता हित की सीमा, अन्य कंपनी की प्रदत्त पूंजी का कम से कम 20 प्रतिशत होती है.
- (4) जहां सभा द्वारा किसी दस्तावेज के अनुमोदन के अनुसरण में निहित व्यवसाय की कोई वस्तु, समय एवम स्थान जहां पर दस्तावेज का निरीक्षण किया जा सकता है, उपरोक्त कथित कथन में निर्दिष्ट होगा.

साधारण एवम विशेष प्रस्ताव

94. (1) प्रस्ताव साधारण प्रस्ताव होगा जिसको अधिनियम के अंतर्गत आवश्यक नोटिस विधिवत दिया गया है, सदस्यों द्वारा प्रस्ताव (इसमें अध्यक्ष का वोट देना सम्मिलित, यदि कोई हो) के पक्ष में वोट देना (चाहे हाथ दिखाकर, या मतदान पर, जैसा भी मामला हो सकता है) जो ऐसा करने के लिये हकदार होते हैं, वोट व्यक्तिगत रूप से या जहां प्रतिनिधि की अनुमति है,

प्रतिनिधि द्वारा, वोटों की अधिकता, यदि कोई हो, इस तरह से वोटिंग के हकदार सदस्यों द्वारा प्रस्ताव के विरुद्ध वोट देना.

(2) प्रस्ताव विशेष प्रस्ताव होगा जब:—

- ए) विशेष प्रस्ताव के तौर पर प्रस्ताव के उद्देश्य के लिये अभिप्राय, साधारण सभा को बुलाने वाले नोटिस में विधिवत निर्दिष्ट किया गया है या प्रस्ताव के सदस्यों को अन्य सूचना प्रदान की गई है,
- बी) अधिनियम के अंतर्गत आवश्यक नोटिस साधारण सभा को विधिवत दिया गया है, एवम
- सी) उन सदस्यों द्वारा प्रस्ताव के पक्ष में वोट देना (चाहे हाथ दिखाकर या मतदान पर, जैसा भी मामला हो सकता है) जो व्यक्तिगत रूप से इस तरह से वोट देने के लिये पात्र है, या जहां प्रतिनिधियों की अनुमति प्राप्त है, प्रतिनिधि द्वारा, वोटों की संख्या से कम से कम तीन गुना होता है, यदि कोई हो, इस तरह से हकदार एवम वोटिंग करने वाले सदस्यों द्वारा प्रस्ताव के विरुद्ध वोट देना.

प्रस्ताव के लिये विशेष नोटिस

95. (1) जहां इस अधिनियम या इन अनुच्छेदों में कोई प्रावधान निहित है, किसी प्रस्ताव का विशेष नोटिस आवश्यक होता है, प्रस्ताव के संचालन के लिये अभिप्राय का नोटिस कंपनी को सभा से पहले कम से कम 14 दिनों का दिया जायेगा, जिस पर यह संचालित किया जाना है, अनन्य दिन को, जिस पर नोटिस एवम सभा का समय तामील किया जाता है या तामील किया जाना समझा जाता है.
- (2) इस तरह के किसी प्रस्ताव को संचालित करने के लिये इसके द्वारा नोटिस प्राप्त किया गया है, इसके पश्चात कंपनी तत्काल अपने सदस्यों को प्रस्ताव का नोटिस प्रदान करेगी, जैसा यह सभा का नोटिस प्रदान करती है, या यदि यह व्यवहार्य नहीं होता है, इसका नोटिस दिया जायेगा, या तो पर्याप्त प्रसार वाले समाचार पत्र में विज्ञापन द्वारा या इन अनुच्छेदों द्वारा अनुमति प्राप्त किसी अन्य माध्यम द्वारा, सभा के पश्चात कम से कम 7 दिनों की अवधि के अंदर.

साधारण सभा की कार्यवाही

साधारण सभा को कोरम

96. व्यक्तिगत रूप से उपस्थित पांच सदस्य साधारण सभा के लिये कोरम होगा एवम किसी भी साधारण सभा में कोई भी कार्यवाही नहीं की जायेगी जब तक कार्यवाही की शुरुआत के समय अपेक्षित कोरम उपस्थित नहीं होता है.

कुर्सी के खाली रहने पर अध्यक्ष पद के चुनाव के लिये कार्यवाही सीमित

97. किसी साधारण सभा में जब तक कुर्सी खाली होती है अध्यक्ष पद के चुनाव के अतिरिक्त कोई विचार-विमर्श नहीं किया जायेगा.

साधारण सभा का अध्यक्ष

98. निदेशकों का अध्यक्ष प्रत्येक साधारण सभा में अध्यक्षता करने का हकदार होगा. यदि वहां पर कोई भी अध्यक्ष नहीं हो या यदि किसी भी सभा में इस तरह की सभा को धारित करने के लिये निर्धारित किये गये समय के पश्चात पंद्रह मिनट के अंदर वह उपस्थित नहीं होगा, या कार्य करने के लिये अनिच्छुक होगा, तो उपस्थित निदेशक उनमें से किसी एक को सभा के अध्यक्ष के तौर पर कार्य करने के लिये चुन सकते हैं एवम अनुपस्थिति में उनके द्वारा ऐसा करने पर, उपस्थित सदस्य अध्यक्षता करने के लिये निदेशकों में से किसी एक का चुनाव हाथ उठाकर करेंगे एवम यदि उपस्थित निदेशकों में से कोई भी अध्यक्षता करने के लिये इच्छुक नहीं होता है तो उपस्थित सदस्य सभा की अध्यक्षता के लिये अपने में किसी एक का चुनाव हाथ उठाकर करेंगे.

कार्यवाही जब कोरम उपस्थित नहीं हो

99. यदि साधारण सभा को धारित करने के लिये निर्धारित किये गये समय के पश्चात आधे घंटे के अंदर कोरम पूरा नहीं होता है, यदि अंशधारकों की प्रार्थना पर सभा प्रारंभ की जाती है, तो उसे भंग किया जायेगा एवम किसी अन्य मामले में, अगले सप्ताह में उसी दिन, उसी समय एवम स्थान के लिये

स्थगित कर दी जायेगी एवम इस तरह के किसी अन्य दिन एवम समय, जैसा निदेशक निर्धारित कर सकते हैं. यदि इस तरह की किसी स्थगित सभा में भी सभा को धारित करने के लिये निर्धारित समय से आधे घंटे के अंदर कोरम पूरा नहीं होता है, तो उपस्थित सदस्य का कोरम होगा एवम वह कार्यवाही संचालित की जा सकती है, जिसके लिये सभा बुलाई गई थी.

स्थगित सभा

100. अध्यक्ष सभा की सहमति के साथ समय-समय पर एवम स्थान-स्थान पर किसी सभा को स्थगित कर सकता है, जिसमें कोरम उपस्थित होता है, किन्तु उस कार्यवाही के अतिरिक्त किसी स्थगित सभा में कोई कार्यवाही नहीं की जायेगी जो उस सभा में संपादित कर दी गयी है जिसमें स्थगन किया गया था. स्थगित सभा के लिये किसी भी तरह का नोटिस देने की आवश्यकता नहीं होगी, जब तक तीस दिनों से अधिक के लिये स्थगित नहीं की जाती है.

प्रस्ताव को पारित करने के लिये क्या किया जाना है जब मतदान की मांग नहीं की जाती है

101. किसी भी साधारण सभा में सभा के मतदान के लिये रखने के लिये प्रस्ताव हाथों को दिखाकर निर्णित किया जायेगा जब तक मतदान (हाथ दिखाने के परिणाम की घोषणा पर या पहले) की मांग इसके पश्चात निर्दिष्ट दशा में नहीं की जाती है, एवम इस तरह के मतदान की मांग नहीं की जाती है, अध्यक्ष द्वारा घोषणा, हाथों को दिखाकर, की गयी है या सर्वसम्मति से की गयी है या विशेष बहुमत से की गयी है, या खो गयी है एवम कंपनी की कार्यवाही की पुस्तिका में इस प्रभाव के लिये प्रविष्टी प्रस्ताव के पक्ष में या विरुद्ध अभिलिखित मतों की संख्या या अनुपात के सबूत के बिना इसका निर्णायक साक्ष्य होगी.

मतदान के लिये मांग

102. (1) हाथों को उठाकर किसी प्रस्ताव पर मतदान के परिणाम की घोषणा पर या पहले, अपने स्वयं के प्रस्ताव से सभा के अध्यक्ष द्वारा मतदान के लिये आदेश दिया जा सकता है, एवम किसी सदस्य या व्यक्तिगत रूप से या प्रतिनिधि एवम कंपनी में अंशों की धारिता के माध्यम से उपस्थित सदस्यों द्वारा की गई मांग पर उनके द्वारा आदेश दिया जायेगा, जिनमें प्रस्ताव के संबंध में कुल मतदान शक्ति के कम से कम कुल $1/10$ पर मतदान की शक्ति निहित होगी या जिस पर कुल राशि कम से कम पचास हजार रुपये प्रदत्त की गई है.
- (2) मतदान के लिये मांग उस व्यक्ति द्वारा कभी भी वापिस ली जा सकती है, जिसने मांग की थी.

मतदान के लिये जाने वाला समय

103. (1) यदि अध्यक्ष के चुनाव पर या स्थगन के प्रश्न पर मतदान की मांग की जाती है, तो यह तत्काल एवम बिना किसी स्थगन के लिया जायेगी.
- (2) किसी अन्य प्रश्न पर मांगा मतदान उस समय से कम से कम 48 घंटे पहले इस तरह के समय पर लिया जायेगा, जब मांग की गई थी, जैसा अध्यक्ष निर्देशित कर सकता है.

भिन्न प्रकार से अपने मतदान का उपयोग करने के लिये सदस्य के अधिकार

104. कंपनी की सभा में मतदान लेने पर, सदस्य एक से अधिक मत देने का हकदार होता है या उसका प्रतिनिधि या अन्य व्यक्ति उसके लिये मतदान के लिये हकदार होता है, जैसा भी मामला हो सकता है, यदि वह मतदान करता है, तो उसके सभी मतों का उपयोग उसी तरह से करने की आवश्यकता नहीं होती है, जो सभी मत वह उपयोग में लेता है.

मतदान पर संवीक्षक

105. (1) जहां पर मतदान लिया जाना है, सभा का अध्यक्ष मतदान पर दिये गये मतों एवम उसके लिये उस पर प्रतिवेदन के लिये दो संवीक्षकों की नियुक्ति करेगा.
- (2) अध्यक्ष को मतदान के परिणाम से पहले किसी समय शक्ति संवीक्षक को कार्यालय से निष्कासित करने एवम इस तरह के निष्कासन या किसी अन्य कारण से संवीक्षक की कार्यालय में खाली हुई रिक्ति को भरने के लिये शक्ति होगी, जब मतदान घोषित किया जाता है.
- (3) इस अनुच्छेद के अंतर्गत नियुक्त दो संवीक्षकों में से एक हमेशा सभा में उपस्थित एक सदस्य (कंपनी का अधिकारी या कर्मचारी नहीं होकर) होगा.

मतदान एवम उसका परिणाम लेने की रीति

106. (1) अधिनियम के प्रावधान के अधीन, सभा के अध्यक्ष का उस रीति को विनियमित करने की शक्ति होगी जिसमें मतदान लिया जायेगा.
- (2) मतदान का परिणाम उस प्रस्ताव पर सभा का निर्णय लिया जाना समझा जायेगा, जिस पर मतदान लिया गया था.

मतदान की समानता के मामले में प्रस्ताव कैसे निर्णित किया जाता है

107. मतदान की समानता के मामले में, चाहे हाथों को दिखाकर या मतदान पर, सभा का अध्यक्ष, जिस पर हाथों को दिखाकर या जिस पर मतदान की मांग की जाती है, अपने स्वयं के मत या मतों को देने का हकदार होगा, जिसके लिये वह सदस्य के तौर पर हकदार हो सकता है.

अन्य कार्यों को संपादित करने से नहीं रोकने के लिये मतदान की मांग

108. मतदान के लिये मांग उस प्रश्न के अलावा अन्य कार्यों के संपादन के लिये सभा की निरंतरता को नहीं रोकेंगी जिस पर मतदान की मांग की गयी है.

साधारण सभाओं के कार्यवृत्त

109. (1) कंपनी द्वारा इस तरह की प्रत्येक सभा के समापन के तीस दिनों के अन्दर इससे संबंधित प्रविष्टियों को इस उद्देश्य के लिये रखी गई पुस्तकों में प्रविष्ट किये जाने के लिये साधारण सभा की सभी कार्यवाहियों के कार्यवृत्त इन पुस्तकों में रखे जायेंगे जिस उद्देश्य के लिये इनके पृष्ठों को क्रमानुगत रूप में संख्या दी गई है. प्रत्येक सभा के कार्यवृत्त में इस पर की गई कार्यवाहियों का निष्पक्ष एवम सही सारांश होगा. किसी भी सभा में बनाये गये अधिकारियों की सभी नियुक्तियां सभा के कार्यवृत्त में सम्मिलित की जायेगी. इस तरह का कोई भी कार्यवृत्त, यदि सभा के अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षरित किया जाना कथित है जिस पर कार्यवाहियां की जा रही हैं या उस अध्यक्ष की मृत्यु या असमर्थता के प्रसंग में, उस उद्देश्य के लिये बोर्ड द्वारा विधिवत अधिकृत अध्यक्ष द्वारा कार्यवाहियों का साक्ष्य होगा.
- (2) कार्यवृत्त को केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित रीति से खुले पृष्ठों को निहित करते हुए जिल्द के रूप में पुस्तकों में रखा जा सकता है.

कार्यवृत्त पुस्तकों का निरीक्षण

110. कंपनी की साधारण सभा की कार्यवाहियों के कार्यवृत्तों को निहित करते हुए पुस्तकें कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में रखी जायेगी एवम किसी भी सदस्य द्वारा इनका बिना शुल्क निरीक्षण के लिये इन्हें सभी कार्य दिवसों में सुबह 11.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक के मध्य में खुला रखा जायेगा.

कार्यवृत्तों की प्रतियां

111. कोई भी सदस्य सात दिनों के अन्दर प्रतियां प्राप्त किये जाने के लिये हकदार होगा, जब उसके द्वारा उस निमित्त कंपनी को निवेदन किया गया था इस तरह के शुल्क पर उपरोक्त संदर्भित कार्यवृत्त की प्रति के साथ, जैसा अधिनियम द्वारा निर्धारित किया जा सकता है.

सदस्यों के मत*सदस्यों का मतदान*

112. अंशों की किसी श्रेणी या श्रेणियां से जुड़कर तत्समय के लिये किसी अधिकार या प्रतिबंध के अधीन:—
- (1) हाथों को ऊपर उठाकर मतदान के लिये हकदार कंपनी का प्रत्येक सदस्य या व्यक्तिगत रूप से उपस्थित या एटोर्नी द्वारा या प्रतिनिधि का एक मत होगा, एवम
- (2) मतदान पर, कंपनी का प्रत्येक सदस्य जो व्यक्तिगत होकर व्यक्तिगत रूप से या एटोर्नी द्वारा या प्रतिनिधि द्वारा उपस्थित है या निगम होकर प्रतिनिधि उपस्थित होता है, कंपनी के अपनी प्रदत्त पूंजी के अंश के अनुपात में मतदान अधिकार होगा.

निगमों द्वारा मतदान

113. (1) एक निगम/संस्था/कंपनी/संगठन/सोसायटी या कोई अन्य निगमित निकाय, यदि वह सदस्य है, तो अधिनियम की धारा 187 के प्रावधानों के अनुसरण में अन्य शासी निकाय या

निदेशकों के बोर्ड के प्रस्ताव द्वारा, इस तरह के व्यक्ति को अधिकृत कर सकता है, जिस वह अपने प्रतिनिधि के तौर पर कार्य करने के लिये उचित समझता है।

- (2) इस तरह के निगम के एक निदेशक द्वारा या इसके शासी निकाय के सदस्य द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित एवम उसके द्वारा सत्यापित इस तरह के प्रस्ताव की प्रति को प्रस्ताव के सत्य प्रति के तौर सभा में प्रस्तुत करने पर, यह उसकी नियुक्ति की वैधता के पर्याप्त साक्ष्य के तौर पर कंपनी द्वारा स्वीकार की जायेगी।
 - (3) उपरोक्त कथित तौर पर प्रस्ताव द्वारा अधिकृत व्यक्ति समान अधिकार एवम शक्तियों (प्रतिनिधि द्वारा मतदान के अधिकार को सम्मिलित करते हुए) को शासी निकाय की ओर से कार्यान्वित करने का हकदार होगा जिसका वह प्रतिनिधित्व करता, निकाय के तौर पर कार्यान्वित की सकती, यदि वह व्यक्तिगत सदस्य था।
114. किसी भी साधारण सभा में अन्य सदस्य के लिये या अंशधारकों की श्रेणी की सभा के लिये कोई भी सदस्य, अपने नाम पर पंजीकृत किन्हीं अंशों के संबंध में, या तो हाथों को उठाकर या मतदान पर, या तो व्यक्तिगत रूप से या प्रतिनिधि द्वारा मतदान करने का हकदार नहीं होगा, जिस पर उसके द्वारा कोई कॉल या अन्य राशि वर्तमान में देय है, अदा नहीं की गई है या जिसके संबंध में, कंपनी ने धारणाधिकार के किसी अधिकार को क्रियान्वित किया है।
115. किन्हीं अंशों का हस्तांतरण करने के लिये संचरण खण्ड के अंतर्ग हकदार कोई व्यक्ति उसके संबंध में साधारण सभा में मतदान कर सकता है, जैसा यदि वह इस तरह के अंशों का पंजीकृत धारक था, बशर्ते कि सभा को धारित करने या स्थगित सभा के समय से कम से कम 48 घंटे पहले, जैसा भी मामला हो सकता है, जिस पर वह मतदान करना प्रस्तावित करता है, वह इस तरह के अंशों को हस्तांतरित करने के अपने अधिकार के प्रति निदेशकों को संतुष्ट करेगा, जब तक इसके संबंध में इस तरह की सभा में मतदान करने के लिये उसके अधिकार को निदेशक पूर्व में प्रस्तुत करेंगे।

प्रतिनिधि की योग्यता

116. (1) कंपनी की सभा में उपस्थित होने एवम मतदान करने के लिये हकदार कंपनी का कोई सदस्य अन्य व्यक्ति (चाहे सदस्य है या नहीं है) को उसके स्वयं की जगह उपस्थित होने एवम मतदान करने के लिये उसके प्रतिनिधि के तौर पर नियुक्त करने का हकदार होगा, किन्तु इस तरह से नियुक्त प्रतिनिधि को सभा में बोलने का कोई अधिकार नहीं होगा।
- (2) कंपनी की सभा को बुलाते हुए प्रत्येक नाटिस, वहां पर उचित प्रमुखता के साथ एक बयान के तौर पर दिखाई देगा कि सदस्य उपस्थित होने के लिये हकदार है एवम उसे अपने स्वयं की जगह उपस्थित होने एवम मतदान करने के लिये प्रतिनिधि नियुक्त करने का अधिकार है कि उस प्रतिनिधि का सदस्य होना आवश्यक नहीं होता है।

प्रतिनिधि या एटोर्नी द्वारा वोट दिया जा सकता है

117. वोट या तो व्यक्तिगत रूप से या एटोर्नी द्वारा या प्रतिनिधि द्वारा या निगम/संस्था/कंपनी/संगठन/सोसायटी के मामले में भी उपरोक्त कथित तौर पर विधिवत अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा दिया जा सकता है।

प्रतिनिधि के दस्तावेज का निष्पादन

118. प्रतिनिधि का नियुक्त करने वाला दस्तावेज नियुक्त करे वाले व्यक्ति या एटोर्नी या यदि इस तरह नियुक्त करने वाला एक कंपनी या निगम है तो इस तरह की कंपनी या निगम द्वारा विधिवत अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर के अंतर्गत या इसकी कॉमन मुहर के अंतर्गत या उसके एटोर्नी, जो कि नियुक्तकर्ता हो सकता है, के हस्ताक्षर के अंतर्गत लिखित में होगा।

प्रतिनिधि की नियुक्ति के दस्तावेज को जमा करना एवम निरीक्षण

119. कोई भी व्यक्ति प्रतिनिधि के तौर पर कार्य नहीं करेगा, जब तक उसकी नियुक्ति का दस्तावेज एवम मुख्तारनामा या अन्य प्राधिकार, जिसके अंतर्गत इसको हस्ताक्षरित किया जाता है या इस मुख्तारनामा या अन्य प्राधिकार की प्रति, नोटरी पब्लिक द्वारा विधिवत सत्यापित, उस सभा को धारित करने के समय से कम से कम 48 घंटे पहले कार्यालय में जमा की जायेगी, जिस पर प्रतिनिधि के दस्तावेज में नामित व्यक्ति वोट देने के लिये प्रस्तावित किया जाता है एवम प्रतिनिधि की नियुक्ती करने वाले दस्तावेज के अभाव में, इसे वैध तौर पर व्यवहारित नहीं किया जायेगा। कोई भी एटोर्नी वोट देने के लिए हकदार नहीं होगा, जब तक उसको एटोनी के तौर पर नियुक्त करते

हुए मुख्यारनामा या अन्य दस्तावेज या उसकी प्रति, नोटरी पब्लि द्वारा विधिवत सत्यापित, या तो उस सभा के समय से पहले कम से कम 48 घंटे से पहले किसी समय पर कंपनी के अभिलेखों में पंजीकृत की गई है, जिस पर एटोर्नी द्वारा वोट देना प्रस्तावित है या उपरोक्त कथित तौर पर उस सभा के समय से कम से कम 48 घंटे पहले कार्यालय में जमा की गई है। इसके बावजूद भी कि कंपनी के अभिलेखों में पॉवर ऑफ एटोर्नी या अन्य प्राधिकार को पंजीकृत किया गया है, कंपनी उस सदस्य या एटोर्नी को संबोधित करते हुए लिखित में सभा की तिथी से कम से कम सात दिनों का नोटिस देकर उससे मूल पॉवर ऑफ एटोर्नी को प्रस्तुत करने को कह सकती है एवम जब तक सभी के लिये नियत समय से कम से कम 48 घंटे पहले कंपनी में इसे जमा नहीं किया जाता है, तो निदेशक अपने एकमात्र विवेक पर इस तरह की गैर-प्रस्तुती एवम जमा को माफ कर सकते हैं। कंपनी की सभा में वोट देने के लिये या इस पर किसी प्रस्ताव को प्रस्तावित करने के लिये हकदार प्रत्येक सदस्य सभा के प्रारंभ के लिये नियत समय से पहले शुरू होने वाले चौबीस घंटों के दरम्यान एवम कंपनी के कार्य के घंटों के दरम्यान किसी समय दर्ज किये गये प्रतिनिधि निरीक्षण के लिये सभा के समापन के साथ हकदार होगा, बशर्ते कि इस तरह के निरीक्षण का लिखित में कम से कम तीन दिनों नोटिस कंपनी को दिया गया है।

दस्तावेज की अभिरक्षा

120. यदि कंपनी की सभाओं में वोट देने के लिये नियुक्ती का कोई दस्तावेज प्रतिनिधि या स्थानापन्न को नियुक्त करने के लिये सीमित होता है, तो यह स्थाई रूप से या इस तरह के समय के लिये कंपनी की अभिरक्षा में बना रहेगा, जैसा भी निदेशक निर्धारित कर सकते हैं, एवम यदि अन्य उद्देश्यों को सम्मिलित करने के लिये इसकी प्रति, मूल के साथ जांच करने के लिये, कंपनी को अपनी अभिरक्षा में रखने के लिये सुपुर्द की जायेगी।

प्रतिनिधि नियुक्त करने वाला दस्तावेज

121. प्रतिनिधि का प्रत्येक दस्तावेज चाहे विशिष्ट सभा या अन्यथा लिखित में होगा एवम यदि नियुक्तकर्ता निगम है, तो उसकी कॉमन मुहर या अधिकारी या विधिवत अधिकृत एटोर्नी के हस्ताक्षर के अंतर्गत इसे अधिनियम की अनुसूची IX में निर्दिष्ट प्रारूप में परिस्थितियों के लगभग प्रस्तुत किया जायेगा।

सदस्य इत्यादि की मृत्यु के बावजूद भी प्रतिनिधि द्वारा दिये गये वोट की वैधता

122. प्रतिनिधि के दस्तावेज की शर्तों के अनुसरण में दिया गया वोट मूल की पूर्व मृत्यु या प्रतिनिधि या किसी पॉवर ऑफ एटोर्नी के निरसन के बावजूद भी वैध होगा, जिसके अंतर्गत इस तरह के प्रतिनिधि द्वारा हस्ताक्षर किये गये थे या अंशों का हस्तांतरण किया गया था, जिसके संबंध में वोट दिया गया है, बशर्ते कि मृत्यु, निरसन या हस्तांतरण की लिखित में सूचना सभा से पहले कार्यालय में प्राप्त नहीं की गयी होगी।

वोट पर आपत्ति के लिये समय

123. किसी वोट की वैधता के लिये सभा या मतदान को छोड़कर कोई भी आपत्ति नहीं की जायेगी, जिस पर इस तरह का वोट दिया जायेगा, एवम प्रत्येक वोट, चाहे व्यक्तिगत रूप से या प्रतिनिधि द्वारा दिया गया है, इस तरह की सभा या मतदान में अस्वीकृत नहीं किया जायेगा, इसे सभी उद्देश्यों के लिये वैध समझा जायेगा।

किसी वोट की वैधता के लिये किसी सभा का अध्यक्ष द्वारा निर्णय लिया जाना है

124. किसी सभा का अध्यक्ष इस तरह की सभा में डाले गये प्रत्येक वोट की वैधता का निर्णय करने के लिये एकमात्र निर्णायक होगा। मतदान का संचालन करने के समय उपस्थित अध्यक्ष इस तरह के मतदान में डाले गये प्रत्येक वोट की वैधता का एकमात्र निर्णायक होगा।

सदस्यों के समान अधिकार

125. प्रत्येक सदस्य जिसका नाम कंपनी के सदस्यों की पंजिका में प्रविष्ट किया गया है, समान अधिकारों का उपयोग करेगा एवम समान दायित्वों के अधीन होगा, जैसा समान श्रेणी के सभी अन्य सदस्यों को होता है।

निदेशक

निदेशकों की संख्या

126. निदेशकों की संख्या तीन से कम एवम सोलह से ज्यादा नहीं होगी एवम निदेशकों की संख्या को केन्द्र सरकार के अनुमोदन के साथ सोलह से परे बढ़ाया जा सकता है।

निदेशकों के बोर्ड का संयोजन

126ए.बोर्ड में सम्मिलित होंगे:—

- 1) सार्वजनिक हित निदेशक
- 2) अंशधारक निदेशक, एवम
- 3) प्रबंध निदेशक.

इन अनुच्छेदों में कुछ भी विपरीत होने के बावजूद भी, प्रतिभूति संविदा विनियमन (स्टॉक एक्सचेंज एवम समाशोधन निगम) (विनियमन), 2012, सेबी द्वारा जारी व्युत्पन्न, बोर्ड के संयोजन के संबंध में समय-समय पर जारी परिपत्रक, निदेशकों की नियुक्ति की रीति के संबंध में सामान्य आवश्यकताएं, कुंजी प्रबंधन कर्मी, 'निदेशकों एवम कुंजी प्रबंधन कर्मी के लिये आचार संहिता' एवम कंपनी के शासन से संबंधित अन्य आकस्मिक एवम आनुषंगिक मामलों का पालन किया जायेगा.

निदेशकों के चुनाव, नियुक्ति, अवधि, त्यागपत्र अवकाश इत्यादि के मामलों प्रतिभूति संविदा विनियमन (स्टॉक एक्सचेंज एवम समाशोधन निगम) (विनियमन), 2012, सेबी द्वारा जारी व्युत्पन्न, समय-समय पर जारी परिपत्रक.

- 1.1 सार्वजनिक हित निदेशकों की संख्या एक्सचेंज में अंशधारक निदेशकों की संख्या से कम नहीं होगी.
- 1.2 प्रबंध निदेशक निदेशक बोर्ड का पदेन निदेशक होगा एवम सार्वजनिक हित निदेशकों या अंशधारक निदेशकों की श्रेणी में सम्मिलित नहीं होगा. एक्सचेंज का कोई कर्मचारी प्रबंध निदेशक के अतिरिक्त निदेशकों के बोर्ड पर नियुक्त किया जा सकता है, एवम इस तरह के निदेशक को अंशधारक निदेशक होना समझा जायेगा. कम से कम एक सार्वजनिक हित निदेशक कोरम को गठित करने के लिये निदेशकों के बोर्ड की सभा में उपस्थित रहेगा.
- 1.3 निदेशक के तौर पर इस तरह से नियुक्त व्यक्ति को सेबी द्वारा निर्धारित 'योग्य एवम उचित व्यक्ति' के मानदंड को पूरा करना चाहिए.

सार्वजनिक हित निदेशक

126बी.

- 1.1 एक्सचेंज के निदेशकों के बोर्ड पर सार्वजनिक हित निदेशकों को सेबी द्वारा नामांकित किया जायेगा. सार्वजनिक हित निदेशक तीन वर्षों की अवधि या इस तरह की विस्तारित अवधि के लिये नामांकित किये जायेंगे, जैसा भी सेबी द्वारा अनुमोदित किया जा सकता है. यदि कोई मामला उत्पन्न होता है कि क्या सार्वजनिक हित निदेशक का निर्दिष्टीकरण या स्थिति का उसकी भूमिका से संघर्ष होता है, तो सेबी का निर्णय अंतिम होगा. सार्वजनिक हित निदेशक को एक वर्ष के विराम काल अवधि या इस तरह की अवधि के पश्चात पुनः नामांकित किया जा सकता है, जैसा सेबी द्वारा प्रतिभूति बाजार के हित में उचित समझा जा सकता है. सार्वजनिक हित निदेशक को कंपनी अधिनियम, 2013 में निर्दिष्ट सिर्फ बैठक शुल्क का भुगतान किया जायेगा.
- 1.2 एक्सचेंज बोर्ड के अनुमोदन के पश्चात सार्वजनिक हित निदेशकों के नाम सेबी को अग्रेषित किये जायेंगे. अंशधारकों का अनुमोदन आवश्यक नहीं होगा. सार्वजनिक हित निदेशकों की प्रत्येक रिक्ति के लिये कम से कम दो नाम प्रस्तुत किये जायेंगे.
- 1.3 एक्सचेंज यह सुनिश्चित करेगा कि सार्वजनिक हित निदेशक कार्य के विविध क्षेत्रों से चुने जाते हैं. जब विशेष व्यक्ति को सार्वजनिक हित निदेशक के तौर पर प्रस्तावित करने का निर्णय लिया जाता है, तब एक्सचेंज निम्नलिखित कारकों को भी ध्यान में लेता है:—
 - ए) कानून, वित्त, लेखें, अर्थशास्त्र, प्रबंधन, प्रशासन या वित्तीय बाजार के प्रासंगिक किसी अन्य क्षेत्र में योग्यता.
 - बी) कम से कम एक व्यक्ति जिसे वित्त/लेखों में अनुभव एवम पृष्ठभूमि शामिल हो सकती है, जिसे अंकेक्षण समिति में सम्मिलित होने के लिये वरीयता दी जा सकती है.

- सी) व्यक्ति वर्तमान में प्रतिष्ठित संगठन में विश्वास एवम जिम्मेदारी के पद को धारण कर रहा है या व्यक्ति जो इस तरह के पद से सेवानिवृत्त हुआ है.
- डी) उस व्यक्ति को जिसके स्टॉक एक्सचेंज की वाणिज्यिक संविदाओं एवम वित्तीय मामलों में हितबद्ध पद पर होने की संभावना होती है, उसे छोड़ा जा सकता है. वह व्यक्ति जो बाजार में नियमित व्यापारी/सट्टेबाज या एक्सचेंज की प्रोत्साहक ईकाई के बोर्ड में निदेशक होता है, उसे भी छोड़ा जा सकता है.
- 1.4 सार्वजनिक हित निदेशक किसी अन्य स्टॉक एक्सचेंज या उसके सहायक कंपनियों के बोर्ड पर एक ही समय में नहीं होगा.
- 1.5 सार्वजनिक हित निदेशक प्रासंगिक कानूनों, आचरण संहिता, आचार संहिता इत्यादि का पालन करेगा एवम एक्सचेंज को यह वचन देगा कि वे अपनी भूमिका, जिम्मेदारियों एवम दायित्वों के प्रति सचेत है. एक्सचेंज प्रति वर्ष प्रत्येक सार्वजनिक हित निदेशक को कम से कम सात दिनों का प्रशिक्षण भी प्रदान करेगा.
- 1.6 सार्वजनिक हित निदेशक के कार्यकाल के विस्तार या नये सार्वजनिक हित निदेशक की नियुक्ति के संबंध में, एक्सचेंज कार्यकाल की समाप्ति से दो महीने पहले सेबी को आवेदन करेगा. अन्य निर्धारित आवश्यकताओं के अतिरिक्त, सार्वजनिक हित निदेशक के कार्यकाल के विस्तार के लिये आवेदन के साथ विभिन्न अनिवार्य समितियों की सभाओं में उसकी उपस्थिति का विवरण एवम स्टॉक एक्सचेंज निदेशकों के बोर्ड पर विराम की अवधि में छूट देने के लिये कारणों के साथ विस्तार के लिये आवेदन किया जायेगा.
- 1.7 सार्वजनिक हित निदेशक नियमित आवर्तन द्वारा सेवानिवृत्ति के अधीन नहीं होगा.
- 1.8 विद्यमान सार्वजनिक हित निदेशक, पद को धारण करना जारी रखेंगे, जब तक उसके स्थान पर नये सार्वजनिक हित निदेशक नियुक्त किया जाता है.

126सी.

- (1) कोई भी व्यापार सदस्य या समाशोधन सदस्य या उनके सहयोगी एवम अभिकर्ता एक्सचेंज के निदेशक बोर्ड में नहीं होंगे.
- (2) विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक को एक्सचेंज के निदेशक बोर्ड में कोई भी प्रतिनिधित्व नहीं होगा.

अंशधारक निदेशक

126डी.

- 1.1 अंशधारक निदेशक के तौर पर नियुक्त होने के लिये व्यक्तियों के नाम सबसे पहले, अनुमोदन के लिये यह सेबी को प्रस्तुत करने से पहले अंशधारकों के अनुमोदन द्वारा अग्रेषित करते हुए एक्सचेंज के निदेशकों के बोर्ड द्वारा अनुमोदित किये जायेंगे.
- 1.2 अंशधारक निदेशकों के चुनाव, नियुक्ति, कार्यकाल, त्यागपत्र, अवकाश इत्यादि की रीति कंपनी अधिनियम, 2013 द्वारा शासित की जायेगी, इसके अतिरिक्त विशेष रूप से एस.ई.सी. सी. विनियमों या प्रतिभूतियां संविदाएं (विनियमन) अधिनियम, 1956, इसके अंतर्गत जारी परिपत्रकों के अनुसरण में शासित किया जायेगा.

निदेशकों के कुंजी प्रबंधन कमियों के लिये आचरण संहिता

126ई.

- 1.1 एक्सचेंज का प्रत्येक निदेशक आचरण संहिता का पालन करेगा.
- आचरण संहिता निम्न के अंतर्गत है:—
- I. सभाएं एवम कार्यवृत्त.
- एक्सचेंज का प्रत्येक निदेशक होगा —
- ए) किसी विषय मामले पर विचार-विमर्श में सहभागिता नहीं करेगा, जिसमें हितों कोई संघर्ष विद्यमान हो या उत्पन्न होता है, चाहे धन-संबंधी या अन्यथा, एवम इस तरह

के मामलों में इसका खुलासा किया जायेगा एवम सभा के कार्यवृत्त में अभिलिखित किया जायेगा,

- बी) सभा के दरम्यान कार्यसूची के प्रसार के लिये प्रोत्साहित नहीं करेगा, जब तक परिस्थितियां इसके लिये आवश्यक होती हैं,
- सी) मसौदा कार्यवृत्त पर अपनी टिप्पणियां प्रस्तावित करेगा एवम यह सुनिश्चित करेगा कि यह अंतिम कार्यवृत्त में सम्मिलित की गई है,
- डी) आगामी सभा में अनुमोदन के लिये रखे जा रहे पूर्व सभा के कार्यवृत्त पर जोर डालेगा,
- ई) बोर्ड के अन्य सदस्यों के साथ परामर्श में प्रत्येक बोर्ड सभा में नियत आगामी सभा की तिथी के लिये प्रयास करेगा,
- एफ) यह सुनिश्चित करने के लिये प्रयास करेगा कि सभा के कार्यवृत्त की सभी चीजों के मामले में जो समय की कमी के लिये सम्मिलित नहीं थी, बची हुई चीजों पर विचार करने के लिये पंद्रह दिनों के अंदर आगामी सभा आयोजित की जायेगी.

II. सार्वजनिक हित निदेशकों के लिये आचरण संहिता.

- ए) उपरोक्त अनुच्छेद (I) में कथित दशाओं के अतिरिक्त, एक्सचेंज के सार्वजनिक हित निदेशक सभी बोर्ड सभाओं में उपस्थिति होने का प्रयास करेंगे एवम वे कार्यालय रिक्त करने के लिये दायी होंगे, यदि वे बोर्ड की लगातार तीन सभाओं में अनुपस्थित बने रहते हैं या एक कैलेण्डर वर्ष में बोर्ड की कुल सभाओं के 75 प्रतिशत उपस्थित नहीं होते हैं.
- बी) सार्वजनिक हित निदेशक नाजुक मामलों पर विचारों का आदान-प्रदान करने के लिये छः महीनों में कम से कम एक बार पृथक से मिलेंगे.

III. रणनीतिक योजना.

एक्सचेंज का प्रत्येक निदेशक करेगा —

- ए) एक्सचेंज के उत्तम हित में रणनीति के निरूपण एवम निष्पादन में सहभागिता एवम बोर्ड स्तर पर सक्रिय निर्णय लेने की ओर योगदान करेगा.
- बी) उनके अनुभव एवम एक्सचेंज की विशेषज्ञता का लाभ देना एवम निर्णयों की रणनीतिक योजना एवम निष्पादन में सहायता प्रदान करेगा.

IV. नियामक अनुपालन.

एक्सचेंज का प्रत्येक निदेशक —

- ए) यह सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा कि भारतीय प्रतिभूतियां एवम एक्सचेंज बोर्ड अधिनियम, 1992, प्रतिभूतियां संविदाएं (विनियमन) अधिनियम, 1956, इसके अंतर्गत गठित नियम एवम विनियम एवम परिपत्रक, समय-समय पर सेबी द्वारा जारी निर्देशों के सभी प्रावधानों का एक्सचेंज पालन करता है,
- बी) सभी स्तरों पर अनुपालन का प्रयास ताकि नियामक प्रणाली किसी तरह से उल्लंघनग्रस्त नहीं होती है,
- सी) यह सुनिश्चित करने का प्रयास करना कि सुधारात्मक कार्यवाही करने के लिये सेबी द्वारा अपेक्षित समय सीमा को सम्मान देने के लिये एक्सचेंज सहगामी कदम उठाता है,
- डी) बोर्ड की सभा में किसी भी निर्णय को समर्थन नहीं करेगा जो निवेशकों के हितों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकता है एवम सेबी के इस तरह के किसी निर्णय को तत्काल प्रतिवेदित करेगा.

V. सामान्य जिम्मेदारियां

एक्सचेंज का प्रत्येक निदेशक करेगा —

- ए) निवेशकों की शिकायतों का निवारण करने को प्राथमिकता देगा एवम निष्पक्ष व्यापार व्यवहार को प्रोत्साहित करेगा ताकि एक्सचेंज प्रतिभूति बाजार के विकास के लिये एक ईजन बन जाता है,
- बी) पेशेवर क्षमता, दृढ़ता, निष्पक्षता, निपुणता एवम प्रभावशीलता के साथ जारी विनियम का विश्लेषण एवम प्रशासन करने का प्रयास करेगा,
- सी) एक्सचेंज द्वारा अपने नियमों या कंपनी के विधान के अनुसार समय-समय पर आवश्यक तौर पर प्रतिभूतियों में स्वामित्व/व्यवहार का आवश्यक खुलासा/ कथन प्रस्तुत करेगा,
- डी) जब तक कानून द्वारा अन्यथा आवश्यक नहीं होता है, गोपनीयता को बनाये रखेगा एवम अपने कर्तव्य के पालन में प्राप्त किसी सूचना को प्रकट/खुलासा नहीं करेगा एवम इस तरह की किसी भी सूचना का उपयोग व्यक्तिगत लाभ के लिये नहीं करेगा,
- ई) व्यक्तिगत अखंडता, सत्यनिष्ठा, ईमानदारी एवम जनता के विश्वास को प्रेरित करने के क्रम में अपने कर्तव्यों का पालन करने में धैर्य रखेगा एवम अपनी जिम्मेदारियों के लिये अपमानपूर्ण कार्यों में संलिप्त नहीं रहेगा,
- एफ) अपने कर्तव्यों का स्वतंत्रतापूर्ण एवम उद्देशपूर्ण तरीके से कार्यान्वयन करेगा एवम उन गतिविधियों से बचेगा जो उनकी स्वतंत्रता या निष्पक्षतावाद या कार्यालयीन कर्तव्यों को खराब कर सकता है, या खराब किया जाना दिख सकता है,
- जी) अपने कर्तव्यों का कार्यान्वयन सकारात्मक रवैये से करेगा एवम खुली बातचीत, रचनात्मकता, समर्पण एवम सहानुभूति को रचनात्मक समर्थन देगा,
- एच) नैतिक अधमता, बेईमानी, धोखा, छल या मिथ्या निरूपण या एक्सचेंज के प्रशासन के लिये हानिकारक किसी अन्य कार्य में सम्मिलित किसी कार्य में संलिप्त नहीं रहेगा,
- 1.2 एक्सचेंज का प्रत्येक निदेशक एवम मुख्य प्रबंधन कर्मी इसके अंतर्गत निर्धारित आचार संहिता पालन करेगा:

आचार संहिता

I. उद्देश्य एवम अंतर्निहित सिद्धान्त.

एक्सचेंज के निदेशकों एवम मुख्य प्रबंधन कर्मियों के लिये आचार संहिता इन निदेशकों एवम मुख्य प्रबंधन कर्मियों द्वारा पालन किये जाने के लिये व्यावसायिक/पेशेवर संहिता के न्यूनतम स्तर की ओर निष्पक्ष और पारदर्शी बाजार की स्थापना करेगा. आचार संहिता निम्नलिखित आधारभूत सिद्धान्तों पर आधारित होती है:

- एक्सचेंज एवम निवेशकों से संबंधित मामलों के साथ व्यवहार करने में निष्पक्षता एवम पारदर्शिता.
- नियामक अभिकरण/एक्सचेंज द्वारा निर्धारित सभी कानूनों/नियमों/विनियमों का अनुपालन.
- कर्तव्यों के निष्पादन में यथोचित परिश्रम करना.
- निदेशकों/मुख्य प्रबंधन कर्मियों के स्वहित एवम एक्सचेंज एवम निवेशकों के हितों के मध्य हितों के टकराव से बचना.

II. आचार समिति.

इस संहिता के कार्यान्वयन की देखरेख के लिये, आचार समिति संबंधित निदेशकों के बोर्ड के अंतर्गत एक्सचेंज द्वारा गठित की जायेगी.

III. सामान्य मानक.

- ए) निदेशक एवम मुख्य प्रबंधन कर्मी आचार जिम्मेदारियों को समझने एवम अधिक से अधिक जागरूकता को बढ़ावा देने का प्रयास करेंगे.

- बी) निदेशक एवम मुख्य प्रबंधन कर्मी अपने कार्यों के संचालन में व्यवसायिक ईमानदारी के उच्च मानकों एवम व्यापार के न्यायोचित एवम न्याससंगत सिद्धान्तों का अवलोकन करेंगे.
- सी) व्यावसायिक जीवन में निदेशकों एवम मुख्य प्रबंधन कर्मियों का आचरण अनुकरणीय होना चाहिये जो एक्सचेंज के अन्य सदस्यों के लिये मानक निर्धारित करेगा.
- डी) निदेशक एवम मुख्य प्रबंधन कर्मी एक्सचेंज के कार्यकारी या प्रशासनिक स्टाफ, एक्सचेंज के तकनीकी या सेवा प्रदाताओं एवम विक्रेताओं का समर्थन करने/प्राप्त करने में अपने पद का उपयोग नहीं करेंगे.
- ई) निदेशक एवम मुख्य प्रबंधन कर्मी कोई ऐसा कार्य करने के लिये प्रतिबद्ध नहीं होंगे जो एक्सचेंज की प्रतिष्ठा को खतरे में डालेगा.
- एफ) एक्सचेंज के निदेशक, समिति सदस्य एवम मुख्य प्रबंधन कर्मी प्रतिभूति बाजार के लिये लागू सभी नियमों एवम विनियमों का पालन करेंगे.

IV. एक्सचेंज के मुख्य प्रबंधन कर्मियों द्वारा प्रतिभूतियों में व्यवहारों का प्रकटीकरण.

- ए) एक्सचेंज के मुख्य प्रबंधन कर्मी प्रतिभूतियों में अपने सभी व्यवहारों, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष को बोर्ड के निदेशकों/आचार समिति/अनुपालन अधिकारी को आवधिक आधार पर (या मासिक आधार पर) एक्सचेंज द्वारा निर्धारित तौर पर प्रकटीकरण करेंगे.
- बी) प्रतिभूति में व्यवहार भी प्रतिभूतियों के लिये व्यापारिक प्रतिबंध के अधीन होगा, जिसके संबंध में, एक्सचेंज के मुख्य प्रबंधन कर्मी के पास गैर-सार्वजनिक मूल्य संवेदनशील जानकारी हो सकती है. इस संबंध में भारतीय प्रतिभूति एवम एक्सचेंज बोर्ड (भेदिया व्यापार का प्रतिबंध) विनियम, 1992 के अंतर्गत निर्धारित आवश्यकताओं को संदर्भित किया जा सकता है.
- सी) सभी लेनदेन निवेश प्रकृति एवम प्रकृति से गैर-सट्टा होने चाहिये. इस दिशा में, सभी खरीदी गई प्रतिभूतियां कम से कम 60 दिनों से पहले की अवधि के लिये धारित की जानी आवश्यक है, जब वे बेची जाती है. यद्यपि, विशिष्ट/असाधारण परिस्थितियों में, इस संबंध में अपनी संतुष्टि को लिखित में अभिलिखित करने के पश्चात इस दशा को अस्वीकार करने के लिये अनुपालन अधिकारी से पूर्व-समाशोधन प्राप्त करके किसी भी विक्रय को प्रभावित किया जा सकता है.

स्पष्टीकरण: इस संहिता के उद्देश्यों के लिये 'प्रतिभूतियां' में म्यूच्यूल फंड यूनिट्स सम्मिलित नहीं होंगे.

V. स्टॉक एक्सचेंज के निदेशकों द्वारा प्रतिभूतियों में व्यवहारों का प्रकटीकरण.

- ए) निदेशकों एवम उनके परिवारों द्वारा प्रतिभूतियों में किये गये सभी लेनदेनों का प्रकटीकरण एक्सचेंज के निदेशकों के बोर्ड को किया जायेगा.
- बी) सभी निदेशक उनके द्वारा फर्मों/कॉर्पोरेट संस्थाओं द्वारा संचालित व्यापार का भी प्रकटीकरण आचार समिति को करेंगे, जिसमें वे बीस प्रतिशत या अधिक लाभकारी हित धारण करते हैं.
- सी) निदेशक जो भारत सरकार के मनोनीत व्यक्ति या भारत सरकार के वैधानिक निकायों या वित्तीय संस्थाओं के मनोनीत व्यक्ति है एवम उनके स्वयं की संहिता द्वारा शासित होते हैं, उनको इन आवश्यकताओं से छूट दी जायेगी.

VI. हितों के टकराव से बचना.

- ए) एक्सचेंज की किसी समिति का कोई सदस्य या बोर्ड का निदेशक किसी व्यक्ति/मामले के संबंध में किसी निर्णय प्रक्रिया/न्यायिक निर्णय में सहभागिता नहीं करेगा, जिससे वह किसी भी तरह से, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, संबंधित या हितधारक होता है.
- बी) चाहे वहां पर मामले में हितों का कोई टकराव होता है या नहीं होता है, निदेशकों के बोर्ड द्वारा निर्णय लिया जाना चाहिये.

VII. लाभप्रद हितों का प्रकटीकरण.

सभी निदेशक एवम मुख्य प्रबंधन कर्मी निदेशकों के बोर्ड को पदभार ग्रहण करने पर एवम कार्यालय में उनके कार्यकाल के दरम्यान प्रकटीकरण करेंगे, जब भी निम्नलिखित उत्पन्न होती है:—

- ए) स्वयं एवम परिवार के सदस्यों की कोई प्रत्ययी रिश्ते एवम स्वयं एवम परिवार के सदस्यों की किसी व्यापारी सदस्य या समाशोधन सदस्य का निदेशक पद/भागीदारी,
- बी) उस मामले में अंशधारिता, जहां प्रतिभूति बाजारों से संबंधित किसी सूचीबद्ध कंपनी या अन्य कंपनी में निदेशक की अंशधारिता, प्रत्यक्ष या अपने परिवार के माध्यम से 5 प्रतिशत से अधिक होती है,
- सी) कोई अन्य व्यवसायिक हित.

VIII. एक्सचेंज के दिन—प्रतिदिन के कार्यों में अध्यक्ष एवम निदेशकों की भूमिका.

- ए) अध्यक्ष एवम निदेशक एक्सचेंज के दिन—प्रतिदिन के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे एवम वे अपनी भूमिका को नीतिगत मामलों पर एवम मामलों के लिये निर्णय लेने तक सीमित करेंगे, जैसा भी निदेशकों को बोर्ड निर्णय ले सकता है.
- बी) अध्यक्ष एवम निदेशक एक्सचेंज के कर्मचारियों को उनके दिन—प्रतिदिन की गतिविधियों को प्रभावित करने से बचेंगे.
- सी) अध्यक्ष एवम निदेशक कर्मचारियों की नियुक्ति एवम पदोन्नति में प्रत्यक्ष तौर पर संलिप्त नहीं होंगे, जब तक निदेशकों के बोर्ड द्वारा विशेष रूप से ऐसा निर्णय नहीं लिया जाता है.

IX. सूचनाओं तक पहुंच

- ए) निदेशक सिर्फ विशिष्ट समितियों के भाग के तौर पर सूचनाओं के लिये बुला सकते हैं या जैसा निदेशकों के बोर्ड द्वारा अधिकृत किया जा सकता है.
- बी) वहां पर निर्धारित प्रणाली होगी जिसके माध्यम से सूचनाएं स्थानांतरित होगी एवम आगे वहां इसका लेखा परीक्षा होगी. गोपनीय दस्तावेजों/सूचनाओं का कोई भी पुनःप्राप्ति यथोचित रूप से अभिलिखित की जायेगी.
- सी) इस तरह की सभी सूचनाएं, विशेष रूप से जो गैर—सार्वजनिक या मूल्य संवेदनशील होती है, उनको गोपनीय रखा जायेगा एवम किसी व्यक्तिगत प्रतिफल/लाभ के लिये उपयोग में नहीं ली जायेगी.
- डी) एक्सचेंज के व्यवसाय/संचालनों से संबंधित कोई भी सूचना, अपने कर्तव्यों के कार्यान्वयन के दरम्यान निदेशकों/मुख्य प्रबंधन कर्मियों की जानकारी में आती है, उसका किसी तीसरे पक्ष को प्रकटीकरण नहीं किया जायेगा एवम इसे अपने कर्तव्यों के कार्यान्वयन को छोड़कर किसी अन्य प्रकार से उपयोग में नहीं लिया जायेगा.

X. पद का दुरुपयोग.

निदेशक/समिति सदस्य स्वयं एवम अपने परिवार के सदस्यों के लिये संगठन से व्यवसाय या कोई आर्थिक लाभ अपने पद का उपयोग करके प्राप्त नहीं करेंगे.

XI. प्रक्रियाओं को निर्धारित करने के लिये आचार समिति.

- ए) आचार समिति संहिता के कार्यान्वयन के लिये प्रक्रियाएं निर्धारित करेगी एवम संहिता के अंतर्गत आवश्यक प्रकटीकरण के लिये प्रतिवेदन प्रपत्रों को निर्धारित करेगी.
- बी) अनुपालन अधिकारी आचार समिति द्वारा निर्धारित आवश्यकताओं को निष्पादित करेगा.

जब इस संहिता के उद्देश्य बाजार अखंडता एवम निवेशकों के भरोसे के स्तर में वृद्धि करती है, तब इस पर जो दिया जाता है कि लिखित आचार संहिता उच्च आचार मानकों का अनुपालन करने की पूर्ण गारंटी नहीं हो सकती है. इसे सिर्फ तभी पूरा किया जा सकता है

यदि एक्सचेंज के निदेशक एवम मुख्य प्रबंधन कर्मी स्वयं शब्दों एवम भावों से प्रणाली की निष्पक्षता एवम अखंडता को बढ़ाने के लिये प्रतिबद्ध होते हैं.

प्रथम निदेशक

127. (1) नीचे दिए गए नाम वाले व्यक्ति कंपनी के प्रथम निदेशक होंगे:—

- 1) श्री पुरानम हयाग्रीवा रविकुमार
- 2) श्री रवी धरम नारायण
- 3) श्री योगेश चंद नंदा

(2) प्रथम निदेशक पद धारण करेंगे जब तक जब कंपनी की प्रथम वार्षिक साधारण सभा का समापन होता है, बशर्ते कि कंपनी की प्रथम वार्षिक साधारण सभा के समापन से पहले उपरोक्त कथित प्रथम निदेशक के किसी पद की रिक्ति उत्पन्न होती है, तो इस तरह की रिक्ति को निदेशकों द्वारा अपनी सभा में भरा जा सकता है.

प्रबंध निदेशक

128. 1.1 एक्सचेंज के प्रबंध निदेशक की नियुक्ति, नियुक्ति का नवीनीकरण एवम सेवाओं की समाप्ति सेबी के पूर्व अनुमोदन के अधीन होगा.

1.2 एक्सचेंज समय-समय पर सेबी द्वारा दिशा-निर्देशों के अधीन एक्सचेंज प्रबंधन निदेशक के चुनाव/नियुक्ति से संबद्ध योग्यता, नियुक्ति की रीति, नियुक्ति की शर्तें एवम दशाओं एवम अन्य प्रक्रियागत औपचारिकताओं को पूरा करेगा.

1.3 प्रबंध निदेशक की नियुक्ति कम से कम तीन वर्ष एवम अधिकतम पांच वर्ष के कार्यकाल के लिये होगी.

1.4 एक्सचेंज का प्रबंध निदेशक नहीं करेगा:—

ए) एक्सचेंज का अंशधारक या अंशधारकों का सहयोगी एक्सचेंज के सहयोगी का अंशधारक नहीं होगा,

बी) व्यापारिक सदस्य या समाशोधन सदस्य, या उसका सहयोगी या अभिकर्ता, या व्यापार सदस्य या समाशोधन सदस्य का अंशधारक या व्यापार सदस्य या समाशोधन सदस्य के सहयोगी या अभिकर्ता का अंशधारक, या

सी) एक्सचेंज के सहायक में या एक्सचेंज के साथ सहयोगी किसी अन्य कंपनी में कोई समवर्ती पद धारण नहीं करेगा.

बशर्ते कि एक्सचेंज का प्रबंध निदेशक निदेशकों के बोर्ड पर नियुक्त किया जा सकता है, किन्तु एक्सचेंज के अनुषंगी के प्रबंध निदेशक के तौर पर नहीं.

1.5 सेबी द्वारा जारी निर्देशों, दिशा-निर्देशों एवम अन्य आदेशों, या नियमों, कंपनी का विधान, एक्सचेंज के उपनियमों एवम विनियमों को प्रभाव देने में असफलता के लिये सेबी के पूर्व अनुमोदन सहित निदेशकों के बोर्ड द्वारा निष्कासन या सेवाओं की समाप्ति के लिये प्रबंधन निदेशक दायी होगा.

1.6 सेबी स्वयं संज्ञान लेकर प्रबंध निदेशक की नियुक्ति को निष्कासित या समाप्त कर सकती है, यदि प्रतिभूति बाजार के हित में इसे उचित समझा जाता है.

बशर्ते कि कोई भी प्रबंध निदेशक निष्कासित नहीं किया जायेगा जब तक उसको सुनवाई का उचित अवसर प्रदान नहीं किया गया है.

1.7 सी.ई.ओ./प्रबंध निदेशक/कार्यकारी निदेशक के चुनाव के लिये एक्सचेंज समिति का गठन करेगा, जैसा भी मामला हो सकता है. प्रबंध निदेशक का चयन पूंजी बाजार/वित्त/प्रबंधन में पर्याप्त प्राप्त एवम पर्याप्त अनुभव वाले व्यक्तियों में से कम से कम एक राष्ट्रीय समाचारपत्र के सभी संस्करणों में खुले विज्ञापन के माध्यम से किया जायेगा. पुनः नियुक्ति या विस्तार के मामले में, इस तरह के प्रबंध निदेशक के अंतिम कार्य दिवस से दो महीने पहले एक्सचेंज सेबी को आवेदन करेगा.

- 1.8 अनपेक्षित कारणों से प्रबंध निदेशक की रिक्ति के मामले में, एक्सचेंज त्यागपत्र प्रस्तुत करने की तिथी या पद के इस तरह से खाली होने की तिथी से 60 दिनों के अंदर सेबी को नये नाम अग्रेषित करेगा.
- 1.9 प्रबंध निदेशक की नियुक्ति के लिये सेबी के अनुमोदन को प्राप्त करते समय, एक्सचेंज सेबी से प्रबंध निदेशक के मुआवजे के लिये अनुमोदन प्राप्त करेगा. एक्सचेंज के प्रबंध निदेशक का मुआवजा सेबी द्वारा निर्धारित निम्नलिखित मुआवजा मानदंडों के अनुसरण में होगा:
- ए) परिवर्तनशील वेतन घटक कुल वेतन का $1/3$ से अधिक नहीं होगा.
- बी) 50 प्रतिशत को परिवर्तनशील वेतन तीन वर्षों के पश्चात आस्थगित आधार पर अदा किया जायेगा.
- सी) एक्सचेंज में ई.एस.ओ.पी. एवम अन्य इक्विटी से जुड़े दस्तावेजों में मुख्य प्रबंधन कर्मी के लिये मुआवजे के भाग का गठन नहीं होगा.
- डी) मुआवजा नीति में कर लगाकर वसूली की व्यवस्था होगी.
- उपरोक्त के अतिरिक्त, निम्नलिखित पर भी विचार किया जायेगा:
- एक्सचेंज की वित्तीय दशा/स्वास्थ्य.
 - समान पद में कर्मचारियों को देय मुआवजे का औसत स्तर.
 - अल्पावधि पर अत्यधिक जोखिम लेने के लिये प्रोत्साहन राशि से संबंधित किन्हीं प्रावधानों को शामिल नहीं किया जाना चाहिये.
 - एक्सचेंज का राजस्व, शुद्ध लाभ.
 - उद्योग मानकों के लिये तुलनीय.
 - प्रबंध निदेशक की भूमिका एवम जिम्मेदारियां.
 - आवधिक समीक्षा.
- 1.10 उपरोक्त कथित प्रावधान भी लागू होंगे, यदि एक्सचेंज मुख्य कार्यकारी अधिकारी को नियुक्त करता है, जो प्रबंध निदेशक नहीं होता है.

वैकल्पिक निदेशक

129. (1) अधिनियम की धारा 313 के अधीन, निदेशकों का बोर्ड निदेशक (इसके पश्चात इस अनुच्छेद में 'मूल निदेशक' से संबोधित किया जायेगा) का कार्य करने के लिये वैकल्पिक निदेशक को नियुक्त कर सकता है.
- (2) उप-अनुच्छेद (1) के अंतर्गत नियुक्त वैकल्पिक निदेशक मूल निदेशक से अनुमति प्राप्त इस तरह की अवधि से ज्यादा के लिये पद धारण नहीं करेगा, जिसके स्थान पर उसको नियुक्त किया गया है एवम पद को खाली करेगा यदि एवम जब मूल निदेशक पद पर वापिस लौटता है, जिसमें बोर्ड की सभा साधारणतः आयोजित की जाती है.
- (3) यदि मूल निदेशक के पद का कार्यकाल उससे पहले निर्धारित किया जाता है जब उपरोक्त कथित तौर पर वापिस लौटता है, अन्य नियुक्ति के अभाव में सेवानिवृत्त होने वाले निदेशकों की स्वचालित पुनः नियुक्ति के लिये कोई प्रावधान मूल पर लागू होगा एवम वैकल्पिक निदेशक पर लागू नहीं होगा.

अतिरिक्त निदेशक एवम आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिये नियुक्त निदेशक

130. निदेशक को किसी भी समय किसी भी व्यक्ति को निदेशक के तौर पर नियुक्त करने की शक्ति होगी, या तो आकस्मिक रिक्ति को भरकर या अतिरिक्त निदेशक के तौर पर, किन्तु निदेशकों की कुल संख्या अनुच्छेद द्वारा निर्धारित अधिकतम संख्या से अधिक नहीं होगी. अतिरिक्त निदेशक के तौर पर नियुक्त कोई भी निदेशक सिर्फ कंपनी की आगामी वार्षिक साधारण तक पद धारण करेगा एवम तब वह निदेशक के तौर पर नियुक्ति के लिये हकदार होगा. आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिये

नियुक्त कोई भी निदेशक सिर्फ उस तिथि तक पद को धारण करेगा जिसके लिये निदेशक ने उसके स्थान पर उसको नियुक्त किया है, पद धारण करेगा, जब यह खाली नहीं है।

निदेशक की अंश योग्यता

131. किसी भी निदेशक को कंपनी के किसी योग्यता अंश को धारण की आवश्यकता होगी।

निदेशक का पारिश्रमिक

132. (1) निदेशकों को देय प्रतिफल, प्रबंध निदेशक/पूर्णकालिक निदेशक को सम्मिलित करते हुए, अधिनियम एवम इसके अनुच्छेदों के लागू प्रावधानों उसके एवम कंपनी के मध्य किसी संविदा के अधीन होगा, जो कि समय-समय पर साधारण सभा में कंपनी द्वारा निर्धारित की जायेगी एवम निश्चित वेतन एवम/या कंपनी के लाभों पर अनुलाभ या कमीशन या इस तरह के लाभों में सहभागिता द्वारा, या अधिनियम द्वारा स्पष्ट रूप से प्रतिबंधित नहीं किसी या इन सभी माध्यमों द्वारा निर्धारित।

(2) बोर्ड या इसकी समिति की सभा में भाग लेने के लिये निदेशक को देय फीस समय-समय पर निदेशकों के बोर्ड द्वारा निश्चित की जायेगी एवम इस तरह की अधिमतम सीमा के अधीन होगी, जैसा अधिनियम या केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित किया जा सकता है।

निदेशक का उस स्थान का नागरिक नहीं होने पर जहां पर सभा आयोजित की जाती है, वह अतिरिक्त मुआवजा प्राप्त कर सकता है

133. निदेशक किसी निदेशक को अनुमति दे सकते हैं एवम भुगतान कर सकते हैं, जो उस स्थान का निवासी नहीं है, सभा आयोजित की गई है एवम जो इस तरह के स्थान पर सभा में भाग लेने के लिये आयेगा, इन अनुच्छेदों की शर्तों में उनके निकाय या निदेशकों द्वारा नियुक्त समिति के किसी सदस्य या सदस्यों को अदा किया जाने वाला उसके प्रतिफल के अतिरिक्त निदेशक के तौर पर इस तरह की राशि में यात्रा, होटल एवम अन्य खर्चों के लिये उचित मुआवजे के लिये विचार किया जा सकता है।

अतिरिक्त सेवा इत्यादि के लिये निदेशक को विशेष प्रतिफल

134. यदि निदेशक को अतिरिक्त सेवा देने के लिए या विशेष स्थान पर जाने या रहने के लिए या अन्यथा कंपनी के किसी उद्देश्य के लिये विशेष कार्य करने के लिये बुलाया जाता है, तो कंपनी इस तरह की निदेशक का प्रतिफल या तो राशि निर्धारित करके या अन्यथा कर सकती है, जैसा भी निदेशकों द्वारा निर्धारित किया जा सकता है एवम इस तरह का प्रतिफल या तो इसके अतिरिक्त हो सकता है या उपरोक्त प्रदान किये जा रहे उसके प्रतिफल के लिये प्रतिस्थापन में हो सकता है।

कोई रिक्ति होने के बावजूद भी निदेशक कार्य कर सकते हैं

135. अधिनियम के प्रावधानों के अधीन, निरंतर निदेशक अपने निकाय में कोई रिक्ति होने के बावजूद भी कार्य कर सकते हैं, किन्तु यदि न्यूनतम निर्धारित की गई संख्या से संख्या नीचे होती है, तो निदेशक आपात स्थिति को स्वीकार नहीं करेगा या रिक्तियों को भरने के उद्देश्य के लिये या कंपनी की साधारण सभा को बुलाने के लिये, लंबे समय तक कार्य करेगा, जैसा संख्या न्यूनतम से नीचे होती है एवम वे अनुच्छेद 154 के प्रावधानों के अंतर्गत आवश्यक कोरम के अभाव के बावजूद भी इस तरह कार्य कर सकते हैं।

पद खाली करने वाले निदेशक

136. (1) इसमें नीचे उप-अनुच्छेद (2) में निहित प्रावधानों के अधीन, निदेशक का पद खाली होगा यदि —

- ए) वह सक्षम क्षेत्राधिकार के न्यायालय द्वारा अस्वस्थ मस्तिष्क का पाया जाता है, या
- बी) वह दिवालिया होने का निर्णय किये जाने के लिये लागू होता है, या
- सी) उसे दिवालिया घोषित करने का निर्णय दिया गया है, या
- डी) उसे न्यायालय द्वारा नैतिक अधमता के किसी अपराध में संलिप्तता के लिये अपराधी ठहराया हुआ है एवम इस संबंध में उसे कम से कम छः महीनों के लिये जेल की सजा दी गई है, या

- ई) वह इस तरह की कॉल्स के भुगतान के लिये निर्धारित अंतिम तिथी से छः महीनों अंदर अपने स्वयं द्वारा या संयुक्त रूप से धारण अंशों के संबंध में किसी कॉल का भुगतान करने में असफल रहता है, जब तक केन्द्र सरकार ने सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस तरह की असफलता द्वारा उत्पन्न अयोग्यता के कारण निष्कासित नहीं किया गया है.
- एफ) वह स्वयं निदेशकों की लगातार तीन सभाओं में या तीन महीनों की लगातार अवधि के लिये निदेशकों की सभी सभाओं में, जो भी ज्यादा हो, निदेशकों के बोर्ड से अनुपस्थिति की छुट्टी के बिना अनुपस्थित रहता है, या
- जी) वह (चाहे स्वयं द्वारा या उसके लाभ के लिये उसके खाते पर किसी अन्य व्यक्ति द्वारा) या कोई फर्म, जिसमें वह भागीदार है या कोई निजी कंपनी जिसका वह निदेशक है, अधिनियम की धारा 295 के उल्लंघन में कंपनी से ऋण या ऋण के लिये गारंटी या प्रतिभूति स्वीकार करता है, या
- एच) अधिनियम की धारा 299 के उल्लंघन में कार्य करता है, या
- आई) वह अधिनियम की धारा 203 के अंतर्गत न्यायालय के आदेश द्वारा अयोग्य बनता है, या
- जे) उसे उसके पद की अवधि की समाप्ति से पहले कंपनी के साधारण प्रस्ताव द्वारा अधिनियम की धारा 284 के अनुसरण में निष्कासित किया जाता है, या
- के) वह निदेशकों या कंपनी को संबोधित करते हुए लिखित में नोटिस द्वारा पद से त्यागपत्र देता है, या
- एल) वह, उसके रिश्तेदार या भागीदार या कोई फर्म जिसमें वह या उसके रिश्तेदार भागीदार है या कोई निजी कंपनी जिसका वह निदेशक या सदस्य है, अधिनियम की धारा 314 के उल्लंघन में कंपनी या इसकी किसी सहयोगी के अंतर्गत लाभ का कोई पद धारण करता है, या
- एम) किसी पद या कंपनी में अन्य नियोजन उसके द्वारा धारण करने के प्रभाव द्वारा उसे निदेशक नियुक्त किया गया है, वह कंपनी में इस तरह के पद या अन्य नियोजन को धारण करने के लिये छोड़ता है.
- (2) उप-अनुच्छेद (1) के खण्ड (सी), (डी) एवम (आई) में कुछ भी निहित होने के बावजूद भी, इन खण्डों में संदर्भित अयोग्यता प्रभाव में नहीं ली जायेगी – (ए) न्यायिक निर्णय या सजा या आदेश की दिनांक से तीस दिनों के लिये (बी) जहां पर किसी न्यायिक निर्णय, सजा या सजा या आदेश के परिणामस्वरूप दोषसिद्धि के विरुद्ध उपरोक्त कथित तीस दिनों के अन्दर कोई अपील या याचिका अधिमानित की जाती है, जब तक उस दिनांक से सात दिनों की समाप्ति होती है, जिस पर इस तरह की अपील या याचिका का निपटारा किया गया है, या (सी) जहां पर उपरोक्त कथित सात दिनों के अंदर, न्यायिक निर्णय, सजा, दोषसिद्धि या आदेश के संबंध में आगे कोई अपील या याचिका अधिमानित की जाती है एवम अपील या याचिका को यदि अनुमति दी जाती है, जिसका परिणाम अयोग्यता के निष्कासन में होगा, जब तक इस तरह की अपील या याचिका का निपटारा किया गया है.

निदेशक द्वारा हितों का प्रकटीकरण

137. (1) कंपनी का प्रत्येक निदेशक जो किसी भी तरह से होता है, चाहे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, संबंधित होता है या संविदा या व्यवस्था में हित रखता है, या प्रस्तावित संविदा या व्यवस्था में कंपनी द्वारा या उसकी ओर से प्रवेश करता है या प्रवेश करने वाला है, तो वह निदेशकों के बोर्ड की सभा में अपने संबंध या हित की प्रकृति का प्रकटीकरण करेगा.
- (2) ए) प्रस्तावित संविदा या व्यवस्था के मामले में, उप-अनुच्छेद (1) के अंतर्गत निदेशक द्वारा किया जाने वाला आवश्यक प्रकटीकरण, बोर्ड की सभा में किया जायेगा, जिसमें संविदा या व्यवस्था में प्रवेश करने का प्रश्न सबसे पहले लिया जाता है, या यदि निदेशक उस सभा में उस दिनांक को प्रस्तावित संविदा या व्यवस्था में संबंध या हित, इस तरह से उसके संबंधित या हितबद्ध बनने के पश्चात आयोजित बोर्ड की प्रथम सभा में था.

- बी) किसी अन्य संविदा या व्यवस्था के मामले में, संविदा या व्यवस्था में संबंधित या हितबद्ध बनने वाला निदेशक उसके पश्चात आयोजित बोर्ड की प्रथम सभा में आवश्यक प्रकटीकरण करेगा.
- (3) (ए) उप-अनुच्छेद (1) एवम (2) के उद्देश्य के लिये, निदेशक द्वारा यह प्रभाव देने के लिये बोर्ड को साधारण नोटिस दिया जाता है कि वह निदेशक या विशिष्ट निगमित निकाय या कंपनी का सदस्य है या विशिष्ट फर्म का भागीदार है एवम उससे किसी संविदा या व्यवस्था में संबंधित या हितबद्ध के तौर संबंधित होने वाला है, जो कि नोटिस की तिथि के पश्चात निगमित निकाय या कंपनी या फर्म में प्रवेश कर सकती है, इस तरह से की गई किसी संविदा या व्यवस्था के संबंध में संबंध या हित का पर्याप्त प्रकटीकरण समझा जायेगा,
- (बी) इस तरह के किसी साधारण नोटिस की अवधि वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर समाप्त होगी, जिसमें यह दिया जाता है, किन्तु वित्तीय वर्ष के अंतिम महीने में ताजा नोटिस देकर उस समय आगे एक वित्तीय वर्ष की अवधि के लिये नवीनीकृत किया जा सकता है, जिसमें वह अन्यथा समाप्त होगा,
- सी) इस तरह का साधारण नोटिस एवम इसका नवीनीकरण प्रभाव में नहीं आयेगा, जब तक या तो इसे बोर्ड की सभा में नहीं दिया गया है या संबंधित निदेशक इसको सुरक्षित करने के लिये वांछित कदम नहीं उठाते हैं, कि इसको बोर्ड की प्रथम सभा में लाया गया है एवम पढ़ा गया है, उसके पश्चात जब इसे दिया जाता है.
- (4) कंपनी के साथ किसी संविदा या व्यवस्था से कोई संबंध या हित होने से कंपनी के निदेशक को प्रतिबंधित करते हुए किसी नियम के संचालन पर प्रतिकूल प्रभाव को इस अनुच्छेद में नहीं लिया जायेगा.
- (5) कंपनी या किसी अन्य कंपनी के मध्य प्रविष्ट या प्रविष्ट की जाने के लिये किसी संविदा या व्यवस्था के लिये यह अनुच्छेद लागू नहीं होगा, जहां कंपनी का कोई भी निदेशक या दो या दो से ज्यादा साथ में धारित करते हैं या अन्य कंपनी में प्रदत्त अंश पूंजी का कम से कम दो प्रतिशत धारण करते हैं.

हितबद्ध निदेशक बोर्ड की कार्यवाहियों में सहभागिता नहीं कर सकता या वोट नहीं दे सकता

138. (1) कंपनी का कोई भी निदेशक, निदेशक के तौर पर, कंपनी द्वारा या कंपनी की ओर से, किसी विचार विमर्श में भाग नहीं लेगा, या किसी संविदा या व्यवस्था पर वोट नहीं देगा या उसमें प्रवेश नहीं करेगा, यदि वह किसी भी प्रकार से, चाहे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, संविदा या व्यवस्था में संबंधित या हितबद्ध है, ना ही उसकी उपस्थिति को इस तरह के किसी विचार-विमर्श या वोट के समय कोरम गठित करने के उद्देश्य के लिये गिनी जायेगी, एवम यदि वह वोट देता है, तो उसका वोट शून्य होगा.
- (2) यह अनुच्छेद लागू नहीं होगा:—
- ए) किसी हानि के विरुद्ध क्षतिपूर्ति की किसी संविदा के लिये जो कोई या उनमें से कोई एक या अधिक, कंपनी के लिये जमानतदार होकर या बनने के कारण भुगत सकता है.
- बी) सार्वजनिक कंपनी, या निजी कंपनी के साथ किसी संविदा या व्यवस्था में प्रवेश करना या प्रवेश किया जाने वाला हो, जो सार्वजनिक कंपनी की सहयोगी होती है, जिसमें उपरोक्त कथित निदेशक के हित उसके एकमात्र निदेशक होकर समाविष्ट होते हैं, इस तरह की कंपनी का निदेशक एवम इस तरह की या इसके मूल्य के अधिक अंशों का धारक नहीं, जैसा इसे निदेशक के तौर पर नियुक्ति के लिये योग्यता के लिये अपेक्षित होता है, उसे कंपनी द्वारा इस तरह के निदेशक के तौर पर नामांकित किया गया है, या इस तरह की कंपनी की प्रदत्त अंश पूंजी के कम से कम दो प्रतिशत धारण करते हुए वह सदस्य हुआ है.

निदेशक कंपनी द्वारा प्रवर्तित कंपनियों का निदेशक हो सकता है

139. निदेशक कंपनी द्वारा प्रवर्तित किसी कंपनी का निदेशक हो सकता है या बन सकता है, या जिसमें वह विक्रेता, सदस्य या अन्यथा हितबद्ध हो सकता है, एवम अधिनियम एवम इन अनुच्छेदों के

प्रावधानों के अधीन, इस तरह कोई निदेशक इस तरह की कंपनी के निदेशक या किसी सदस्य के तौर पर कोई लाभ प्राप्त करने के लिये उत्तरदायी नहीं होगा.

निदेशकों का आवर्तन

गैर-आवर्तन निदेशक

140. सेबी द्वारा नामांकित सार्वजनिक हित निदेशकों के अलावा निदेशक वह व्यक्ति होगा जो पद की अवधि के लिये आवर्तन द्वारा निर्धारण करने के लिये दायी होता है, एवम अधिनियम के प्रावधानों के अधीन होता है, साधारण सभा में कंपनी द्वारा नियुक्त किया जायेगा.

वार्षिक सेवानिवृत्ति के लिये निदेशक, कैसे निर्धारित किया जाता है

141. प्रथम वार्षिक साधारण सभा के अतिरिक्त कंपनी की प्रत्येक वार्षिक साधारण सभा में तत्समय के लिये इस तरह के निदेशकों का 1/3 आवर्तन द्वारा सेवानिवृत्ति के लिये दायी होंगे, या यदि उनकी संख्या तीन या तीन का गुणक नहीं होता है, तब 1/3 की नजदीकी संख्या में पद से सेवानिवृत्त होंगे.

निदेशक जो सेवानिवृत्त होने हैं

142. प्रत्येक वार्षिक साधारण सभा में आवर्तन द्वारा सेवानिवृत्त होने वाले निदेशक वे होंगे जो सेवानिवृत्ति के लिये दायी होते हैं एवम जो अपनी अंतिम नियुक्ति से पद लंबे समय तक नियुक्त किये गये हैं, किन्तु व्यक्तियों के मध्य तौर पर, जो उसी दिन निदेशक बना था, जो सेवानिवृत्त होते हैं, लॉट द्वारा निर्धारित किया जायेगा (जब तक वे आपस में अन्यथा सहमत नहीं होते हैं).

सेवानिवृत्त निदेशक पुनः चुनने के लिये पात्र

143. सेवानिवृत्त निदेशक पुनः चुनने के लिये पात्र होंगे.

कंपनी में रिक्ति को भरने के लिये

144. कंपनी वार्षिक साधारण सभा में सेवानिवृत्त निदेशकों या कुछ अन्य व्यक्तियों से रिक्तियों को भर सकती है, जो उपरोक्त कथित तौर पर निदेशक सेवानिवृत्त होते हैं.

जब तक उत्तराधिकारियों की नियुक्ति होती है, तब तक सेवानिवृत्त निदेशक पद पर बने रहते हैं

145. यदि पूर्ववर्ती अनुच्छेद में प्रदान तौर पर सेवानिवृत्त निदेशक की जगह नहीं भरी जाती है एवम सभा में रिक्ति को भरने के लिये स्पष्ट रूप से प्रस्ताव पारित नहीं किया गया है, तो सभा अगले सप्ताह पर उसी दिन तक, उसी समय एवम स्थान के लिये स्थगित की जायेगी, या उस दिन सार्वजनिक अवकाश है, तो अगले उत्तरवर्ती दिन जब सार्वजनिक अवकाश नहीं है, उसी समय एवम स्थान पर, एवम यदि स्थगित सभा में भी सेवानिवृत्त निदेशक की जगह को नहीं भरा जाता है, एवम इस सभा में भी रिक्ति को भरने के लिये स्पष्ट रूप से प्रस्ताव पारित नहीं किया गया है, तो सेवानिवृत्त निदेशक को स्थगित सभा में पुनः नियुक्त किया गया है, ऐसा समझा जायेगा, जब तक:

- (1) उस सभा या पूर्व सभा में, इस तरह के निदेशक की पुनः नियुक्ति के लिये प्रस्ताव सभा में रखा गया है एवम खो गया है,
- (2) सेवानिवृत्त निदेशक ने कंपनी को संबोधित करते हुए लिखित में नोटिस द्वारा अपने निदेशकों का बोर्ड, इस तरह की पुनः नियुक्ति के लिये अपनी अनिच्छा को व्यक्त किया है,
- (3) वह नियुक्ति के लिये योग्य नहीं है या अयोग्य हो गया है,
- (4) अधिनियम के किसी प्रावधान द्वारा उसकी नियुक्ति के लिये प्रस्ताव, चाहे विशेष या साधारण, की आवश्यकता होती है, या
- (5) मामले में अनुच्छेद 146 के उप-अनुच्छेद (2) को परंतुक लागू होता है.

व्यक्तिगत रूप से वोट दिये जाने के लिये निदेशकों की नियुक्ति

146. (1) कंपनी की प्रत्येक वार्षिक साधारण सभा में एकल प्रस्ताव द्वारा कंपनी के निदेशकों के तौर पर दो या अधिक व्यक्तियों की नियुक्ति के लिये प्रस्ताव नहीं लिया जायेगा, जब तक यह प्रस्ताव कि इस तरह से जो बनाया गया है, वह उसके विरुद्ध कोई भी वोट नहीं दिया जाकर सभा द्वारा सर्वप्रथम सहमति दी गई है.

- (2) इस अनुच्छेद के उप-अनुच्छेद (1) के उल्लंघन में प्रस्तावित प्रस्ताव शून्य होगा चाहे इस तरह से प्रस्तावित समय पर आपत्ति ली गई है या नहीं ली गई है, बशर्ते कि जहां इस तरह से प्रस्तावित प्रस्ताव पारित किया गया है, अन्य नियुक्ति के व्यतिक्रम में सेवानिवृत्त निदेशक स्वचालित पुनः नियुक्ति के लिये कोई प्रावधान लागू नहीं होगा.
- (3) इस अनुच्छेद के उद्देश्य के लिये, व्यक्ति की नियुक्ति का अनुमोदन के करने के लिये या नियुक्ति के लिये व्यक्ति को नामांकित करने के लिये प्रस्ताव को अपनी नियुक्ति के लिये प्रस्ताव के तौर पर व्यवहार किया जायेगा.

निदेशक पद के लिये खड़े होने के लिये सेवानिवृत्त निदेशकों के अतिरिक्त व्यक्तियों के अधिकार

147. (1) सेवानिवृत्त निदेशक होकर कोई भी व्यक्ति किसी साधारण सभा में निदेशक के पद के लिये चुनाव के लिये पात्र नहीं होगा, जब तक उसके उद्देश्य के लिये इच्छुक वह या कुछ अन्य सदस्य द्वारा सभा से कम से कम 14 दिनों पहले, उस पद के लिये प्रत्याशी के तौर पर, निदेशक पद के लिये उसे प्रस्तावित करने के लिये, इस तरह के सदस्य की इरादे या निदेशक के पद के लिये उसकी उम्मीदवारी को लिखित में उसके द्वारा हस्ताक्षरित नोटिस कार्यालय में छोड़ा गया है, जैसा भी मामला हो सकता है, उसके साथ पांच सौ रुपये की जमा राशि सहित, जो कि इस तरह के व्यक्ति को वापिस लौटाई जायेगी, या जैसा भी मामला हो सकता है, इस तरह के व्यक्ति के लिये, यदि व्यक्ति निदेशक के तौर पर चुने जाने में सफलता प्राप्त करता है.
- (2) कंपनी निदेशक के पद के लिये व्यक्ति की उम्मीदवारी या इस पद के लिये उम्मीदवारी के तौर पर इस तरह के व्यक्ति को प्रस्तावित करने के लिये सदस्य के इरादे के संबंध में अपने सदस्यों को कम से कम सभा से 7 दिनों पहले व्यक्तिगत नोटिस द्वारा सूचित करेगी, बशर्ते कि कंपनी के लिये उपरोक्त कथित तौर पर सदस्यों को व्यक्तिगत नोटिस जारी करना आवश्यक नहीं होगा, यदि कंपनी उस स्थान में प्रसारित किये जाने वाले कम से कम दो समाचार पत्रों में सभा से कम से कम 7 दिनों पहले इस तरह की उम्मीदवारी या इरादे का विज्ञापन देती है, जहां पर कंपनी का पंजीकृत कार्यालय स्थित होता है, जिसमें से एक अंग्रेजी भाषा में एवम दूसरा उस स्थान की क्षेत्रीय भाषा में प्रकाशित किया जाता है.

निदेशकों का निष्कासन

148. (1) कंपनी अधिनियम एवम इसके अनुच्छेदों के प्रावधानों के अधीन निदेशक को उसके पद की समाप्ति से पहले साधारण प्रस्ताव द्वारा निष्कासित कर सकती है.
 - (2) इस अनुच्छेद के अंतर्गत निदेशक को निष्कासित करने के लिये किसी प्रस्ताव के लिये या सभा में इस तरह से निष्कासित निदेशक की जगह किसी व्यक्ति को नियुक्त करने के लिये विशेष नोटिस की आवश्यकता होगी.
 - (3) इस अनुच्छेद के अंतर्गत निदेशक को निष्कासित करने के लिये प्रस्ताव के नोटिस की प्राप्ति पर कंपनी संबंधित निदेशक को तत्काल इसकी प्रति भेजेगी एवम निदेशक (चाहे कंपनी का सदस्य है या नहीं है) सभा में प्रस्ताव पर सुनवाई किये जाने के लिये हकदार होगा.
 - (4) जहां इस अनुच्छेद के अंतर्गत निदेशक को निष्कासित करने के लिये प्रस्ताव का नोटिस दिया जाता है एवम संबंधित निदेशक कंपनी (उचित लंबाई से अधिक नहीं) को इसके संबंध में लिखित में प्रस्तुतिकरण देता है एवम कंपनी के सदस्यों को अधिसूचना के लिये निवेदन करता है, तो जब तक कंपनी प्रतिनिधित्व को प्राप्त नहीं करती है ऐसा करने के लिये बहुत देर हो चुकी होती है:—
- ए) कंपनी के सदस्य को दिये गये प्रस्ताव के नोटिस में, प्रतिनिधित्व का तथ्य कथित किया गया है, एवम
 - बी) कंपनी के प्रत्येक सदस्य को प्रतिनिधित्व की प्रति भेजना, जिनको सभा का नोटिस भेजा जाता है (चाहे कंपनी द्वारा प्रतिनिधित्व की प्राप्ति से पहले या पश्चात) एवम यदि प्रतिनिधित्व की प्रति उपरोक्त कथित तौर पर नहीं भेजी जाती है, क्योंकि उन्होंने इसे बहुत देरी से प्राप्त किया था या कंपनी की चूक के कारण, निदेशक को इसकी आवश्यकता हो सकती है (मौखिक सुने जाने वाले अपने अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना) कि प्रतिनिधित्व को सभा में पढ़ा जायेगा, बशर्ते कि प्रतिनिधित्व की प्रतियों को सभा में पढ़े जाने की आवश्यकता नहीं होती है, यदि या तो कंपनी या

किसी अन्य व्यक्ति के आवेदन पर जो पीड़ित होने का दावा करते हैं, केन्द्र सरकार संतुष्ट होती है कि इस उप-अनुच्छेद द्वारा प्रदत्त अधिकारों का मानहानिकारक मामले के लिये अनावश्यक प्रचार पाने के लिये दुरुपयोग किया जा रहा है।

- (5) इस अधिनियम के अंतर्गत निदेशक के निष्कासन द्वारा बनाई गई रिक्ति उसकी जगह किसी अन्य निदेशक की नियुक्ति उस सभा द्वारा भरी जा सकती है जिसमें निष्कासित किया गया है, यदि उसे साधारण या अनुच्छेद 130 के अनुसरण में बोर्ड द्वारा नियुक्त किया गया था, बशर्ते अभिप्रेत नियुक्ति का विशेष नोटिस इस अनुच्छेद के उप-अनुच्छेद (2) के अंतर्गत दिया गया है। इस तरह से नियुक्त निदेशक पद को धारण करेगा, जब तक उस दिनांक तक उसके पूर्व अधिकारी ने पद धारण किया होगा, उपरोक्त कथित तौर पर उसे निष्कासित नहीं किया गया था।
- (6) यदि इस अनुच्छेद के उप-अनुच्छेद (5) के अंतर्गत रिक्ति नहीं भरी जाती है, इसे प्रावधानों के अनुसरण में आकस्मिक रिक्ति के तौर पर भरा जा सकता है, जहां तक वे अनुच्छेद 130 के अंतर्गत लागू हो सकते हैं एवम सभी प्रावधान तदनुसार लागू होंगे, बशर्ते कि निदेशक जिसको पद से हटाया गया था, निदेशकों के बोर्ड द्वारा निदेशक के तौर पर पुनःनियुक्त नहीं किया जायेगा।

निदेशकों की सभा की कार्यवाहियां

निदेशकों की सभा

149. निदेशक व्यवसाय का संचालन करने के लिये, अपनी सभाओं एवम कार्यवाहियों को स्थगित एवम अन्यथा विनियमित करने के लिये आपस में मिल सकते हैं, जैसा वे उचित समझ सकते हैं, बशर्ते, यद्यपि, कि निदेशकों के बोर्ड की सभा प्रत्येक तीन महीनों में एक बार आयोजित की जायेगी, एवम प्रत्येक वर्ष में इस तरह की कम से कम चार सभाएं आयोजित की जायेगी।

जब सभा बुलाई जानी है

150. जब अध्यक्ष किसी भी समय एवम कंपनी का प्रबंधक या इस तरह का अन्य अधिकारी, जैसा निदेशकों द्वारा अधिकृत किया जा सकता है, निदेशक के निवेदन पर निदेशकों की सभा बुलायेगा।

सभा का नोटिस

151. कंपनी के निदेशकों के बोर्ड की प्रत्येक सभा का नोटिस तत्समय भारत में प्रत्येक निदेशक एवम प्रत्येक अन्य निदेशक को भारत में उसके सामान्य पते पर भेज दिया जायेगा।

निदेशकों के बोर्ड का अध्यक्ष

152. एक्सचेंज के निदेशकों के बोर्ड का अध्यक्ष सार्वजनिक हित निदेशक होगा एवम सेबी के पूर्व अनुमोदन सहित नियुक्त किया जायेगा।

निदेशकों की सभी सभाओं की अध्यक्षता इस तरह के अध्यक्ष द्वारा की जायेगी, यदि वह उपस्थित होता है, किन्तु यदि निदेशकों की किसी सभा में समान धारिका के लिये नियुक्त समय पर अध्यक्ष उपस्थित नहीं होता है, तब एवम उस मामले में, निदेशक सभा की अध्यक्षता करने के लिये उस समय उपस्थित निदेशकों में से एक का चुनाव करेगा।

बोर्ड सभा पर प्रश्न, कैसे निर्णित किया जाता है

153. किसी भी सभा में उठने वाले प्रश्न पर मतदान के बहुमत द्वारा निर्णय लिया जायेगा, एवम मतदान की समानता के मामले में, सभा का अध्यक्ष (चाहे अध्यक्ष इन अनुच्छेदों द्वारा नियुक्त किया गया है या इस तरह की सभा की अध्यक्षता कर रहा है) निर्णायक मत देगा।

शक्तियों का प्रयोग करने के लिये कोरम एवम क्षमता

154. कंपनी के निदेशकों के बोर्ड की सभा के लिये कोरम इसकी कुल सामर्थ्य (इस $1/3$ में निहित कोई भी खंड एक से पूर्णांक किया जायेगा) का $1/3$ या दो निदेशक, जो भी अधिक हो, होगा, बशर्ते जहां किसी सभा में, हितबद्ध निदेशकों की संख्या कुल सामर्थ्य से अधिक या का $2/3$ के समान होती है, तो बचे हुए निदेशकों की संख्या, अर्थात्, निदेशकों की संख्या जो हितबद्ध नहीं है, कम से कम दो सभा उपस्थित नहीं होकर, इस तरह के समय के दरम्यान कोरम होगा।

इस अनुच्छेद के उद्देश्य के लिये:—

- (1) 'कुल सामर्थ्य' का अर्थ है अधिनियम के अनुसरण में निर्धारित अनुसार कंपनी के निदेशकों की कुल सामर्थ्य, निदेशकों की संख्या से घटाने के पश्चात, यदि कोई हो, जिनके स्थान उस समय खाली हो सकते हैं,
- (2) 'हितबद्ध निदेशक' का अर्थ है कोई निदेशक जिसकी उपस्थिति अनुच्छेद 138 या अधिनियम के किसी अन्य प्रावधान द्वारा बोर्ड की सभा कोरम का गठन करने के उद्देश्य के लिये, निर्णय लेते या किसी दशा में वोट देते समय नहीं गिना सकता है.

प्रक्रिया जहां कोरम के अभाव में स्थगित की जाती है

155. (1) यदि बोर्ड की सभा कोरम के अभाव में आयोजित नहीं जा सकी, तब, जब तक प्रत्येक सभा में उपस्थित निदेशक अन्यथा निर्णय नहीं लेते हैं, सभा स्वचालित रूप से अगले सप्ताह उसी दिन तक, उसी समय एवम स्थान के लिये स्थगित हो जायेगी, या यदि उस दिन सार्वजनिक अवकाश है, तो उसके उत्तरवर्ती अगले दिन तक, उसी समय एवम स्थान पर, जिस दिन सार्वजनिक अवकाश नहीं है.
- (2) अनुच्छेद 149 के प्रावधान ऐसा नहीं समझा जायेगा कि सिर्फ इस तथ्य के कारण द्वारा अवहेलना की गई है, कि बोर्ड की सभा जिसे उस अनुच्छेद की शर्तों के अनुपालन में बुलाया गया था, कोरम के अभाव में आयोजित नहीं की जा सकी.

निदेशक समिति नियुक्त कर सकते हैं

156. निदेशक अधिनियम के प्रावधानों के अधीन, अपने निकाय के इस तरह के सदस्य या सदस्यों को सम्मिलित करते हुए समिति या समितियों को उनकी शक्तियों में से किसी को प्रतिनिधि कर सकते हैं, जैसा उचित समझा जाता है, एवम वे समय-समय पर इस तरह के प्रतिनिधि मंडल को किन्हीं विनियमों के अनुरूप रद्द कर सकते हैं, जो कि निदेशकों द्वारा समय-समय लागू किये जा सकते हैं.

बोर्ड समितियां

- 156ए. कंपनी अधिनियम 2013, समय-समय पर जारी सेबी एस.ई.सी.सी. विनियम एवम परिपत्रक के अंतर्गत अनिवार्य तौर पर एक्सचेंज के कार्यों का प्रभावी निरीक्षण सुनिश्चित करने के लिये कंपनी समितियां गठित करेगी, इसके अतिरिक्त, समितियां जो कि संबद्ध कंपनियों के लिये आवश्यक होती हैं, एक्सचेंज के लिये यथोचित परिवर्तनों सहित लागू होंगी. एक्सचेंज वैधानिक समितियों के लिये सभाओं की आवृत्ति, कोरम इत्यादि के लिये नीति निर्धारित करेगा. कम से कम एक सार्वजनिक हित निदेशक की उपस्थिति पर सभा को संचालित किया जायेगा, निरीक्षण समिति के मामले के सिवाय, जिसमें सार्वजनिक हित निदेशकों के कम से कम 50 प्रतिशत की उपस्थिति आवश्यक होती है. सार्वजनिक हित निदेशक समिति के मामले में, सभी सार्वजनिक हित निदेशक उपस्थित होंगे.

समितियों में स्वतंत्र बाहरी व्यक्तियों की नियुक्ति: स्वतंत्र बाहरी व्यक्ति सुदृढ प्रतिष्ठा सहित सत्यनिष्ठा एवम हितों में किसी भी तरह का टकराव नहीं रखने वाले व्यक्तियों में से होंगे. एक्सचेंज स्वतंत्र बाहरी व्यक्तियों की नियुक्ति, कार्यकाल, आचरण संहिता इत्यादि के लिये दिशा-निर्देश बनायेगा. कार्यकाल में विस्तार सभा इत्यादि पर उपस्थिति के प्रतिवेदन, योगदान की समीक्षा के अनुसरण में कार्यकाल की समाप्ति पर पारित किया जा सकता है.

एक्सचेंज निम्नलिखित समितियों का गठन करेगा एवम इस तरह की अन्य समितियों को, कानून के अनुसार आवश्यकता हो सकती है:—

परिचालन समिति

- (1) समिति का नाम: सदस्यता चुनाव समिति

किये जाने वाले कार्य: एक्सचेंज के विभिन्न खंडों के लिये सदस्यता का चुनाव/प्रवेश.

संयोजन:

- 1) सार्वजनिक हित निदेशक सदस्यता चुनाव समिति के बहुमत का गठन करेंगे.
- 2) एक्सचेंज के अधिकतम दो मुख्य प्रबंधन कर्मी समिति में हो सकते हैं, जिसमें से एक आवश्यक रूप से स्टॉक एक्सचेंज का प्रबंध निदेशक होगा.
- 3) समिति स्वतंत्र बाहरी व्यक्तियों को भी सम्मिलित कर सकती है.

(2) समिति का नाम: अनुशासनात्मक कार्यवाही समिति

किये जाने वाले कार्य:

- 1) समिति नियामक कार्यवाहियों के लिये नीति तैयार करेगी जिसमें सम्मिलित एक्सचेंज के सदस्यों द्वारा विभिन्न उल्लंघनों के लिये लिये जाने वाले चेतावनी, मौद्रिक जुर्माना, निलंबन, व्यापार की वापसी, निष्कासन सम्मिलित है.
- 2) निर्धारित की गई नीति के आधार पर, समिति निरीक्षण इत्यादि के दरम्यान अवलोकन किये गये उल्लंघन के मामलों पर विचार करेगी एवम एक्सचेंज के सदस्यों पर पर्याप्त नियामक मानदंड लागू करेगी.
- 3) जब नियामक मानदंड लागू किया जाते हैं, तब समिति 'प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त' पर आधारित निर्धारित प्रक्रिया अपनायेगी.

संयोजन:

- 1) अनुशासनात्मक कार्यवाही समिति में सार्वजनिक हित निदेशक एवम एक्सचेंज के अधिकारी समाविष्ट होंगे.
- 2) सार्वजनिक हित निदेशक समिति के बहुमत का गठन करेंगे.
- 3) एक्सचेंज के कम से कम दो मुख्य प्रबंधन कर्मी समिति में हो सकते हैं, जिसमें से एक अनिवार्य रूप से एक्सचेंज का प्रबंध निदेशक होगा.

(3) समिति का नाम: निवेशक शिकायत निवारण समिति (आई.जी.आर.सी.)

किये जाने वाले कार्य: स्टॉक एक्सचेंज द्वारा इसमें संदर्भित शिकायतों के साथ व्यवहार करना, पक्षों को सुनना एवम उनकी शिकायतों का समाधान करना.

संयोजन:

- ए) रु. 25 लाख तक के दावों के लिये आई.जी.आर.सी. में एकल व्यक्ति सम्मिलित होगा, जबकि, रु. 25 लाख से अधिक के दावों के लिये आई.जी.आर.सी. में तीन व्यक्ति सम्मिलित होंगे.
- बी) आई.जी.आर.सी. में कानून, वित्त, लेखे, अर्थशास्त्र, प्रबंधन या प्रशासन के क्षेत्रों में योग्यता वाले एवम वित्तीय सेवाओं में अनुभव वाले, जिसमें प्रतिभूति बाजार सम्मिलित है, स्वतंत्र व्यक्तियों को सम्मिलित किया जायेगा.
- सी) आगे, तीन सदस्यों की समिति में तकनीकी मामलों (जैसे इंटरनेट आधारित व्यापार, एल्गोरिथम संबंधी व्यापार इत्यादि) से संबंधित शिकायतों निपटाने के लिये कम से कम एक तकनीकी विशेषज्ञ सम्मिलित होगा.
- डी) आई.जी.आर.सी. के सदस्य किसी भी दशा में व्यापार सदस्यों के साथ सहयोगी नहीं होंगे.
- ई) सेबी परिपत्रक संदर्भ सं. सी.आई.आर./एम.आर.डी./डी.एस.ए./24/2010 दिनांक 11 अगस्त, 2010 के अनुच्छेद 3.4 एवम 4 के अंतर्गत निर्धारित प्रकटीकरण एवम आचरण संहिता, जहां तक हो सकता है, आई.जी.आर.सी. के सदस्यों पर भी लागू होगी.

(4) समिति का नाम: चूककर्ता की समिति

किये जाने वाले कार्य:

- 1) चूककर्ता की सभी संपत्तियों/जमाओं/निष्कासित सदस्यों को प्राप्त करना एवम एक्सचेंज के नियमों, उपनियमों एवम विनियमों के अनुसरण में चूककर्ता/निष्कासित सदस्यों के विरुद्ध विभिन्न बकायों एवम दावों को यथोचित करना.
- 2) समाशोधन सदस्य एवम अपने घटक व्यापार सदस्य दोनों के प्रसंग में चूककर्ता घोषित होता है, तब स्टॉक एक्सचेंज की चूककर्ता समिति एवम समाशोधन निगम की चूककर्ता समिति दोनों समाशोधन सदस्य एवम व्यापार सदस्य दोनों की संपत्तियों को प्राप्त करने के लिये साथ में कार्य करेगी.

- 3) चूककर्ता/निष्कासित सदस्य की संपत्तियां के ऊपर ग्राहक/व्यापार सदस्यों/समाशोधन सदस्यों के दावों का प्रवेश या अस्वीकृति.
- 4) आई.पी.एफ. के न्यासियों के दावों के संबंध में अनुशंसा, चाहे दावे का भुगतान आई.पी.एफ. या अन्यथा से बाहर किया जाना है.

संयोजन:

- 1) सार्वजनिक हित निदेशक चूककर्ता समिति के बहुमत का गठन करेंगे.
- 2) एक्सचेंज के कम से कम दो मुख्य प्रबंधन कर्मी समिति में हो सकते हैं.
- 3) समिति स्वतंत्र बाहरी व्यक्तियों जैसे सेवानिवृत्त न्यायाधीश इत्यादि को भी सम्मिलित कर सकती है.

- (5) समिति का नाम: क्षतिपूर्ति समिति

किये जाने वाले कार्य:

- 1) क्षतिपूर्ति समिति सेबी द्वारा निर्धारित क्षतिपूर्ति मानदंडों की शर्तों में मुख्य प्रबंधन कर्मियों की क्षतिपूर्ति के लिये नीति निर्धारित करेगी.
- 2) क्षतिपूर्ति समिति नियामक विभाग में नियुक्ति किये जाने के लिये मुख्य प्रबंधन कर्मियों के कार्यकाल का निर्धारण करेगी.
- 3) मुख्य प्रबंधन कर्मियों का कार्यकाल, निदेशकों के अतिरिक्त, निश्चित अवधि के लिये होगा, जैसा क्षतिपूर्ति समिति द्वारा निर्णय लिया जा सकता है.

संयोजन:

- 1) समिति में सार्वजनिक हित निदेशकों के बहुमत का समावेश होगा एवम सार्वजनिक हित निदेशक द्वारा अध्यक्षता की जायेगी.
- 2) इस तरह के उद्देश्य के लिये एक्सचेंज के निदेशकों के बोर्ड द्वारा नियुक्त अंशधारक निदेशक या अन्य व्यक्ति समिति का शेष गठित कर सकता है.

- (6) समिति का नाम: चयन समिति

किये जाने वाले कार्य: प्रबंध निदेशक के चुनाव के लिये समिति

संयोजन: चयन समिति में चार व्यक्ति अर्थात् दो सार्वजनिक हित निदेशक एवम दो स्वतंत्र बाहरी व्यक्ति सम्मिलित होंगे. सार्वजनिक हित निदेशकों या स्वतंत्र बाहरी व्यक्तियों की पर्याप्त संख्या की अनुपलब्धता के मामले में, सार्वजनिक हित निदेशकों एवम स्वतंत्र बाहरी व्यक्तियों की संख्या, आवश्यकता के अनुसार समिति के गठन के अनुसरण में बढ़ाई जा सकती है. आगे, स्टॉक एक्सचेंज यह सुनिश्चित करेगा कि एक सार्वजनिक हित निदेशक सभी चयन समिति एवम सभाओं का भाग होना चाहिये.

निरीक्षण समिति

- (7) समिति का नाम: तकनीक पर स्थाई समिति

किये जाने वाले कार्य:

- 1) निगरानी करने के लिये कि क्या एक्सचेंज द्वारा उपयोग में ली गई तकनीक उस दिनांक तक बनी रहती है एवम बाजारों की बढ़ती मांग को पूरा करती है.
- 2) प्रणाली की क्षमता एवम दक्षता की पर्याप्तता की निगरानी करना.
- 3) विद्यमान सॉफ्टवेयर/हार्डवेयर के लिये एक्सचेंज द्वारा दिये जा रहे परिवर्तनों के सुझावों पर गौर करना.

- 4) कंप्यूटरीकृत व्यापार प्रणाली की समस्याओं का अन्वेषण करना, जैसे हैंगिंग/धीमी गति से चलना/बंद हो जाना.
- 5) यह सुनिश्चित करना कि ऑनलाईन व्यापार प्रणाली में धीमी गति से चलने/बंद हो जाने के संबंध में सूचनाओं के प्रचार-प्रसार में पारदर्शिता बनाये रखी गई है.
- 6) समिति स्टॉक एक्सचेंज के निदेशकों के बोर्ड को प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी. बोर्ड प्रतिवेदन का विवेचन करेगा एवम वांछित कार्यवाही/उपचारात्मक उपाय लेगा.
- 7) पांच मिनट से परे किसी ठहराव के लिये स्पष्टीकरण दिया जायेगा एवम सेबी को प्रतिवेदित किया जायेगा. एक्सचेंज कार्य बंद होने के कारणों को निर्दिष्ट करते हुए प्रेस विज्ञप्ति जारी करेगा.

संयोजन: समिति प्रौद्योगिकी में कुशल दो बाहरी विशेषज्ञों एवम कम से कम एक सार्वजनिक हित निदेशक को सम्मिलित करेगी.

- (8) समिति का नाम: सेबी निरीक्षण प्रतिवेदन में दिये गये सुझावों के निरीक्षण अनुपालन के लिये उप-समिति

किये जाने वाले कार्य:

- 1) सेबी के निरीक्षण प्रतिवेदन के सुझावों को कार्यान्वित करने के लिये उठाये गये कदमों की समीक्षा करना.
- 2) एक्सचेंज के निदेशकों के बोर्ड के समक्ष इसे रखना.
- 3) निरीक्षणों अवलोकनों के अनुपालन/कार्यान्वयन का पालन करना एवम इसे सुनिश्चित करना.

संयोजन:

- 1) समिति में सार्वजनिक हित निदेशकों का बहुमत सम्मिलित होता.
- 2) एक अंशधारक निदेशक एवम
- 3) एक मुख्य प्रबंधन कर्मी.

- (9) समिति का नाम: निवेशक सेवा समिति

किये जाने वाले कार्य: एक्सचेंज के निवेशकों के सेवा कक्ष के कार्यों का पर्यवेक्षण करना जिसमें सम्मिलित है शिकायत समाधान प्रक्रिया की समीक्षा, लंबे समय तक अनसुलझी बनी रहने वाली शिकायतों की समीक्षा, निवेशक सेवाओं को समर्पित की पर्याप्तता का आंकलन इत्यादि.

संयोजन:

- 1) निवेशक सेवा समिति में सार्वजनिक हित निवेशकों का बहुमत सम्मिलित होगा.
- 2) समिति में स्वतंत्र बाहरी व्यक्ति भी सम्मिलित किये जा सकते हैं, जैसे सेवानिवृत्त न्यायाधीश इत्यादि.

- (10) समिति का नाम: सार्वजनिक हित निदेशक समिति

किये जाने वाले कार्य: अपनी सभाओं के दरम्यान, सार्वजनिक हित निदेशक निम्नलिखित की समीक्षा करेंगे.

- 1) सेबी के पत्रों/परिपत्रकों के अनुपालन की स्थिति.
- 2) नियामक कार्यों को समर्पित स्रोतों की पर्याप्तता को सम्मिलित करते हुए नियामक विभागों के कार्यों की समीक्षा.
- 3) सार्वजनिक हित निदेशक अन्य समितियों के कार्यों पर प्रतिवेदन तैयार करेंगे जहां पर भी वे सदस्य हैं. प्रतिवेदन को अन्य सार्वजनिक हित निदेशकों को परिचालित किया जायेगा.

- 4) स्टॉक एक्सचेंज के निदेशकों के बोर्ड को तब समेकित प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जायेगा.
- 5) सार्वजनिक हित निदेशक उन महत्वपूर्ण मुद्दों की पहचान करेंगे, जो स्टॉक एक्सचेंज के लिये हित के संघर्ष में संलिप्त हो सकते हैं एवम बाजार एवम सेबी के लिये समान प्रतिवेदन पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकते हैं.

संयोजन: सभी सार्वजनिक हित निदेशक समिति की प्रत्येक सभा में आवश्यक रूप से भाग लेंगे.

(11) समिति का नाम: पंचनिर्णय समिति

किये जाने वाले कार्य:

- 1) सेबी संदर्भ सं. सी.आई.आर./एम.आर.डी./डी.एस.ए./24/2010 दिनांक 11 अगस्त, 2010 के अपने उपनियमों, विनियमों एवम परिपत्रकों के अनुसरण में एक्सचेंज द्वारा गठित किये जाने वाले पंचनिर्णय के पैनल (पंचनिर्णय पैनल) में सम्मिलित किये जाने के लिये व्यक्तियों का चयन करना.
- 2) एक्सचेंज पंचनिर्णय प्रक्रियाओं के संबंध में प्रपत्रों, प्रक्रियाओं एवम अन्य आवश्यकताओं का निर्णय करना.
- 3) पंचनिर्णय का समर्पित स्रोतों की पर्याप्तता का आंकलन करना.

संयोजन:

- 1) समिति सार्वजनिक हित निदेशकों के बहुमत को समाविष्ट करेगी.
- 2) अंशधारक निदेशक समिति के संतुलन का गठन कर सकते हैं.

(12) समिति का नाम: आचार समिति

किये जाने वाले कार्य: आचार संहिता के कार्यान्वयन की देखरेख करना. आचार संहिता के कार्यान्वयन के लिये प्रक्रियाओं का निर्धारण एवम संहिता के अंतर्गत आवश्यक प्रकटीकरण के लिये प्रपत्रों को प्रतिवेदित करते हुए निर्धारित करेगी. अनुपालन अधिकारी आचारण समिति द्वारा निर्धारित आवश्यकताओं का निष्पादन करेगी.

संयोजन:

आचार संहिता में सार्वजनिक हित निदेशकों, अंशधारक निदेशकों, मुख्य प्रबंधन कर्मियों एवम अनुपालन अधिकारी को सम्मिलित किया जायेगा.

(13) समिति का नाम: सदस्य विनियमन के लिये स्वतंत्र निरीक्षण समिति.

किये जाने वाले कार्य:

- 1) समिति सदस्य विनियमन से संबंधित मामलों की देखरेख करेगी, जैसे सदस्यों का प्रवेश, निरीक्षण, अनुशासनात्मक कार्यवाही इत्यादि.
- 2) उपरोक्त मामलों को सभालने वाले विभागों के प्रमुख समिति एवम प्रबंध निदेशक को भी सीधे प्रतिवेदित करेंगे.
- 3) उपरोक्त कथित प्रमुखों के विरुद्ध अधिकृत स्टॉक एक्सचेंज की कोई कार्यवाही इस तरह की किसी अवधि के अंदर समिति को अपील के अधीन होगा, जैसा निदेशकों के बोर्ड द्वारा निर्धारित किया जा सकता है.
- 4) समिति सदस्यता से संबंधित मामलों पर सेबी के निरीक्षण अवलोकनों की देखरेख करेगी.
- 5) सदस्य विनियमन को समर्पित स्रोतों की पर्याप्तता का आंकलन करना.

संयोजन:

- 1) समिति में सार्वजनिक हित निदेशकों के बहुमत को सम्मिलित किया जायेगा एवम सार्वजनिक हित निदेशक द्वारा अध्यक्षता की जायेगी.

- 2) स्वतंत्र बाहरी विशेषज्ञों का संतुलन गठित किया जायेगा.
- (14) समिति का नाम: व्यापार एवम निगरानी कार्यों के लिये स्वतंत्र निरीक्षण समिति
- किये जाने वाले कार्य:
- 1) व्यापार एवम निगरानी से संबंधित कार्यों को समिति देखेगी, जैसे आदेश एवम व्यापार स्तर चेतावनियों के माध्यम से बाजार की निगरानी, प्रतिभूति स्तर चेतावनियां, चेतावनियों की प्रक्रिया, प्राईस बैंड परिवर्तन, अफवाह का सत्यापन, व्यापार खण्ड के लिये व्यापार के लिये प्रतिभूतियों का स्थानांतरण, विस्तृत अन्वेषण का दायित्व लेना, अनुशासनात्मक कार्यवाहियां इत्यादि.
 - 2) उपरोक्त मामलों को संभाल रहे विभागों के प्रमुख समिति को सीधे प्रतिवेदित करेंगे एवम प्रबंध निदेशक को भी प्रतिवेदित करेंगे.
 - 3) उपरोक्त कथित प्रमुखों के विरुद्ध एक्सचेंज की कोई कार्यवाही इस तरह की अवधि के अंदर समिति के लिये अपील के अधीन होगी, जैसा निदेशकों के बोर्ड द्वारा निर्धारित किया जा सकता है.
 - 4) समिति निगरानी से संबंधित मामलों पर सेबी के निरीक्षण अवलोकन को देखेगी एवम सेबी पर साप्ताहिक निरीक्षण सभा में लिये गये निर्णयों को भी देखेगी.
 - 5) व्यापार एवम निरीक्षण कार्यों के समर्पित स्रोतों की पर्याप्तता का आंकलन करना.
- संयोजन:
- 1) समिति सार्वजनिक हित निदेशकों के बहुमत को सम्मिलित करेगी एवम सार्वजनिक हित निदेशक द्वारा अध्यक्षता की जायेगी.
 - 2) संतुलन में स्वतंत्र बाहरी विशेषज्ञों को गठित किया जायेगा.
- (15) समिति का नाम: उत्पाद डिजाइन के लिये स्वतंत्र निगरानी समिति
- संयोजन:
- 1) समिति सार्वजनिक हित निदेशकों के बहुमत को सम्मिलित करेगी एवम सार्वजनिक हित निदेशक द्वारा अध्यक्षता की जायेगी.
 - 2) संतुलन में स्वतंत्र बाहरी विशेषज्ञों को गठित किया जायेगा.
- (16) समिति का नाम: सलाहकार समिति
- किये जाने वाले कार्य: गैर-नियामक एवम संचालकीय मामलों पर निदेशकों के बोर्ड को सलाह देना, जिसमें उत्पाद डिजाइन, प्रौद्योगिकी, शुल्क एवम कर सम्मिलित है.
- संयोजन: निदेशकों के बोर्ड का अध्यक्ष सलाहकार समिति का अध्यक्ष होगा एवम प्रबंध निदेशक सलाहकार समिति की प्रत्येक सभा में स्थाई रूप से निर्मंत्रित होगा. सलाहकार समिति दो सभाओं के मध्य अधिकतम तीन महीनों के अंतर के साथ वर्ष में कम से कम चार बार मिलेगी. सलाहकार समिति की अनुशंसा निदेशकों के बोर्ड उचित निर्णय एवम विचार-विमर्श के लिये एक्सचेंज के निदेशकों के बोर्ड की आगामी सभा में रखा जायेगा, एवम इस निदेशकों के बोर्ड के निर्णय के साथ इस तरह की अनुशंसा का वेबसाइट पर प्रकटीकरण किया जायेगा. व्यापार सदस्य एक्सचेंज की किसी अन्य समिति का भाग नहीं होंगे.
- सलाहकार समिति की नियुक्ति से पहले, एक्सचेंज के निदेशकों का बोर्ड स्वयं संतुष्ट होगा कि व्यापार सदस्य एस.ई.सी.सी. के विनियमों के विनियम 20 की शर्तों में उचित एवम योग्य व्यक्ति हैं. निदेशकों का बोर्ड एक्सचेंज के व्यापार सदस्यों के साथ विचार-विमर्श में सलाहकार समिति के सदस्यों के पात्रता मानदण्डों, पद का कार्यकाल, आराम की अवधि इत्यादि तैयार करेगा.
- (17) समिति का नाम: जोखिम प्रबंधन समिति
- किये जाने वाले कार्य:

- 1) विस्तृत जोखिम प्रबंधन नीति तैयार करना जो निदेशकों के बोर्ड द्वारा अनुमोदित की जायेगी.
- 2) जोखिम प्रबंधन विभाग का प्रमुख जोखिम प्रबंधन नीति के कार्यान्वयन के लिये यथोचित होगा एवम वह जोखिम प्रबंधन समिति एवम एक्सचेंज के प्रबंधन निदेशकों को प्रतिवेदित करेगा.
- 3) जोखिम प्रबंधन समिति जोखिम प्रबंधन समिति के कार्यान्वयन की निगरानी करेगा एवम इसके कार्यान्वयन एवम विचलन, यदि कोई हो, के बारे में सेबी एवम निदेशकों के बोर्ड को सूचित करेगा.

संयोजन: सार्वजनिक हित निदेशक एवम स्वतंत्र बाहरी विशेषज्ञ. समिति निदेशकों के बोर्ड को प्रतिवेदित करेगी.

समिति की सभाएं कैसे शासित की जानी हैं

157. पूर्ववर्ती अनुच्छेद के अनुसरण में नियुक्त किसी समिति की सभाएं एवम कार्यवाहियां निदेशकों की सभाओं एवम कार्यवाहियों का विनियमन करने के लिये इन अनुच्छेदों के प्रावधानों द्वारा शासित होगी.

नियुक्ति में दोष के बावजूद भी बोर्ड या समितियों के कार्य वैध

158. बोर्ड या इसकी समिति की किसी सभा में या निदेशक के तौर पर कार्य कर रहे किसी व्यक्ति द्वारा किये गये कोई कार्य इसके बावजूद भी वैध होंगे कि यह बाद में पता चल सकता है कि उपरोक्त तौर पर कार्य रहे इस तरह के निदेशकों या किसी एक या अधिक व्यक्तियों की नियुक्ति अयोग्यता के दोष के कारण या अवैध थी या अधिनियम या इसके अनुच्छेदों में निहित किसी प्रावधान के द्वारा निर्लंबित की गई थी, बशर्ते कि इस अनुच्छेद में कुछ भी निदेशक की नियुक्ति के पश्चात उसके द्वारा किये गये कार्यों को वैधता प्रदान करने के लिये नहीं समझा जायेगा, जो कि अवैध होने या निर्लंबित होने के लिये दिखाये गये हैं.

परिपत्र प्रस्ताव

159. परिसंचरण द्वारा बोर्ड या इसकी समिति द्वारा कोई भी प्रस्ताव विधिवत पारित किया गया नहीं समझा जायेगा, जब तक भारत (उस संख्या से कम नहीं जो बोर्ड या समिति की सभा के लिये निश्चित कोरम होता है, जैसा भी मामला हो सकता है) में समिति के सभी सदस्यों या सभी निदेशकों को एवम सभी अन्य निदेशकों एवम सदस्यों को भारत में उनके सामान्य पतों पर, आवश्यक मसौदे, दस्तावेजों सहित, यदि कोई हो, में प्रसारित नहीं किया गया है एवम इस तरह के निदेशकों द्वारा अनुमोदित नहीं किये गये हैं, जैसा तब भारत में या उनमें से इस तरह के बहुमत द्वारा प्रस्ताव पर वोट के लिये हकदार नहीं होता है.

निदेशकों एवम समितियों की कार्यवाहियों के कार्यवृत्त

160. कंपनी इस उद्देश्य के लिये प्रदान की गई पुस्तक या पुस्तकों में विधिवत प्रविष्ट किये जाने के लिये निदेशकों के बोर्ड एवम बोर्ड की सभी समितियों की सभाओं के कार्यवृत्त रखेगा. कार्यवृत्तों में निहित होगा:

- (1) सभा की कार्यवाहियों का निष्पक्ष एवम सही सारांश,
- (2) निदेशकों के बोर्ड या बोर्ड की किसी समिति की सभा में उपस्थित निदेशकों के नाम,
- (3) बोर्ड एवम बोर्ड की समिति द्वारा पारित सभी आदेश एवम अधिकारियों एवम निदेशकों की समितियों की सभी नियुक्तियां,
- (4) बोर्ड एवम बोर्ड की समितियों की सभाओं के सभी प्रस्ताव एवम कार्यवाहियां,
- (5) बोर्ड या बोर्ड की समिति की सभा में पारित प्रत्येक प्रस्ताव के मामले में, निदेशकों के नाम, यदि कोई हो, से मतभेद या प्रस्ताव से सहमत नहीं है.

जिसके द्वारा कार्यवृत्त हस्ताक्षरित किया जाना है एवम इस तरह के कार्यवृत्त के प्रभाव

161. बोर्ड या बोर्ड की किसी समिति की किसी सभा का कार्यवृत्त, यदि इस तरह की सभा के अध्यक्ष या आगामी उत्तरवर्ती सभा के अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षरित किया जाना अपेक्षित है, तो सभी उद्देश्यों के लिये, जो भी, अभिलिखित प्रस्तावों को वास्तव में पारित करने एवम इस तरह से अभिलिखित

कार्यवाहियों के नियमित लेनदेन या प्रसंग एवम सभा की नियमितता का साक्ष्य होगा, जिस पर ऐसा होना दिखता है।

निदेशकों द्वारा अनुपालन किये जाने वाले अधिनियम के प्रावधान

162. निदेशक लागू होने की सीमा के लिये अधिनियम की धारा 159, 295, 297, 299, 303, 305, 307 एवम 308 के प्रावधानों का भी पालन करेंगे।

निदेशकों की शक्तियां

निदेशकों में निहित कंपनी की सामान्य शक्तियां

163. अधिनियम एवम उन अनुच्छेदों के प्रावधानों के अधीन, कंपनी का व्यवसाय निदेशकों द्वारा प्रबंधित किया जायेगा, जो इस तरह की सभी शक्तियों को काम में ले सकते हैं एवम कंपनी के तौर पर इस तरह के सभी कार्य एवम चीजें, कार्यान्वयन करने के लिये इसके संस्था के बहिर्गमन या कार्य कर सकते हैं, एवम इन अनुच्छेदों द्वारा या साधारण सभा में कंपनी द्वारा किये गये या कार्यान्वित किये जाने के लिये आवश्यक या निदेशित कानून द्वारा नहीं होते हैं, किन्तु फिर भी अधिनियम के प्रावधानों एवम संस्था के बहिर्नियम एवम साधारण सभा में कंपनी द्वारा समय-समय पर बनाये इन अनुच्छेदों के अधीन, बशर्ते कि इस तरह का कोई भी विनियम निदेशकों के किसी पूर्व कार्य को अमान्य नहीं करेगा जो वैध किया गया होगा यदि इस तरह का विनियम नहीं बनाया गया था।

कुछ शक्तियां सिर्फ सभा में बोर्ड द्वारा काम में ली जानी होती हैं

164. बोर्ड कंपनी की ओर से निम्नलिखित शक्तियां को काम में लेगा, एवम यह सिर्फ अपनी सभाओं में पारित प्रस्तावों अर्थां द्वारा किया जायेगा:—

- 1) अपने अंशों पर अदत्त राशि के संबंध में अंशधारकों पर कॉल करने की शक्ति,
- 2) ऋणपत्रों को जारी करने की शक्ति,
- 3) ऋणपत्रों द्वारा अन्यथा राशियां उधार लेने की शक्ति,
- 4) कंपनी की निधियों को निवेश करने की शक्ति, एवम
- 5) ऋण लेने की शक्ति,

बशर्ते कि बोर्ड, सभा में पारित प्रस्ताव द्वारा, निदेशकों की किसी समिति, अध्यक्ष, प्रबंध निदेशक, पूर्णकालिक निदेशक या किसी अन्य अधिकारी या कंपनी के शाखा कार्यालय के मामले में, कंपनी के शाखा कार्यालय का मुख्य अधिकारी, अधिनियम की धारा 292 में निर्दिष्ट सीमा के लिये उपरोक्त उप-अनुच्छेदों (3), (4) एवम (5) में निर्दिष्ट शक्तियों का प्रतिनिधित्व करेगा।

कुछ शक्तियों को काम में लेने के लिये कंपनी की सहमति आवश्यक

165. बोर्ड साधारण सभा में कंपनी की सहमति के सिवाय नहीं करेगा:—

- (1) कंपनी के उपक्रम को पूर्ण, या काफी हद तक पूर्ण, को नहीं बेचना पट्टे पर देना या अन्यथा निपटाना, या जहां कंपनी के स्वामित्व में इस तरह के किसी उपक्रम का एक से अधिक उपक्रम है, पूर्ण या काफी हद तक पूर्ण,
- (2) निदेशकों द्वारा बकाया किसी ऋण के पुर्नभुगतान के लिये छोड़ना या समय देना,
- (3) न्यास प्रतिभूतियों में अन्यथा निवेश, इस तरह के किसी उपक्रम को कंपनी की सहमति के बिना अभिग्रहण के परिणामस्वरूप विक्रय प्रारंभ करना, जैसा उपरोक्त उप-अनुच्छेद (1) में संदर्भित है, या इस तरह के किसी उपक्रम के लिये उपयोग में लिये जा रहे कोई परिसर या संपत्तियां एवम जिसके बिना इसे सिर्फ विचार योग्य समय के पश्चात या सिर्फ कठिनाई पर नहीं किया जा सकता या किया जा सकता है,
- (4) राशियां उधार लेना जहां कंपनी द्वारा पहले से ही उधार ली गई राशियों के साथ राशियां उधार ली जानी है, (व्यवसाय के सामान्य कार्य में कंपनी के बैंकर्स से प्राप्त अस्थाई ऋण के अतिरिक्त) कंपनी की प्रदत्त पूंजी के कुल से अधिक होगा एवम यह स्वतंत्र रिजर्व होता है जिसे रिजर्व कहा जाता है, किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिये अलग से निर्धारित नहीं, या

- (5) कंपनी के व्यवसाय से प्रत्यक्ष तौर पर संबंधित नहीं धर्मादा एवम अन्य निधियों या अपने कर्मचारियों के कल्याण में योगदान जिसके लिये कोई सकल राशि, जो कि किसी वित्तीय वर्ष में रु. 50,000 /— (रुपये पचास हजार मात्र) से अधिक, या अपने औसत शुद्ध लाभों का पांच प्रतिशत, जो भी ज्यादा होता है, पूर्ववर्ती तत्काल तीन वर्षों के दरम्यान अधिनियम के प्रावधानों के अनुसरण में निर्धारित अनुसार.

निदेशकों को प्रदान विशिष्ट शक्तियां

166. इन अनुच्छेदों द्वारा प्रदत्त पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, किन्तु अधिनियम के प्रावधानों के अधीन, यह इसके द्वारा स्पष्ट रूप से घोषित किया जाता है कि निदेशकों को निम्नलिखित शक्तियां होगी:—

- (1) कंपनी के संवर्धन, गठन, स्थापना एवम पंजीकरण के लिये प्रारंभिक एवम आकस्मिक लागतों, शुल्कों एवम खर्चों का भुगतान करना,
- (2) विदेश में उपयोग के लिये अधिकारिक मुहर का होना,
- (3) अधिनियम के प्रावधानों के अनुसरण में विदेशी पंजिका रखना,
- (4) किसी संपत्ति अधिकार या विशेषाधिकार को कंपनी के लिये क्रय करना या अन्यथा अभिग्रहण करना, जिसे इस तरह के मूल्य एवम सामान्यतः इस तरह की शर्तों एवम दशाओं पर प्राप्त करने के लिये कंपनी अधिकृत होती है.

संपत्ति के लिये भुगतान करना

- (5) कंपनी द्वारा या कंपनी को सेवाएं प्रदान करने के लिये कोई संपत्ति अधिकार या विशेषाधिकार क्रय करना या अन्यथा उपार्जित करना, या तो पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से रोकड़ में, या कंपनी के अंशों, बंधपत्रों, ऋणपत्रों, ऋणपत्र स्टॉक या अन्य प्रतिभूतियों में, एवम इस तरह के कोई भी अंश जारी किये जा सकते हैं चाहे पूर्ण प्रदत्त तौर पर या उस पर प्रदत्त तौर पर इस तरह से जमा राशि सहित, जैसे भी उस पर सहमति हो सकती है, एवम इस तरह के कोई बंधपत्र, ऋणपत्र, ऋणपत्र स्टॉक या अन्य प्रतिभूतियां हो सकती है, या तो कंपनी की सभी संपत्तियों पर विशिष्ट प्रभार पर या उसके किसी भाग पर एवम यह अनाहूत या इस तरह से प्रभारित नहीं पूंजी होती है.

संपत्तियों का बीमा कराना

- (6) इस तरह की अवधि एवम इस तरह की सीमा के लिये आगे या अन्यथा द्वारा हानि या नुकसान के विरुद्ध बीमा करना एवम बीमा रखना, जैसा वे उचित समझ सकते हैं, सभी भवन, मशीनरी, माल, भंडार, उत्पादन एवम कंपनी की अन्य चल संपत्तियां या इसका कोई भाग, या तो पृथक् रूप से या सह-संयुक्त रूप से, माल, उत्पाद, मशीनरी एवम कंपनी द्वारा अन्य आयातित या निर्यातित वस्तुओं का भी बीमा करना एवम इस शक्ति के अनुसरण में प्रभावित बीमे की किसी पॉलिसी को बेचना, निर्दिष्ट करना, समर्पण करना या बंद करना.

बैंक खातें खोलना

- (7) किसी बैंक या बैंकर्स या किसी कंपनी, फर्म या व्यक्ति के यहां खाता खोलने एवम समय-समय पर इस तरह के किसी खाते से राशि का भुगतान करने एवम राशि निकालने, जैसा भी निदेशक उचित समझ सकते हैं.

संविदाओं में प्रवेश करना एवम उन्हें सुरक्षित करना

- (8) इस तरह की सभी सौदेबाजियों एवम संविदाओं में प्रवेश करना एवम रद्द करना एवम इस तरह की सभी संविदाओं को बदलना एवम निष्पादित करना एवम कंपनी के नाम पर एवम कंपनी की ओर से इस तरह के सभी कार्य, विलेख या चीजें करना, जैसा कंपनी के उद्देश्य के लिये उपरोक्त कथित कोई मामला या अन्यथा के संबंध में या उसकी सीमा के लिये व विचार कर सकते हैं एवम कंपनी एवम इस तरह की अन्य दशा में तत्समय अदत्त पूंजी की सभी या किसी संपत्ति को गिरवी या चार्ज में रखने के लिये किन्हीं संविदाओं या व्यवस्थाओं में प्रवेश करने के लिये प्रतिपूर्ति को सुरक्षित करना, जैसा भी उचित समझा जा सकता है.

शर्तें संलग्न करना

- (9) कंपनी द्वारा उपार्जित किसी संपत्ति के साथ या किसी संविदा के लिये प्रतिफल के तौर पर या प्रतिफल के भाग में जारी किये जाने वाले किन्हीं को संलग्न करने के लिये, या कंपनी

को प्रदान की गई सेवाओं के लिये भुगतान में, इसके हस्तांतरण के तौर पर इस तरह की शर्तें, जैसा उचित समझा जा सकता है.

अंशों इत्यादि के समर्पण का स्वीकार करना

- (10) इस तरह की शर्तों एवम दशाओं पर किसी सदस्य से स्वीकार करना जैसा अपने अंशों या स्टॉक्स या इसके किसी भाग को समर्पण करने के लिये सहमत होगा.

न्यासियों को नियुक्त करना

- (11) कंपनी से संबंधित किसी संपत्ति को कंपनी के लिये न्यास में स्वीकार एवम धारण करने के लिये किसी व्यक्ति या व्यक्तियों (चाहे निगमित है या नहीं) को नियुक्त करना या उसमें वह हितबद्ध है, या किन्हीं अन्य उद्देश्यों के लिये एवम इस तरह के सभी कार्य एवम चीजें करने एवम निष्पादित करने के लिये, जैसा इस तरह के न्यासी या न्यासियों के प्रतिफल के लिये प्रदान करने के लिये एवम इस तरह के किसी न्यास के संबंध में अपेक्षित हो सकता है.

कानूनी प्रक्रियाओं को प्रारंभ करने या बचाव करना

- (12) कंपनी के कार्यों से संबंधित कंपनी या इसके अधिकारियों या अन्यथा द्वारा या विरुद्ध किन्हीं कानूनी कार्यवाहियों को प्रारंभ करना, संचालित करना, बचाव करना या छोड़ देना, एवम कंपनी के विरुद्ध या द्वारा किन्हीं दावों या मांगों या किसी बकाया ऋण की पूर्ति या भुगतान के लिये समय की अनुमति देना.

पंचनिर्णय को संदर्भित करना

- (13) पंचनिर्णय एवम पंचाट के अवलोकन के एक निष्पादन करने के लिये कंपनी के विरुद्ध या द्वारा किसी दावे या मांग को संदर्भित करना

दिवालियापन एवम दिवाला के मामलों में कार्य करना

- (14) दिवालियापन एवम दिवाला से संबंधित सभी मामलों में कंपनी की ओर से कार्य करना.

पावतियां प्रदान करना

- (15) कंपनी को देय राशियां एवम कंपनी के दावों एवम मांगों के लिये पावतियां बनाना एवम प्रदान करना.

बिलों इत्यादि के निष्पादन को अधिकृत करना

- (16) समय-समय पर यह निर्धारित करना कि कंपनी की ओर से बिलों, टिप्पणियों, पावतियों, स्वीकृतियों, पृष्ठांकनों, चैकों, लाभांश वारंटों, विज्ञप्तियों, संविदाओं एवम दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने के लिये कौन हकदार होगा.

राशियों का निवेश करना

- (17) कंपनी की किन्हीं राशियों के साथ व्यवहार करना एवम निवेश करना, जिसकी उसके उद्देश्य के लिये तत्काल आवश्यकता नहीं होती है, इस तरह की प्रतिभूतियों एवम इस रीति से, जैसा वे इस तरह के निवेशों को बदलने या प्राप्त करने के लिये समय-समय पर उचित समझ सकते हैं.

क्षतिपूर्ति द्वारा प्रतिभूति प्रदान करना

- (18) किसी निदेशक या अन्य व्यक्ति के पक्ष में कंपनी के नाम से एवम कंपनी की ओर से निष्पादित करना, जो कंपनी की संपत्तियों (वर्तमान एवम भविष्य) के इस तरह के बंधक को कंपनी के लिये किसी व्यक्तिगत दायित्व को उठा सकते हैं या उठाने से संबंधित हो सकते हैं, जैसा वे उचित समझते हैं, एवम इस तरह के किसी बंधक में बेचने की शक्ति या अन्य शक्तियां, संविदाएं एवम प्रावधान निहित हो सकते हैं, जैसा उस पर सहमति होगी.

बोनस वितरित करना

- (19) कंपनी के लाभों में अंश के द्वारा कंपनी के स्टाफ को बोनस वितरित करना, एवम कंपनी के संचालन खर्चों के एक भाग के तौर पर इस तरह का बोनस या कमीशन प्रभारित करने के लिये एवम किसी विशिष्ट कार्य या लेनदेन के लाभों पर कमीशन कंपनी द्वारा किसी अधिकारी या अन्य नियोजित व्यक्ति को प्रदान करना.

विशिष्ट कार्य या लेनदेन इत्यादि के लिये हित प्रदान करना

- (20) कंपनी द्वारा नियोजित किसी निदेशक, अधिकारी या अन्य व्यक्ति को किसी विशिष्ट कार्य या लेनदेन या अन्यथा या कंपनी के सामान्य लाभों में हित प्रदान करना एवम इस तरह का हित, कमीशन या लाभों का अंश कंपनी के संचालन व्यय के तौर पर व्यवहार किया जायेगा।

बशर्ते कि कंपनी के निदेशकों या अधिकारियों या इस तरह के अन्य व्यक्ति को देय कंपनी के सामान्य लाभों में हिस्सा उसके बराबर कुल राशि से अधिक नहीं होगा (i) कंपनी के शुद्ध लाभ का एक प्रतिशत, यदि कंपनी प्रबंधित की जा रही है या पूर्णकालिक निदेशक या प्रबंधक, (ii) अधिनियम की धारा 349 एवम 350 के प्रावधानों के अनुसरण में निर्धारित तौर पर किसी भी मामले में कंपनी के शुद्ध लाभों का तीन प्रतिशत।

बशर्ते आगे कि शुद्ध लाभों के प्रतिशत पर यह सीमा या प्रतिबंध कंपनी के कर्मचारियों को सामान्य बोनस के किसी वितरण के लिये लागू नहीं होगा।

कर्मचारियों इत्यादि के कल्याण के लिये प्रदान करना

- (21) कंपनी के कर्मचारियों या पूर्व कर्मचारियों या व्यवसाय में इसके पूर्ववर्ती एवम पत्नी, विधवा या विधुर, पिता (सौतेले पिता को सम्मिलित करते हुए), माता (सौतेली माता को सम्मिलित करते हुए), भाई (सौतेले भाई को सम्मिलित करते हुए), बहन (सौतेली बहन को सम्मिलित करते हुए) पुत्र (सौतेले पुत्र को सम्मिलित करते हुए), पुत्री (सौतेली पुत्री को सम्मिलित करते हुए), पुत्र की विधवा, पुत्रियों के विधुर, मृतक पुत्र के बच्चे, मृतक पुत्रियों के बच्चों या इस तरह के कर्मचारियों एवम पूर्व कर्मचारियों के निर्भर, के कल्याण के लिये, भवन या घरों के भवन के लिये योगदान या आवास द्वारा, या राशि, पेन्शन, भत्तों, बोनस, अनुग्रहपूर्वक या अन्य भुगतानों द्वारा या समय-समय पर प्रोवीडेन्ट फंड एवम अन्य सहयोगियों, संस्थाओं, निधियों या न्यासों के लिये सदस्यता या योगदान बनाने के द्वारा एवम निदेशों के स्थानों की ओर सदस्यता या योगदान द्वारा एवम मनोरंजन, अस्पताल एवम औषधालय, चिकित्सा एवम अन्य उपस्थितियों एवम दान, परोपकार, राष्ट्रीय या अन्य संस्थानों या उद्देश्यों की अन्यथा सहायता द्वारा प्रदान करना।

धर्मादा निधि इत्यादि के लिये सदस्यता देना

- (22) किसी राष्ट्रीय, धर्मार्थ, परोपकार, सार्वजनिक, सामान्य या उपयोगी उद्देश्य के लिये या किसी प्रदर्शनी या किसी संस्था, क्लब, सोसायटी या निधि के लिये गारंटी राशि या सदस्यता प्रदान करना।

रिजर्व, रिजर्व निधि बनाने इत्यादि के लिये निधियों को रद्द करना

- (23) कंपनी के लाभों से बाहर, इस तरह की राशियों को किसी लाभांश की अनुशंसा से पहले, रद्द करने के लिये, जैसा निदेशक उचित समझ सकते हैं कंपनी के किसी भाग की मरम्मत, सुधार, विस्तार या रखरखाव के लिये या आकस्मिकता या रिजर्व निधि को प्राप्त करने के लिये मूल्य-ह्रास के लिये या मूल्य-ह्रास निधि के लिये या रिजर्व के तौर पर या किसी निधि या किसी ऋणशोधन निधि या किसी विशेष निधि, जैसा निदेशक अपने एकमात्र विवेक से कंपनी के हितों के अनुकूल समझ सकते हैं, एवम निदेशक इस तरह के रद्द की गई कई निधियों या इसके तत्संबंधी को निवेश कर सकते हैं, जैसा इस तरह निवेशों (अधिनियम द्वारा लागू प्रतिबंधों के अधीन) पर निवेश करने के लिये निदेशक उचित समझ सकते हैं, एवम इस तरह के भिन्न निवेशों के साथ समय-समय पर व्यवहार करना एवम निपटान करना एवम कंपनी के लाभों के लिये सभी या इसके किसी भाग को लागू करना या विस्तार करना, इस तरह की रीति से एवम इस तरह के उद्देश्यों के लिये, जैसा निदेशक (उपरोक्त कथित इस तरह के प्रतिबंधों के अधीन) कंपनी के हितों के लिये अपने एकमात्र विवेक पर उचित एवम अनुकूल समझ सकते हैं, इसके बावजूद भी कि मामलों जिसके लिये निदेशक लागू करते हैं या जिस पर इसका विस्तार करते हैं, या इसके किसी भाग को, मामलों के लिये हो सकता है, या जिस पर कंपनी की पूंजी राशियों को ठीक से लागू या विस्तारित किया जा सकता है, एवम निदेशक रिजर्व या इस तरह की किसी विशेष निधि को विभाजित कर सकते हैं एवम किसी राशि को एक निधि से अन्य में हस्तांतरित कर सकते हैं, जैसा निदेशक उचित समझ सकते हैं, एवम उपरोक्त सभी या किसी निधि को गठित करते हुए संपत्तियों को कंपनी के व्यवसाय में या क्रय या ऋणपत्रों के पुर्नभुगतान में नियोजित कर सकते हैं, जिसमें मूल्य-ह्रास निधि सम्मिलित है, एवम कि इनको अन्य संपत्तियों से पृथक रखने के लिये बाध्य हुए बिना, एवम शक्ति सहित इन पर ब्याज का भुगतान करने के लिये बाध्य हुए बिना,

यद्यपि, निदेशकों के लिये अपने विवेक पर इस तरह के निधि ब्याज को इस तरह की दर पर भुगतान करने या जमा करने की अनुमति निदेशक अपने विवेक पर, जैसा भी निदेशक उचित समझ सकते हैं.

अधिकारियों इत्यादि को नियुक्त करना

- (24) इस तरह की समिति या समितियों के विशेषज्ञों, तकनिशियनों या सलाहकारों या इस तरह के प्रबंधकों, अधिकारियों, लिपिकों, कर्मचारियों, एवम स्थाई, अस्थायी या विशेष सेवाओं के लिये अभिकर्ताओं की नियुक्ती करना एवम अपने विवेक पर निष्कासित या निलंबन करना, जैसा वे समय-समय पर उचित समझ सकते हैं, एवम उनकी शक्तियों एवम कर्तव्यों का निर्धारण करना एवम उनके वेतनों एवम परिलब्धियों एवम इस तरह के उदाहरणों में आवश्यक सुरक्षा को निश्चित करना एवम इस तरह की राशियों के लिये, जैसा वे उचित समझ सकते हैं, एवम उपरोक्त कथित पर विपरीत प्रभाव डाले बिना भी, समय-समय पर कंपनी कार्यों के प्रबंधन एवम लेनदेन के लिये प्रदान करना, इस तरह की दशाओं में भारत में किसी विशिष्ट स्थान पर, जैसा वे उचित समझ सकते हैं एवम उप-अनुच्छेद (25) एवम (26) में निहित प्रावधान इस उप-अनुच्छेद द्वारा निहित समान्य शक्तियों के लिये प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगा.

स्थानीय कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करना

- (25) स्थानीय कानून की आवश्यकताओं का अनुपालन सुनिश्चित करना, जो उनकी राय में, जिनका पालन करना कंपनी के हित में आवश्यक एवम फायदेमंद होगा.

स्थानीय बोर्डों की स्थापना करना

- (26) समय-समय पर एवम किसी भी समय, कंपनी के कार्यों के प्रबंधन के लिये भारत में या अन्यत्र में किसी विशिष्ट स्थान पर किसी स्थानीय बोर्ड को स्थापित करना एवम किसी स्थानीय बोर्डों के सदस्यों होने के लिये किन्हीं व्यक्तियों की नियुक्ति करना एवम उनके प्रतिफल को निर्धारित करना एवम समय-समय पर एवम किसी भी समय, किन्तु अधिनियम की धारा 292 एवम 293 एवम उसके अनुच्छेदों के प्रावधानों के अधीन, इस तरह से नियुक्त किसी व्यक्ति के लिये किसी शक्ति, अधिकारिया या निर्देशों को समय-समय के लिये निदेशकों में निहित होकर प्रतिनिधित्व करना एवम इस तरह के किसी स्थानीय बोर्ड के सदस्यों को तत्समय के लिये या इसमें से किसी को भी इसमें शक्तियों को भरने के लिये अधिकृत करना एवम कार्य करना इसके बावजूद भी कि शक्तियां एवम इस तरह कोई नियुक्तियां या प्रतिनिधित्व इस तरह की शर्तों एवम इस तरह की दशाओं के अधीन बनाया जा सकता है, जैसा निदेशक उचित समझ सकते हैं, एवम निदेशक किसी भी समय इस तरह से नियुक्त किये गये किसी व्यक्ति को हटा सकते हैं एवम इस तरह के प्रतिनिधित्व का अन्त कर सकते हैं या भिन्न कर सकते हैं. इस तरह का कोई भी प्रतिनिधि निदेशकों द्वारा उप-प्रतिनिधि के लिये अधिकृत हो सकता है एवम उसमें तत्समय के लिये सभी या कोई शक्ति, अधिकारिता एवम विवेक निहित हो सकता है.

एटोर्नी को नियुक्त करना

- (27) किसी व्यक्ति को इस तरह के उद्देश्यों एवम इस तरह की शक्तियों, प्राधिकारों एवम विवेकों (इन अनुच्छेदों के तहत निदेशकों द्वारा प्रयोग में लिये जाने वाले या उनमें निहित से अधिक नहीं) के लिये एवम इस तरह की अवधि एवम इस तरह की दशाओं के अधीन, किसी व्यक्ति को पॉवर ऑफ एटोर्नी द्वारा किसी भी समय एवम समय-समय पर किन्तु अधिनियम की धारा 292 एवम उसके अनुच्छेदों के प्रावधानों के अधीन, नियुक्त करना, जैसा निदेशक समय-समय पर उचित समझ सकते हैं, एवम इस तरह की कोई भी नियुक्ति (यदि निदेशक उचित समझते हैं) सदस्यों के पक्ष में या किसी कंपनी या कंपनी के सदस्यों, निदेशकों, नामांकितों या प्रबंधकों या फर्म या अन्यथा व्यक्तियों की किसी अस्थिर निकाय के पक्ष में, चाहे निदेशकों द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नामांकित किया जाता है, इस तरह के एटोर्नी के साथ व्यवहार करने वाले व्यक्ति की सुरक्षा एवम सुविधा के लिये इस तरह शक्तियां इस तरह की किसी पॉवर ऑफ एटोर्नी में निहित हो सकती है.

योजनाओं इत्यादि को निरूपित करना

- (28) इस तरह की योजनाओं, ट्रस्ट, आलेखों या प्रस्तावों को निरूपित, तैयार, स्थापित या निर्धारित करना, जैसा वे कंपनी के अधिकारियों, कर्मचारियों एवम कामगारों को प्रोत्साहन प्रदान करने

के उद्देश्य के लिये उचित समझ सकते हैं, जिसमें कंपनी के अंशों या ऋणपत्रों की अधिकारियों, कर्मचारियों एवम कामगारों द्वारा सदस्यता के लिये योजनाओं को पूर्वगामी, सूत्रीकरण की व्यापकता को सीमित किये बिना सम्मिलित है।

शक्तियों का प्रतिनिधिमंडल

- (29) अधिनियम एवम इन अनुच्छेदों के प्रावधानों के अधीन, निदेशकों में निहित शक्तियों, प्राधिकारों एवम विवेक को किसी व्यक्ति, फर्म, कंपनी या उपरोक्त कथित तौर पर अस्थिर निकाय या व्यक्तियों को प्रतिनिधित्व करना।

प्रतिनिधि मंडल द्वारा शक्तियों का उप-प्रतिनिधिमंडल

- (30) उपरोक्त कथित तौर पर इस तरह का कोई प्रतिनिधि या एटोर्नी उसमें तत्समय निहित सभी या किन्हीं शक्तियों, प्राधिकारों एवम विवेक के लिये निदेशकों द्वारा अधिकृत किया जा सकता है।

बोर्ड की शक्तियां

167. (1) बोर्ड को इन अनुच्छेदों के प्रावधानों एवम एस.सी.आर.ए. अधिनियम एवम उसके अंतर्गत निर्मित नियमों के प्रावधानों के अधीन एक्सचेंज के व्यापार सदस्यों द्वारा एक्सचेंज के संचालनों एवम वस्तुओं के लेनदेन को आयोजित, रखरखाव, नियंत्रण, प्रबंधन, विनियमित एवम सुविधाजनक करने के लिये शक्ति होगी।
- (2) इन अनुच्छेदों एवम एस.सी.आर.ए. अधिनियम एवम इसके अंतर्गत निर्मित नियमों के प्रावधानों एवम सेबी द्वारा किन्हीं निदेशों के अधीन, बोर्ड को समय-समय पर, एक्सचेंज के व्यवसाय को संचालित करने के संबंध में किसी या सभी मामलों के लिये नियम, उपनियम एवम विनियम बनाने के लिये शक्ति एवम व्यापक अधिकार है, व्यापार सदस्यों एवम व्यापार सदस्यों के साथ-साथ उन व्यापार सदस्यों एवम व्यक्तियों के मध्य परस्पर लेनदेन, जो व्यापार सदस्य नहीं हैं, एवम इस तरह के सभी लेनदेनों को नियंत्रित, परिभाषित एवम विनियमित करने के लिये एवम इस तरह के सभी कार्यों एवम चीजों को करने के लिये, जो एक्सचेंज या कंपनी के उद्देश्यों के लिये आवश्यक होती है।
- (3) पूर्वगामी की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, बोर्ड को निम्नलिखित मामलों के सभी या किन्हीं नियमों, उपनियमों एवम विनियमों को अन्य उद्देश्यों की ओर बनाने के लिये शक्ति होगी:—
- ए) एक्सचेंज के सदस्यों के प्रवेश के लिये शर्तें,
- बी) एक्सचेंज के व्यवसाय का संचालन,
- सी) एक्सचेंज के व्यवसाय के संबंध में व्यवसाय सदस्यों का आचरण, जिसमें सभी प्रकार की वस्तुओं में सभी लेनदेनों के संबंध में सभी मामले एवम सभी संविदाएं सम्मिलित है, जो एक्सचेंज के नियमों, उपनियमों, विनियमों या उपयोग के अधीन बनाये गये हैं,
- डी) प्रवेश किये जाने वाली संविदाओं के प्रपत्र एवम शर्तें, एवम व्यापार सदस्यों एवम व्यापार सदस्यों एवम उनके घटकों के मध्य परस्पर संविदाओं के प्रदर्शन का समय, माध्यम एवम रीति,
- ई) एक्सचेंज पर व्यवहार करने के लिये वस्तुओं के प्रवेश के लिये शर्तें एवम कर,
- एफ) एक्सचेंज पर व्यवसाय चलाने के लिये समय, स्थान एवम रीति,
- जी) एक्सचेंज के नियमों, उपनियमों एवम विनियमों या सामान्य अनुशासन की अवहेलना या उल्लंघन के लिये दंड, जिसमें व्यापार सदस्यों का निष्कासन एवम निलंबन सम्मिलित है,
- एच) एक्सचेंज की व्यापार सदस्यता एवम इसके परिणामस्वरूप चूककर्ता या निलंबन या त्यागपत्र या निष्कासन के तौर किसी व्यापार सदस्य की घोषणा,
- आई) कमीशन या दलाली का पैमाना जो व्यापार सदस्य प्रभारित कर सकते हैं,
- जे) एक्सचेंज की व्यापार सदस्यता की निरंतरता या प्रवेश के लिये सदस्यता या प्रवेश के लिये शर्तें, कर,

- के) इस तरह के स्क्रिप्स, वस्तुओं, उनके व्युत्पन्नों इत्यादि में लेनदेन के लिये व्यापार सदस्यों द्वारा देय शुल्क, जैसा समय—समय पर निर्धारित किया जा सकता है,
- एल) व्यापार सदस्यों की वित्तीय दशा, व्यवसाय आचरण एवम व्यवहारों का अन्वेषण,
- एम) व्यापार सदस्यों एवम व्यक्तियों के मध्य उत्पन्न होने वाले विवादों, शिकायतों, दावों का समाधान, जो परस्पर व्यापार सदस्य के साथ—साथ व्यापार सदस्यों एवम व्यक्तियों के मध्य नहीं होते हैं, जो एक्सचेंज के नियमों, उपनियमों एवम विनियमों एवम उपयोग के अधीन वस्तुओं के किसी लेनदेन के संबंध में व्यापार सदस्य नहीं होते हैं, जिसमें समय—समय पर प्रभाव में एक्सचेंज के नियमों, उपनियमों एवम विनियमों एवम उपयोग के अनुसरण में पंचनिर्णय द्वारा समझौता सम्मिलित है.
- (एन) समाशोधन गृहों की स्थापना एवम कामकाज या समाशोधन के लिये अन्य व्यवस्थाएं,
- ओ) एक्सचेंज के किन्हीं उद्देश्यों के लिये समिति या समितियों की नियुक्ति.
- (4) बोर्ड एक्सचेंज के सभी या किन्हीं कार्यों का प्रबंधन करने के लिये, उसके निहित सभी या किन्हीं शक्तियों को कार्यकारी समिति या किसी व्यक्ति को प्रतिनिधित्व के लिये सशक्त बनायेगा.
- (5) इन अनुच्छेदों एवम एस.सी.आर.ए. अधिनियम एवम इसके अंतर्गत गठित नियमों के प्रावधानों एवम सेबी से किसी निर्देशों के अधीन, बोर्ड को इसके द्वारा नियमों, उपनियमों एवम विनियमों को भिन्न, संशोधन या निरस्त या जोड़ने के लिये सशक्त करेगा.

कार्यकारी समिति

168. (1) बोर्ड एक्सचेंज के पूर्ण या भाग का प्रबंधन करने के लिये एक या अधिक कार्यकारी समितियों का गठन करेगा एवम उन्हें सशक्त बनायेगा,
- (2) कार्यकारी समिति का संयोजन एवम अधिकतम शक्ति इस तरह से होगी जैसा समय—समय पर एक्सचेंज के नियमों में निर्धारित किया जा सकता है.
- (3) कंपनी का प्रबंध निदेशक कार्यकारी समिति का पदेन अध्यक्ष एवम एक्सचेंज का मुख्य कार्यकारी होगा.
- (4) बोर्ड एक्सचेंज के कार्यों के संचालन के संबंध में समय—समय पर इस तरह के निर्देश दे सकता है एवम इस तरह के निर्देश एक्सचेंज एवम ई.सी. पर बाध्यकारी होंगे. यदि किसी भी समय बोर्ड संतुष्ट होता है कि विद्यमान परिस्थितियां, जो प्रस्तुत हैं, सार्वजनिक हित में ऐसा करना आवश्यक है, तो बोर्ड कार्यकारी समिति को हटा सकता है या भंग कर सकता है एवम इस तरह की शक्तियों एवम इस तरह की शर्तों सहित नई कार्यकारी समिति को नियुक्त एवम पुनर्गठित कर सकता है, जैसा बोर्ड अपने विवेक पर उचित समझ सकता है.
- (5) कार्यकारी समिति बोर्ड द्वारा प्रतिनिधिमंडल की शर्तों एवम दशाओं के अधीन हो सकता है एवम इस तरह के प्रतिनिधिमंडल की सीमा के लिये इस तरह की सभी शक्तियों को काम में ले सकता है एवम इस तरह के सभी कार्य एवम चीजे कर सकता है, जैसा बोर्ड द्वारा किया जा सकता है या किया गया है.

सचिव

सचिव की नियुक्ति एवम निष्कासन

169. निदेशक समय—समय पर किसी कार्य के निष्पादन के लिये सचिव को नियुक्त कर सकता है, जिसके द्वारा सचिव द्वारा कार्य निष्पादित किये जाने हैं एवम किन्हीं अन्य मंत्रालय संबंधी या प्रशासनिक कर्तव्यों को निष्पादित करने के लिये जो निदेशकों द्वारा समय—समय पर सचिव को निर्दिष्ट किये जा सकते हैं एवम उनके निर्देशन पर इस तरह के किसी सचिव को निष्कासित किया जा सकता है. निदेशक किसी भी समय किसी व्यक्ति या व्यक्तियों (जिसे सचिव बनने की आवश्यकता नहीं है) को भी कंपनी द्वारा रखी जाने वाली आवश्यक पंजिकाओं को रखने के लिये नियुक्त कर सकते हैं, बशर्ते कि यदि कंपनी की प्रदत्त पूंजी निर्धारित सीमा से अधिक होगी तो इस तरह के प्रसंग में, कंपनी अधिनियम की धारा 383—ए में प्रदान तौर पर पूर्णकालिक सचिव को नियुक्त करेगी एवम उसके पास इस तरह की योग्यता होगी, जैसा अधिनियम की धारा 2(45) के अंतर्गत नियमों द्वारा समय—समय पर निर्धारित किया जा सकता है.

मुहरमुहर, इसकी अभिरक्षा एवम उपयोग

170. निदेशक कंपनी के उद्देश्य के लिये समान मुहर प्रदान करेंगे एवम उनको समय-समय पर इसको नष्ट करने एवम उसके स्थान पर स्थानापन्न नई मुहर बनवाने की शक्ति होगी, एवम मुहर निदेशकों या निदेशकों की समिति के प्राधिकार के अंतर्गत के सिवाय कभी भी उपयोग में नहीं ली जायेगी एवम एक निदेशक की उपस्थिति में, सचिव या कोई अन्य व्यक्ति जो कि कम से कम इस संबंध में अधिकृत किया जा सकता है, वह प्रत्येक दस्तावेज पर हस्ताक्षर करेगा, जिसके लिये मुहर लगाई गई है, बशर्ते कि अंशों एवम ऋणपत्रों के प्रमाणपत्र समय-समय पर कंपनी (अंश प्रमाणपत्रों को जारी करना) नियम, 1960 द्वारा प्रदान किये गये अनुसार इस तरह के व्यक्तियों के हस्ताक्षरों से किये जा सकते हैं, कंपनी द्वारा आवश्यक प्रमाणीकरण वाले दस्तावेज या कार्यवाहियां निदेशक या सचिव या बोर्ड की ओर से अधिकृत कोई अन्य अधिकारी हस्ताक्षर कर सकता है एवम अपनी मुहर के अंतर्गत आवश्यकता नहीं होती है.

विदेश में मुहर

171. अधिनियम की धारा 50 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को कंपनी उपयोग में ले सकती है एवम इस तरह की शक्तियां तदनुसार निदेशकों में निहित होगी.

लाभांशलाभों का विभाजन

172. अधिनियम या इन अनुच्छेदों के प्रावधानों के अधीन एवम संस्था के बहिर्नियमों या इन अनुच्छेदों द्वारा बनाये जाने के लिये या प्राधिकृत इससे संबंधित किन्हीं विशेष अधिकारों के तहत कंपनी का लाभ, सदस्यों द्वारा क्रमशः धारित अंशों में प्रदत्त पूंजी की राशि के भाग के अधीन सदस्यों में विभाज्य होगा.

ब्याज पर अग्रिम में प्रदत्त पूंजी पर लाभांश प्राप्त नहीं

173. जहां पर पूंजी कॉल्स के अग्रिम में प्रदत्त होती है, कि यह ब्याज लायेगी इस तरह की पूंजी जब तक ब्याज लाती है तब तक लाभांश का अधिकार या लाभों में सहभागिता नहीं होगी.

प्रदत्त राशि के भाग में लाभांश

174. कंपनी प्रत्येक अंश पर प्रदत्त के तौर पर लाभांश को राशि के भाग में प्रदत्त या जमा कर सकती है, जहां अन्यो पर कुछ अंशों पर प्रदत्त तौर पर बड़ी राशि अदा या जमा की जाती है.

कंपनी साधारण सभा में लाभांशों की घोषणा कर सकती है

175. लाभों में उनसे संबंधित अधिकारों एवम हितों के अनुसरण में कंपनी वार्षिक साधारण सभा में सदस्यों को अदा किये जाने के लिये लाभांशों की घोषणा कर सकती है एवम भुगतान का समय निश्चित कर सकती है.

लाभों से बाहर अदा किये जाने वाले लाभांश

176. (1) अधिनियम की धारा 205 के प्रावधानों के अनुसरण में मूल्य-ह्रास के लिये प्रदान किये जाने के पश्चात आए वित्तीय वर्ष के लाभों से बाहर या बचे हुए बिना वितरित एवम उन प्रावधानों के अनुसरण में मूल्य-ह्रास के लिये प्रदान करने के पश्चात अपने वाले किसी पूर्व वित्तीय वर्ष या वर्षों के लिये या दोनों के बाहर कोई भी लाभांश घोषित या अन्यथा अदा नहीं किया जायेगा, बशर्ते कि:

- ए) यदि कंपनी ने किसी पूर्व वित्तीय वर्ष या वर्षों के लिये मूल्य-ह्रास प्रदान नहीं किया है, तो उस वित्तीय वर्ष के लाभों से पहले या इस तरह के किसी पूर्व वित्तीय वर्ष या वर्षों के लाभों से पहले मूल्य-ह्रास किसी वित्तीय वर्ष के लिये घोषित या अदा किये जाने से पहले होगा,
- बी) यदि कंपनी ने किसी पूर्व वित्तीय वर्ष या वर्षों में कोई हानि उठाई है, तो हानि की राशि या वह राशि जो उस वर्ष या इन वर्षों के लिये मूल्य-ह्रास के लिये प्रदान राशि के समान होता है, कंपनी के लाभों के विरुद्ध निर्धारित की जायेगी जिसके लिये लाभांश घोषित करने के लिये या अदा किये जाने के लिये या किसी पूर्व वित्तीय वर्ष या वर्षों के लिये कंपनी के लाभों के विरुद्ध प्रस्तावित होता है, दोनों मामलों पर

पहुँचने पर, अधिनियम की धारा 205 की उपधारा (2) के प्रावधानों के अनुसरण में मूल्य-ह्रास के लिये प्रदान किये जाने के पश्चात या दोनों के विरुद्ध.

- (2) कंपनी अपने अंशों पर कोई भी लाभांश का भुगतान नहीं करेगी, जब तक इसके सभी पूंजीगत खर्चे (जिसमें सम्मिलित है, प्रारंभिक खर्चे, संगठनात्मक खर्चे, अंश बेचने का कमीशन, दलाली, उठाई गई हानियों की राशि एवम वास्तविक संपत्ति द्वारा प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं खर्चों की कोई अन्य वस्तु पूर्ण रूप बट्टे खाते में डाल दी जायेगी.
- (3) अधिनियम में या उप-अनुच्छेद (2) में निहित कुछ भी विपरीत होने के बावजूद भी, कंपनी बिना बट्टे खाते में डाले अपने अंशों पर लाभांशों का भुगतान करेगी:
 - ए. मूल्य-ह्रास, यदि कोई हो, किसी भी मामले में अनुमोदित प्रतिभूतियों में अपने निवेशों के मूल्य में, जहां इस तरह का मूल्य-ह्रास वास्तव में पूंजीकृत नहीं किया गया है या अन्यथा हानि के लिये गणना नहीं की गई है,
 - बी. मूल्य-ह्रास, यदि कोई हो, अंशों, ऋणपत्रों या बंधपत्रों (अनुमोदित प्रतिभूतियों के अलावा) में अपने निवेशों के मूल्य में, किसी भी मामले में, कंपनी के अंकेंक्षक की संतुष्टि के लिये जहां इस तरह के मूल्य-ह्रास के लिये पर्याप्त प्रावधान किये गये हैं.

निदेशकों इत्यादि द्वारा किसी भी बड़े लाभांश की अनुशंसा नहीं

177. कोई भी बड़ा लाभांश घोषित नहीं किया जायेगा, जो निदेशकों द्वारा अनुशंसित किया जाता है, किन्तु साधारण सभा में कंपनी अधिनियम की धारा 205 के प्रावधानों के अधीन छोटा लाभांश घोषित कर सकती है, एवम कंपनी के विरुद्ध किसी भी लाभांश पर ब्याज नहीं दिया जायेगा. किसी वर्ष में कंपनी के शुद्ध लाभों की राशि के तौर पर निदेशकों की घोषणा निर्णायक होगी.

अंतरिम लाभांश

178. निदेशक समय-समय पर सदस्यों को, अपने निर्णयों के अनुसार इस तरह के अंतरिम लाभांशों का भुगतान सदस्यों को कर सकता है, कंपनी की स्थिति न्यायसंगत बताता है.

लाभांशों का प्रतिधारण जब तक हस्तांतरण पूरा होता है

179. निदेशक अंशों पर देय लाभांशों को प्रतिधारण कर सकता है, जिसमें संबंध में कोई व्यक्ति हस्तांतरण का हकदार होता है, जब तक इस तरह का व्यक्ति इस तरह के अंशों के संबंध में सदस्य बनेगा.

कोई भी सदस्य लाभांश प्राप्त नहीं करता है जब कंपनी एवम इसके इसकी अदायगी के अधिकार के लिये कंपनी का ऋणी होता है

180. अधिनियम की धारा 205 के अधीन, कोई भी सदस्य अपने अंश या अंशों के संबंध में किसी ब्याज या लाभांश के भुगतान को प्राप्त करने का हकदार नहीं होगा, जब तक इस तरह के अंश या अंशों या अन्यथा के संबंध में कंपनी को उससे राशि बकाया या कर्जदारी हो सकती है, यद्यपि, या तो अकेले या किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों के साथ संयुक्त रूप से, एवम निदेशक कंपनी के लिये किसी सदस्य से इस तरह की बकाया सभी राशियों को देय ब्याज या लाभांश से कटौती कर सकते हैं.

सिर्फ अंशों के हस्तांतरण के पंजीकरण पर लाभांश का अधिकार

181. अंशों के हस्तांतरण पर हस्तांतरण के पंजीकरण से पहले अंशों पर कोई लाभांश घोषित करने का अधिकार पारित नहीं किया जायेगा.

लाभांश के संदर्भ के साथ विशेष प्रावधान

182. रोकड़ के सिवाय कोई भी लाभांश देय नहीं होगा, बशर्ते कि इस अनुच्छेद में कुछ भी कंपनी के सदस्यों द्वारा धारित किन्हीं अंशों पर अदत्त होकर तत्समय कोई राशि अदा करने या पूर्ण प्रदत्त बोनस अंशों को जारी करने के उद्देश्य के लिये लाभों या रिजर्व के पूंजीकरण को इस अनुच्छेद में प्रतिबंधित नहीं समझा जायेगा.

लाभांश कैसे प्रेषित करना है

183. रोकड़ में देय कोई भी लाभांश सदस्य के पंजीकृत पते पर डाक के माध्यम से चैक या वारन्ट द्वारा भेजकर अदा किया जा सकता है या संयुक्त धारकों के मामले में, उनमें से एक जिसका नाम संयुक्त धारिता के संबंध में पंजिका में सबसे पहले दर्ज है. इस तरह का प्रत्येक चैक उस व्यक्ति को देय होगा जिसको यह भेजा जाता है. कंपनी दायी या जिम्मेदार नहीं होगी यदि कोई चैक या वारन्ट

मार्ग में खो जाता है या सदस्य को किसी लाभांश की हानि के लिये या किसी चैक या वारंट के जाली बेचान द्वारा सदस्य या व्यक्ति हकदार बनता है या किसी अन्य अर्थों द्वारा इसकी कपटपूर्ण या अनुचित वसूली.

लावारिस या अदत्त लाभांश

184. (1) यदि कंपनी द्वारा घोषित लाभांश के लिये हकदार किसी अंशधारक के लिये घोषणा की तिथि से तीस दिनों के अंदर भुगतान नहीं किया जाता है या दावा नहीं किया जाता है, तो तीस दिनों की किसी अवधि की समाप्ति की तिथि से सात दिनों के अंदर कंपनी किसी अनुसूचित बैंक में उस निमित्त विशेष खाता "नेशनल कॉमोडिटी एण्ड डेरीवेटीव्स एक्सचेंज लिमिटेड का अदत्त लाभांश खाता" के नाम से खोलेगा एवम इस तरह के खाते में इस तरह से बचे हुए अदत्त या लावारिस लाभांश की कुल राशि को हस्तांतरित करेगा.

स्पष्टीकरण: इस उप-अनुच्छेद में अभिव्यक्ति "लाभांश जो अदत्त बने हुए है" का अर्थ है निवेदन पर वारंट, जिसे भुनाया नहीं गया है या जिसको अदा नहीं किया गया है या दावा नहीं किया गया है.

- (2) कंपनी के अदत्त लाभांश खाते तो हस्तांतरित कोई राशि, इस तरह के हस्तांतरण की तिथि से सात वर्षों की अवधि के लिये अदत्त या लावारिस बना हुआ है, कंपनी द्वारा अधिनियम की धारा 205सी की उपधारा (1) के तहत स्थापित निधि में हस्तांतरित किया जायेगा.

लाभांश एवम कॉल साथ में

185. अधिनियम की धारा 205ए के अधीन, लाभांश की घोषणा करते हुए कोई साधारण सभा, सभा में निश्चित की गई इस तरह की राशि के लिये अंशों पर अदत्त राशियों के संबंध में सदस्यों पर कॉल की जा सकती है, ताकि प्रत्येक सदस्य पर कॉल उस पर देय लाभांशों से अधिक नहीं होगी एवम ताकि लाभांश के अनुसार समान समय पर देय के लिये कॉल की जाती है, एवम लाभांश, इस तरह से व्यवस्थित, कॉल के विरुद्ध कंपनी एवम सदस्यों के मध्य निर्धारित किया जायेगा.

अपनी स्वयं की प्रतिभूतियों का क्रय

स्वयं के अंशों को वापिस खरीदना

186. इन अनुच्छेदों में कुछ भी निहित होने के बावजूद भी, कंपनी स्वयं के अंशों या प्रतिभूतियों को इस तरह से वापिस खरीद सकती है, जब एवम यदि यह उचित होता है, जैसा यह आवश्यक सोचा जा सकता है, इस तरह की सीमाओं के अधीन, इस तरह की शर्तों एवम दशाओं के अधीन, एवम इस तरह के अनुमोदनों के अधीन, जैसा अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत आवश्यक हो सकता है.

पूंजीकरण

पूंजीकरण

187. (1) किसी भी साधारण सभा में किन्हीं राशियों, निवेशों या अविभाजित लाभों के भाग को गठित करते हुए अन्य संपत्तियां (जिसमें वसूली से उत्पन्न लाभ या अतिरिक्त राशि एवम (जहां पर कानून द्वारा अनुमति प्राप्त है) कंपनी की किसी पूंजी के मूल्य में अभिमूल्यन से), कंपनी की किसी अन्य निधि या आरक्षित या आरक्षित निधि की जमा के लिये स्थित या कंपनी के हाथों में एवम लाभांशों के उपलब्ध या अंशों को जारी करने पर प्राप्त प्रीमियम का प्रतिनिधित्व, एवम पूंजीकरण किये जाने के लिये प्रतिभूति प्रीमियम खाते की जमा के लिये स्थित:

ए) पूर्ण प्रदत्त अंश, ऋणपत्र, ऋणपत्र स्टॉक, बंधपत्र को जारी करने या वितरित करने द्वारा या कंपनी के अन्य दायित्व, या

बी) कंपनी के अंशों को जमा करने के द्वारा जिनको जारी किया जा सकता है एवम उन पर इस तरह की बनी हुई अदत्त राशि को पूर्ण या किसी भाग के साथ पूर्ण प्रदत्त नहीं है.

- (2) इस अनुच्छेद के उप-अनुच्छेद (1) के खण्ड (ए) के अंतर्गत इस तरह के मुद्दे एवम वितरण एवम इस अनुच्छेद के उप-अनुच्छेद (1) के खण्ड (बी) के अंतर्गत अदत्त अंश पूंजी को जमा करने के लिये इस तरह का भुगतान, सदस्यों या उनकी किसी श्रेणी या वहां उनमें से कोई हकदार एवम उनसे संबंधित लाभ एवम हित के अनुसरण में एवम उनके द्वारा क्रमशः धारित अंशों पर प्रदत्त पूंजी की राशि के लिये भाग में, जिसके संबंध में, इस अनुच्छेद के

उप-अनुच्छेद (1) के खण्ड (ए) के अंतर्गत इस तरह का वितरण या इस अनुच्छेद के उप-अनुच्छेद (1) खण्ड (बी) के अंतर्गत भुगतान, उस स्तर पर किया जायेगा, कि इस तरह के सदस्य पूंजी के तौर पर इसके हकदार बनते हैं.

- (3) निदेशक इस तरह के किसी प्रस्ताव को प्रभाव देंगे एवम उपरोक्त कथित तौर पर खाते पर आरक्षित या आरक्षित निधि के लाभों के इस तरह के भाग या किसी अन्य निधि पर आवेदन करेंगे एवम इस अनुच्छेद के उप-अनुच्छेद (1) के खण्ड (ए) के तहत इस तरह से वितरित कंपनी अंशों, ऋणपत्रों या ऋणपत्र स्टॉक, बंधपत्रों या अन्य दायित्वों के लिये पूर्ण में भुगतान करने के उद्देश्य के लिये आवश्यक हो सकता है, या जैसा भी मामला हो सकता है, अंशों पर अदत्त बनी हुई राशि पूर्ण या भाग में अदा करने के उद्देश्य के लिये, जो जारी किया गया है एवम इस अनुच्छेद के उप-अनुच्छेद (1) के खण्ड (बी) के अंतर्गत पूर्ण प्रदत्त नहीं होता है, बशर्ते कि इस तरह का कोई भी वितरण या भुगतान नहीं किया जायेगा, जब तक निदेशकों द्वारा अनुशंसित नहीं किया जाता है, इस तरह का वितरण एवम भुगतान, उपरोक्त कथित तौर पर, इस तरह के सदस्यों द्वारा, कथित पूंजीकरण राशि में उनके हित की पूर्ण संतुष्टि में, स्वीकार किया जायेगा. इस तरह के किसी प्रस्ताव को प्रभाव देने के उद्देश्य के लिये, निदेशक किसी कठिनाई को व्यवस्थित कर सकते हैं, जो कि उपरोक्त कथित तौर पर वितरण या भुगतान के संबंध में उत्पन्न हो सकती है, जैसा वे फायदेमंद समझ सकते हैं, एवम, विशेष रूप से, वे आंशिक प्रमाणपत्र जारी कर सकते हैं, एवम किसी विशिष्ट सम्पत्ति के वितरण के लिये मूल्य निर्धारित कर सकते हैं एवम यह निर्धारित कर सकते हैं कि इस तरह से निर्धारित मूल्य के आधार पर किसी सदस्य को रोकड़ भुगतान किया जाना है एवम इसके हकदार व्यक्ति के लिये इस तरह के न्यासों पर न्यासियों में अंशों, ऋणपत्र, ऋणपत्र स्टॉक, बंधपत्र या अन्य दायित्व इस तरह की रोकड़ में निहित हो सकते हैं, जैसा निदेशकों के लिये समीचीन प्रतीत हो सकता है एवम सामान्यतः इस तरह के अंशों, ऋणपत्रों, ऋणपत्र-स्टॉक, बंधपत्रों या अन्य दायित्वों एवम भिन्नात्मक प्रमाणपत्रों एवम अन्यथा की स्विकार्यता, आवंटन एवम विक्रय के लिये इस तरह की व्यवस्थाएं की जा सकती है, जैसा वे उचित समझ सकते हैं.
- (4) अधिनियम एवम इन अनुच्छेदों के प्रावधानों के अधीन, उन मामलों में जहां कंपनी के अंशों में से कुछ पूर्ण प्रदत्त होते हैं एवम अन्य सिर्फ अंशतः प्रदत्त होते हैं, इस तरह से पूर्ण प्रदत्त अंशों के संबंध में आगे अंशों के वितरण द्वारा एवम उस पर अदत्त दायित्व पूर्ण या भाग सहित अंशतः प्रदत्त अंशों को जमा करने के द्वारा इस तरह का पूंजीकरण प्रभावित हो सकता है, किन्तु जैसा पूर्ण प्रदत्त अंशों के धारकों एवम अंशतः प्रदत्त अंशों के धारकों के मध्य, आगे इस तरह के अंशों के भुगतान में इस तरह से लागू राशियां एवम अंशतः प्रदत्त अंशों पर दायित्व के परिशमन या अवनति राशि के अनुपात में इस तरह से आनुपातिक लागू होगा, तब पहले से ही विद्यमान क्रमशः पूर्ण प्रदत्त एवम अंशतः प्रदत्त अंशों पर अदा किये गये तौर पर भुगतान किया गया है या जमा किया गया है. जब अपेक्षित समझा जाता है, अधिनियम में अनुसरण में उचित संविदा दायर की जायेगी एवम कंपनी के अंशों के धारकों की ओर से इस तरह की संविदा पर हस्ताक्षर करने के लिये बोर्ड किसी व्यक्ति को नियुक्त कर सकता है जो इस तरह के पूंजीकरण के लिये पूर्व में जारी किया गया होगा एवम इस तरह की नियुक्ति प्रभावी होगी.

लेखें

लेखें

188. निदेशक रखने जाने वाले सत्य लेखों में करेंगे (1) प्राप्त की गई सभी राशियां, कंपनी द्वारा विस्तारित एवम मामले जिसके संबंध में इस तरह की प्राप्तियां एवम खर्च हुए हैं, (2) कंपनी द्वारा माल के सभी क्रय एवम विक्रय एवम (3) कंपनी की संपत्तियां, जमाएं एवम दायित्व, एवम सामान्यतः कंपनी की वास्तविक वित्तीय स्थिति एवम दशा को दर्शाने के लिये आवश्यक इसके सभी वाणिज्यिक, वित्तीय एवम अन्य कार्य, लेनदेन एवम वचनबद्धताएं एवम अन्य सभी मामलों, एवम लेखें अंग्रेजी में एवम इस तरीके से रखे जायेंगे जैसा निदेशक उचित समझ सकते हैं. लेखा पुस्तकें भारत में पंजीकृत कार्यालय या इस तरह के अन्य स्थान या स्थानों पर रखी जायेगी, जैसा निदेशक उचित समझ सकते हैं एवम कार्यालय समय के दरम्यान निदेशकों द्वारा निरीक्षण के लिये खुली रहेगी.

कंपनी के लेखों एवम पुस्तकों का सदस्यों द्वारा निरीक्षण

189. निदेशक समय-समय पर निर्णय लेंगे कि क्या एवम किस सीमा तक एवम किस समय एवम स्थान एवम किन दशाओं एवम विनियमों के तहत कंपनी के लेखों एवम पुस्तकों या उनमें से किस को सदस्यों के निरीक्षण के लिये खुला रखा जायेगा, एक निदेशक होकर एवम सदस्य (निदेशक होकर नहीं) को कंपनी के किन्हीं लेखों या पुस्तकों या दस्तावेजों का निरीक्षण करने का अधिकार नहीं होगा, उसको छोड़कर जैसा कानून द्वारा प्रदत्त या सामान्य सभा में निदेशकों द्वारा या कंपनी द्वारा अधिकृत है।

लेखा विवरण एवम प्रतिवेदन साधारण सभा में प्रस्तुत किये जाने हैं

190. निदेशक वार्षिक साधारण सभा में कंपनी के समक्ष पूर्ववर्ती लेख के बाद की अवधि के लिये लाभ एवम हानि खाता एवम कंपनी की संपत्तियों एवम दायित्वों का सारांश निहित करते हुए सभा की दिनांक से 6 महीनों अंदर दिनांक पर बनाई हुई बैलेन्स शीट या उस मामले में जहां समय का विस्तार सभा को धारण करने के लिये पारित किया गया है, उपरोक्त कथित तौर पर 6 महीने से अधिक नहीं, एवम इस तरह से पारित विस्तार, एवम इस तरह की प्रत्येक बैलेन्स शीट निदेशकों के प्रतिवेदन (इसके साथ जोड़ा जाना है) के साथ अधिनियम की धारा 217 द्वारा आवश्यक तौर पर होगी, एवम राशि के रूप में, यदि हो, जो उन्होंने लाभों के अतिरिक्त, लाभों के रूप में अदा किये जाने के लिये अनुशंसित की है, एवम राशि, यदि कोई हो, बैलेन्स शीट में विशेष रूप से दर्शित सुरक्षित निधि, सामान्य रिजर्व या आगामी बैलेन्स शीट में विशेष रूप से दर्शित किये जाने वाली राशि उनके द्वारा रद्द करना।

बैलेन्स शीट एवम लाभ एवम हानि खाते के प्रपत्र एवम अंतर्वस्तु

191. कंपनी की प्रत्येक बैलेन्स शीट एवम लाभ एवम हानि खाता कंपनी के कार्यों की सत्य एवम निष्पक्ष अवलोकन प्रदान करेंगे एवम अधिनियम की धारा 211 के प्रावधानों के अधीन, अधिनियम की अनुसूची VI के क्रमशः भाग I व II में निर्धारित प्रपत्रों में होंगे, या उनके पास में, जैसी भी परिस्थितियां प्रस्तुत होती है या इस तरह के अन्य प्रपत्र में, जैसा केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित हो सकता है।

बैलेन्स शीट एवम अन्य दस्तावेजों का प्रमाणीकरण, इसकी प्रतियां सदस्यों को भेजी जानी हैं

192. (1) बैलेन्स शीट और लाभ एवम हानि खाता प्रबंधक एवम सचिव द्वारा हस्ताक्षरित किये जायेंगे, यदि कोई हो, एवम कंपनी के कम से कम दो निदेशकों द्वारा, जिसमें से एक प्रबंध निदेशक होगा, जहां भारत में तत्समय के लिये सिर्फ एक ही निदेशक होता है, इस तरह के निदेशक एवम प्रबंधक या सचिव द्वारा. बोर्ड द्वारा बैलेन्स शीट और लाभ एवम हानि खाते को अनुमोदित किया जायेगा, उससे पहले इस अनुच्छेद के प्रावधानों के अनुसरण में बोर्ड की ओर से वे हस्ताक्षर करते हैं एवम उस पर उनके प्रतिवेदन के लिये वे अंकक्षक को प्रस्तुत करते हैं. अंकक्षक के प्रतिवेदन के साथ बैलेन्स शीट एवम लाभ एवम हानि खाते को जोड़ा जायेगा या उन्हें प्रतिवेदन के संदर्भ के तौर पर बैलेन्स शीट और लाभ एवम हानि खाते के नीचे रखा जायेगा.
- (2) इस तरह की बैलेन्स शीट और लाभ एवम हानि खाते की प्रति अंकक्षक के प्रतिवेदन की प्रति के साथ इस तरह से अंकक्षित, सभा से कम से कम 21 दिन पहले जिस पर यह कंपनी के सदस्यों के समक्ष रखी जानी है, अधिनियम की धारा 219 के प्रावधानों के अधीन, कंपनी के प्रत्येक सदस्यों, प्रत्येक ऋणपत्र धारकों को भेजी जायेगी जिनके पते कंपनी जानती है एवम इस की प्रति सभा से पहले कम से कम 21 दिनों की अवधि के दरम्यान कंपनी के सदस्यों द्वारा निरीक्षण के लिये कार्यालय में जमा की जायेगी.

बैलेन्स शीट और लाभ एवम हानि खाते एवम अंकक्षक के प्रतिवेदन की प्रतियां कंपनी के पंजीयक को प्रस्तुत की जायेगी

193. साधारण सभा में कंपनी के समक्ष बैलेन्स शीट और लाभ एवम हानि खाता कंपनी के समक्ष रख दिया गया है उसके पश्चात, प्रबंधक या सचिव द्वारा हस्ताक्षरित इसकी तीन प्रतियां या यदि उनमें से कोई नहीं है, तो अधिनियम की धारा 220 द्वारा आवश्यक तौर पर निदेशक द्वारा, अधिनियम की धारा 159 एवम 161 की आवश्यकताओं के अनुसरण में अपेक्षित रिटर्नस के साथ कंपनी के पंजीयक को प्रस्तुत किये जायेंगे.

अंकक्षण

लेखें अंकक्षित किये जाने हैं

194. वर्ष में कम से कम एक बार कंपनी के खातों का बैलेन्स लिया जायेगा एवम अंकेंक्षण किया जायेगा एवम लाभ एवम हानि खाता और बैलेन्स शीट की शुद्धता एक या अधिक अंकेंक्षकों द्वारा सुनिश्चित की जायेगी.

प्रथम अंकेंक्षक की नियुक्ति

195. कंपनी का प्रथम अंकेंक्षक या कंपनी के अंकेंक्षक कंपनी के पंजीकरण की तिथि से एक महीने के अंदर बोर्ड द्वारा नियुक्त किए जायेंगे एवम इस तरह से नियुक्त अंकेंक्षक अपना पद धारण करेंगे, जब तक पहली वार्षिक साधारण सभा का समापन होता है, बशर्ते कि कंपनी साधारण सभा में इस तरह के किसी अंकेंक्षक या इस तरह के सभी अंकेंक्षकों को हटा सकती है एवम उसकी या उनकी जगह किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों को नियुक्त कर सकती है जो कंपनी के किसी सदस्य द्वारा नियुक्ति के लिये नामांकित किये गये हैं एवम जिनका नामांकन नोटिस कंपनी के सदस्यों को सभा की दिनांक से कम से कम 14 दिनों पहले दिया गया है. यदि बोर्ड इस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रदान किये गये तौर पर प्रथम अंकेंक्षकों को नियुक्त करने में असफल रहता है, तो कंपनी साधारण सभा में प्रथम अंकेंक्षक या अंकेंक्षकों को नियुक्त कर सकती है.

अंकेंक्षकों की नियुक्ति एवम योग्यता

196. प्रत्येक वार्षिक साधारण सभा में कंपनी पद धारण करने के लिये सनदी लेखाकार या लेखाकारों को अंकेंक्षक या अंकेंक्षकों के पद पर नियुक्त करेगी, जब तक अगली वार्षिक साधारण सभा एवम निम्नलिखित प्रावधान प्रभाव में होंगे, अर्थात:

- (1) यदि अंकेंक्षक या अंकेंक्षकों की नियुक्ति या पुनः नियुक्ति वार्षिक साधारण सभा में नहीं की जाती है, तो कंपनी इसके सात दिनों के अंदर केन्द्र सरकार को इसका नोटिस देगी, जो चालू वर्ष के लिये कंपनी के अंकेंक्षक को नियुक्त करेगी एवम उसकी सेवाओं के लिये कंपनी द्वारा उसको अदा किया जाने वाला प्रतिफल निश्चित करेगी.
- (2) निदेशक किसी आकस्मिक रिक्ति को भर सकते हैं जो किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को सनदी लेखाकार या लेखाकारों होकर उनकी नियुक्ति द्वारा अंकेंक्षक के पद पर हो सकती है, जो इस तरह का पद धारण करेगा जब तक आगामी वार्षिक सभा का समापन होता है किन्तु जब इस तरह की रिक्ति जारी रहती है, उत्तरजीवी या निरंतर अंकेंक्षक, यदि कोई हो, कार्य कर सकते हैं, बशर्ते कि जहां इस तरह की रिक्ति अंकेंक्षक के पंजीकरण के कारण होती है, तो रिक्ति को साधारण सभा में सिर्फ कंपनी द्वारा भरा जायेगा.
- (3) एक निगमित निकाय, कंपनी का अधिकारी या कर्मचारी, या भागीदार या इस तरह के अधिकारी या कर्मचारी के नियोजन में व्यक्ति या कोई व्यक्ति, एक हजार रुपये की राशि से अधिक के लिये कंपनी का ऋणी है या उसने एक हजार रुपये से अधिक की राशि के लिये कंपनी को किसी तृतीय व्यक्ति की ऋणग्रस्तता के संबंध में कोई गारंटी दी है या कोई प्रतिभूति प्रदान की है एवम मतदान अधिकार रखने वाला कंपनी की किसी प्रतिभूति का धारक व्यक्ति कंपनी का अंकेंक्षक नियुक्त नहीं किया जायेगा.
- (4) यदि कोई व्यक्ति अंकेंक्षक नियुक्त होने के पश्चात उप-अनुच्छेद (3) के अंतर्गत अयोग्य घोषित होता है, तो ऐसा समझा जायेगा कि उसका पद खाली हो गया है.
- (5) सेवानिवृत्त अंकेंक्षक को अधिनियम की धारा 224 के उपखण्ड (2) के प्रावधानों के अधीन पुनः नियुक्ति किया जायेगा.
- (6) सेवानिवृत्त अंकेंक्षक के अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति किसी वार्षिक साधारण सभा में अंकेंक्षक के पद के लिये नियुक्त होने के लिये सक्षम नहीं होगा जब तक अंकेंक्षक के पद के लिये उस व्यक्ति की नियुक्ति के लिये प्रस्ताव का विशेष नोटिस, अधिनियम की धारा 190 के अनुसरण में सभा से कम से कम 14 दिनों पहले कंपनी के प्रबंधक द्वारा नहीं दिया गया है, एवम अधिनियम की धारा 225 के अन्य सभी प्रावधानों का पालन किया जायेगा.

अंकेंक्षकों का प्रतिफल

197. कंपनी के अंकेंक्षकों का प्रतिफल वार्षिक साधारण सभा में कंपनी द्वारा निश्चित किया जायेगा सिवाय इसके कि किसी आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिये नियुक्त अंकेंक्षकों का प्रतिफल निदेशकों द्वारा निश्चित की जा सकती है एवम जहां उसकी नियुक्ति अनुच्छेद 196 के उप-अनुच्छेद (1) क अनुसरण में केन्द्र सरकार द्वारा की गयी है, यह केन्द्र सरकार द्वारा निश्चित किया जा सकता है.

अंकेशक: उनकी शक्तियां, कर्तव्य एवम उनका प्रतिवेदन

198. कंपनी का प्रत्येक अंकेशक किसी भी समय, कंपनी की पुस्तकों एवम लेखों एवम वाउचर के लिये प्रवेश करने का अधिकार होगा एवम इस तरह की सूचनाओं एवम स्पष्टीकरणों को कंपनी के निदेशकों एवम अधिकारियों से प्राप्त करने की आवश्यकता के लिये हकदार होगा, जैसा अंकेशकों के कर्तव्यों के निष्पादन के लिये आवश्यक हो सकता है एवम अंकेशक उनके द्वारा जांचे गये लेखों पर अंशधारकों को प्रतिवेदन देंगे एवम प्रत्येक बैलेन्स शीट और लाभ एवम हानि खाते एवम बैलेन्स शीट या लाभ एवम हानि खाते से जोड़ कर या उसका भाग होने के लिये अधिनियम द्वारा घोषित प्रत्येक अन्य दस्तावेज, जो पद के उनके कार्यकाल के दरम्यान साधारण सभा में कंपनी के समक्ष रखे जाते हैं, एवम प्रतिवेदन निर्दिष्ट करेगा कि क्या उनकी राय में एवम उनकी सूचनाओं में सर्वश्रेष्ठ एवम उनको दिये गये स्पष्टीकरणों के अनुसार, इस तरह से आवश्यक दशा में अधिनियम द्वारा आवश्यक कथित लेखों द्वारा प्रदान सूचना एवम सत्य और निष्पक्ष राय:— (1) अपने वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर कंपनी के कार्यों की स्थिति के लिये बैलेन्स शीट के मामले में एवम (2) अपने वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर कंपनी के कार्यों की स्थिति के लिये लाभ एवम हानि खाते के मामले में. अंकेशक का प्रतिवेदन यह भी निर्दिष्ट करेगा:— (ए) क्या उन्होंने सभी सूचनाएं और स्पष्टीकरण प्राप्त किये थे, जो कि उनके अंकेशन के उद्देश्य के लिये उनकी उत्तम जानकारी एवम विश्वास के आधार पर आवश्यक थे, (बी) क्या उनकी राय में कानून द्वारा आवश्यकता के अनुसार कंपनी द्वारा रखी गयी है जहां तक यह इन पुस्तकों की जांच से लगता है एवम उनके अंकेशन के उद्देश्य के लिये पर्याप्त उचित रिटर्न्स उनके दौरा नहीं की गई शाखाओं से प्राप्त किये गये हैं, एवम (सी) क्या प्रतिवेदन द्वारा व्यवहारित कंपनी की बैलेन्स शीट और लाभ एवम हानि खाता लेखा पुस्तकों एवम रिटर्न्स के साथ अनुबंध में है, (डी) क्या उसकी राय में, लाभ एवम हानि खाता और बैलेन्स शीट अधिनियम की धारा 211 की उपधारा (3सी) में संदर्भित लेखा मानकों का पालन करते हैं, जहां उपरोक्त कथित मद (1) एवम (2) या (ए), (बी), (सी) एवम (डी) में संदर्भित किसी मामले का उत्तर नकारात्मक है या योग्यता सहित, अंकेशक का प्रतिवेदन इसके कारणों को निर्दिष्ट करेगा. अंकेशक का प्रतिवेदन बैलेन्स शीट और लाभ एवम हानि खातों के साथ या इसके नीचे संलग्न होगा एवम इस तरह का प्रतिवेदन वार्षिक साधारण सभा में कंपनी के समक्ष पढ़ा जायेगा एवम कंपनी के किसी सदस्य द्वारा निरीक्षण के लिये खुला रहेगा.

सभा में भाग लेने के लिये अंकेशक के अधिकार

199. कंपनी की साधारण सभा के संबंध में सभी नोटिस एवम अन्य संचार, जिसके लिये कंपनी का प्रत्येक सदस्य उसको भेजे जाने का हकदार होता है, कंपनी के अंकेशकों को भी अग्रेषित किये जायेंगे एवम अंकेशक किसी साधारण सभा में भाग लेने एवम किसी साधारण सभा को सुनने के लिये हकदार होंगे जिसमें वे भाग लेते हैं या कार्यवाही का कोई भी भाग, जिससे वे अंकेशक के तौर पर संबंधित होते हैं.

जब लेखें अंकेशित किये जाते हैं एवम निर्णायक होने के लिये अनुमोदित किये जाते हैं, सिवाय 3 महीनों के अंदर त्रुटियों को खोजने के रूप में

200. प्रत्येक खाता जब वार्षिक साधारण सभा द्वारा अंकेशित एवम अनुमोदित होता है, निर्णायक होगा, इसके अनुमोदन के पश्चात् तीन महीनों के अंदर इसमें खोजी गई किसी त्रुटि के संबंध के सिवाय. जब भी उस अवधि के अंदर इस तरह की कोई त्रुटि खोजी जाती है, लेखों को तत्काल संशोधित किया जायेगा एवम उसके बाद से यह निर्णायक होगा.

नोटिस*नोटिस*

201. (1) कंपनी द्वारा किसी सदस्या को नोटिस (जिसमें इन अनुच्छेदों के उद्देश्यों के लिए उसकी अभिव्यक्ति में किसी समन, नोटिस, प्रक्रिया, आदेश, निर्णय या कंपनी के परिसमापन या उसके संबंध में कोई अन्य दस्तावेज सम्मिलित होगा) दिया जा सकता है, या तो व्यक्तिगत रूप से या उसको उसके पंजीकृत पते पर डाक द्वारा भेजकर, या यदि उसका भारत में कोई भी पंजीकृत पता नहीं है, तो उसको नोटिस प्रदान करने के लिये कंपनी को उसके द्वारा दिये गये भारत में उसके उस पते पर भेजा जाता है.

(2) जहां दस्तावेज (जिसमें इस उद्देश्य के लिये किसी समन, मांग, प्रक्रिया, आदेश, निर्णय या कंपनी के परिसमापन के संबंध में किसी अन्य दस्तावेज का इसमें सम्मिलित होना समझा जायेगा) या नोटिस डाक द्वारा भेजा जाता है, इस तरह के नोटिस की तामील नोटिस में

निहित पत्र को उचित रूप से संबोधित, पूर्व-भुगतान एवम प्रविष्टि द्वारा प्रभावित होने के लिये समझा जायेगा, बशर्ते कि जहां सदस्य ने अग्रिम में कंपनी को सूचित किया है, यह दस्तावेज उसको प्रमाणित डाक के अंतर्गत या पंजीकृत डाक के अंतर्गत, उचित पावती सहित या बिना, भेजा जाना चाहिये, एवम ऐसा करने के खर्च को चुकाने के लिये पर्याप्त राशि कंपनी में जमा की गई है, दस्तावेज या नोटिस की तामील प्रभावित होना नहीं समझा जायेगा, जब तक इसको सदस्य द्वारा सूचित दशा में नहीं भेजा जाता है, एवम जब तक इसके विपरीत साबित नहीं किया जाता है, इस तरह की तामील को 48 घंटे की समाप्ति के पश्चात, जिसमें निहित पत्र को पोस्ट किया जाता है, सभा के नोटिस के मामलों में प्रभावित किया गया समझा जायेगा, एवम किसी अन्य मामले में, उस समय जब पत्र पोस्ट के सामान्य कार्य में पहुंचा दिया गया होगा.

पंजीकृत पता नहीं होने पर सदस्य को नोटिस

202. यदि सदस्य के पास भारत में कोई भी पंजीकृत पता नहीं है एवम उसको दिये जा रहे नोटिस के लिये भारत में कोई पता कंपनी को नहीं दिया गया है, तो कार्यालय के आसपास में प्रसारित समाचारपत्र में विज्ञापित किया गया नोटिस उस दिन पर उसको पूर्ण रूप से दिया गया समझा जायेगा, जिस दिन विज्ञापन प्रदर्शित किया जाता है.

विज्ञापन

203. अधिनियम के प्रावधानों के अधीन कोई दस्तावेज सदस्यों या उनमें से किसी को कंपनी द्वारा तामील किये जाने या भेजे जाने की आवश्यकता होती है, एवम इन अनुच्छेदों द्वारा स्पष्ट रूप से प्रदान नहीं किया गया है, तो विधिवत तामील किया या भेजा गया समझा जायेगा, यदि विज्ञापन महाराष्ट्र में एक अंग्रेजी दैनिक एवम एक स्थानीय भाषा में प्रसारित होने वाले समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाता है.

संयुक्त धारकों में से पहले को नोटिस की सर्विस

204. कंपनी द्वारा दस्तावेज या नोटिस अंशों के संयुक्त धारकों पर या उनको, इस तरह के अंशों के संबंध में सदस्यों की पंजिका में सबसे पहले नाम वाले संयुक्त धारक पर या उसको तामील किया जा सकता है या दिया जा सकता है.

साधारण सभा के नोटिस के लिये हकदार व्यक्ति

205. (1) प्रत्येक साधारण सभा का नोटिस इसके पहले अधिकृत समान दशा में दिया जायेगा (ए) कंपनी के प्रत्येक सदस्य हो (अंश वारंट के धारक को सम्मिलित करते हुए), (बी) सदस्य की मृत्यु या दिवालियापन के परिणामस्वरूप अंश का हकदार प्रत्येक व्यक्ति जो, किन्तु उसकी मृत्यु या दिवालियापन के लिये, सभा का नोटिस प्राप्त करने के लिये हकदार हुआ होगा एवम (सी) कंपनी का अंकेक्षक या कंपनी के अंकेक्षक भी.
- (2) सदस्य की मृत्यु या दिवालियापन के परिणामस्वरूप अंशों के हकदार व्यक्तियों को कंपनी द्वारा इसको डाक के माध्यम से भेजकर या उनको संबोधित करते हुए पूर्वप्रदत्त पत्र में मृतक या दिवालिया व्यक्ति के अभिहस्ताकिती या पते पर लिखे इस तरह के किसी विवरण पर नाम या टाइटल द्वारा नोटिस दिया जा सकता है, यदि कोई हो, इस तरह से हकदार के लिये दावा करने वाले व्यक्तियों द्वारा इस उद्देश्य के लिये भारत में प्रदान किया गया है या (जब तक इस तरह का पता इस तरह से प्रदान किया गया है) किसी भी दशा में नोटिस प्रदान करने के द्वारा जिसमें यह दिया गया हो सकता है, यदि मृत्यु या दिवालियापन नहीं हुआ था.

कंपनी द्वारा नोटिस एवम उस पर हस्ताक्षर

206. कंपनी द्वारा दिया जाने वाला कोई भी नोटिस सचिव, यदि कोई हो, या इस तरह के अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जायेगा, जिसे निदेशक नियुक्त कर सकता है. इस तरह के हस्ताक्षर लिखे, छापे या शिलामुद्रण किये जा सकते हैं.

कंपनी पर नोटिस की तामील

207. सदस्य द्वारा कंपनी पर या कंपनी को या इसके किसी अधिकारी को दिये या तामील किये जाने वाले सभी दस्तावेज या नोटिस, कंपनी को या कंपनी के कार्यालय के अधिकारी को, डाक के प्रमाणपत्र के अंतर्गत डाक द्वारा या पंजीकृत डाक द्वारा, दी जायेगी या तामील की जायेगी.

पूर्व नोटिस द्वारा बाध्य अंतरिती

208. प्रत्येक व्यक्ति, कानून के संचालन, अंतरण या अन्य अर्थों द्वारा, जो भी, किसी अंश का धारक बनेगा, इस तरह के अंश के संबंध में प्रत्येक नोटिस द्वारा बाध्य होगा, जो पूर्व में उसके नाम एवम पते एवम अंश टाइटल के लिये कंपनी को अधिसूचित किया जा रहा है, व्यक्ति को विधिवत दिया जायेगा, जिससे वह इस तरह के अंश के लिये अपने टाइटल को प्राप्त करता है.

नोटिस वैध होता है यद्यपि सदस्य की मृत्यु हो गई है

209. अधिनियम के प्रावधानों के अधीन, इन अनुच्छेदों के अनुसरण में दिया गया कोई नोटिस या सुपुर्द किया गया या डाक से भेजा गया या किसी सदस्य के पंजीकृत पते पर छोड़ा गया या इन अनुच्छेदों के अनुसरण में उसके दिये गये पते पर दिया गया दस्तावेज, इसके बावजूद भी कि इस तरह के सदस्य की तब मृत्यु हो गई है, या नहीं, कंपनी को उसकी मृत्यु की सूचना है, किसी पंजीकृत अंश के संबंध में नोटिस विधिवत दिया गया समझा जायेगा, चाहे इस तरह के सदस्य द्वारा अकेले या अन्य व्यक्तियों के साथ संयुक्त रूप से धारित किया गया हो, जब तक कुछ अन्य व्यक्ति उसकी जगह पर इसके धारक के तौर पर या संयुक्त धारक के तौर पर पंजीकृत होते हैं, एवम इस तरह की तामील इन अनुच्छेदों के सभी उद्देश्यों के लिये, उसके या उसके उत्तराधिकारियों, निष्पादकों या उन सभी व्यक्तियों, यदि कोई हो, इस तरह के किसी अंश में उसके संयुक्त हित, पर इस तरह के नोटिस या दस्तावेज की पर्याप्त तामील की गई समझा जायेगा.

दस्तावेजों का प्रकाणीकरण

210. इस अधिनियम या इन अनुच्छेदों में अन्यथा प्रदान किये अनुसार के सिवा, कंपनी द्वारा आवश्यक दस्तावेज या कार्यवाहियों का प्रमाणीकरण, इस संबंध में निदेशकों के बोर्ड द्वारा अधिकृत निदेशक या सचिव या कोई अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जा सकता है एवम यह इसकी मुहर के अंतर्गत होना आवश्यक नहीं है.

गोपनीय अनुच्छेदगोपनीय अनुच्छेद

211. कंपनी के व्यवसाय या व्यापार या किसी अन्य मामले के किसी विवरण के संबंध में किसी खोज या सूचना की आवश्यकता के लिये कोई भी सदस्य हकदार नहीं होगा, जो कि व्यापार रहस्य, व्यापार के रहस्य या रहस्य प्रक्रिया की प्रकृति की हो सकती है, जो कंपनी के व्यवसाय के आचरण से संबंधित हो सकती है एवम इसमें निदेशकों की राय जनता को संचारित करना कंपनी के सदस्यों के हित में फायदेमंद होगा.

क्षतिपूर्ति एवम उत्तरदायित्वक्षतिपूर्ति के लिये निदेशकों एवम अन्यो के अधिकार

212. (1) अधिनियम की धारा 201 के प्रावधानों के अधीन, कंपनी का प्रत्येक निदेशक, कंपनी के तत्समय अध्यक्ष, प्रबंध निदेशक, पूर्णकालिक निदेशक, प्रबंधक, सचिव एवम अन्य अधिकारी या अन्य कर्मचारी, यदि कोई हो, कंपनी के किन्हीं कार्यों के संबंध में तत्समय कार्य करने के लिये एवम उनमें से प्रत्येक इसके विरुद्ध कंपनी द्वारा क्षतिपूर्ति किया जायेगा एवम कंपनी की निधियों में से सभी वास्तविक लागतों, हानियों एवम खर्चों (यात्रा खर्चों को सम्मिलित करते हुए) का भुगतान करना निदेशकों का कर्तव्य होगा, जो इस तरह का कोई निदेशक, अध्यक्ष, प्रबंध निदेशक, पूर्णकालिक निदेशक, प्रबंधक, सचिव, अधिकारी या कर्मचारी द्वारा अपने कर्तव्यों के किसी पालन में या इस तरह के निदेशक, अध्यक्ष, प्रबंध निदेशक, पूर्णकालिक निदेशक, प्रबंधक, सचिव, अधिकारी या कर्मचारी द्वारा किये गये कार्यों या कृत्यों या किसी संविदा में प्रवेश के कारण द्वारा उठाये जा सकते हैं या असमर्थ हो सकते हैं.
- (2) उपरोक्त कथित तौर के अधीन, कंपनी का प्रत्येक निदेशक या अध्यक्ष, प्रबंध निदेशक, पूर्णकालिक निदेशक, प्रबंधक, सचिव, अधिकारी या कर्मचारी को उनके द्वारा किन्हीं कार्यवाहियों का बचाव करने के लिये उठाये गये किसी दायित्व के विरुद्ध क्षतिपूर्ति किया जायेगा, चाहे कंपनी के इस तरह के निदेशक, अध्यक्ष, प्रबंध निदेशक, पूर्णकालिक निदेशक, प्रबंधक, सचिव, अधिकारी या कर्मचारी के तौर पर उसके विरुद्ध स्थापित नागरिक या आपराधिक कार्यवाहियां, जिसमें उसके पक्ष में निर्णय दिया गया है एवम जिसमें उसको बरी कर दिया गया है या अधिनियम की धारा 633 के अंतर्गत किसी आवेदन के संबंध में, जिसमें न्यायालय द्वारा उसे राहत दी गई है.

- (3) जहां तक इसके सिवाय, इन अनुच्छेदों के प्रावधानों से अधिनियम की धारा 201 द्वारा बचा जायेगा, उनमें से कोई भी अन्यो या उनके अलावा अन्यो के कार्यों, प्राप्तियों, लापरवाहियों या चूकों के लिये जवाबदेह नहीं होंगे, अनुरूपता की खातिर किसी प्राप्ति में सम्मिलित होने के लिये, या किसी बैंकर्स या अन्य व्यक्तियों के दिवालियापन के लिये, जिसके साथ कंपनी से संबंधित कोई राशि या प्रभाव, दर्ज कराया जायेगा या किया जा सकता है सुरक्षित अभिरक्षा के लिये जमा किया जा सकता है या किसी प्रतिभूति की कमी या अपूर्णता, जिस पर कंपनी से कोई राशियां संबंधित होती है, बाहर रखी जायेगी या निवेशित की जायेगी या किसी अन्य हानि, दुर्भाग्य या नुकसान के लिये, जो उनसे संबंधित अधिकारियों या न्यासों या उनसे संबंधित के निष्पादन में घटित हो सकता है, इसके सिवाय जब यह उनकी स्वयं की क्रमशः जानबूझकर लापरवाही या चूक के द्वारा या माध्यम से घटित होगी.
- (4) अधिनियम की धारा 201 के प्रावधानों के अधीन, कंपनी को कोई निदेशक या अन्य अधिकारी, कंपनी के किसी अन्य निदेशक या अधिकारी के कार्यों, प्राप्तियों, लापरवाहियों या चूकों के लिये दायी नहीं होगा या किसी प्राप्ति में या अन्य कार्य में शामिल होने के लिये, कंपनी की ओर से या कंपनी के लिये निदेशक के आदेश द्वारा प्राप्त किसी संपत्ति के टाईटल की अपर्याप्तता या कमी के माध्यम से कंपनी के होने वाले खर्च या किसी हानि के लिये अनुरूपता के लिये, या किसी प्रतिभूति की अपर्याप्ता या कमी के लिये, जिसमें या जिस पर कंपनी की कोई भी राशियां निवेशित की जाती है या दिवालियापन, दिवाला या किसी व्यक्ति के किसी अपकृत्य से उत्पन्न होने वाली किसी हानि या नुकसान के लिये, जिसके साथ कोई राशियां, प्रतिभूतियां या प्रभाव जमा किये जायेंगे या इस भाग पर निर्णय या निरीक्षण की किसी त्रुटि द्वारा होने वाली किसी हानि के लिये, या किसी अन्य हानि या नुकसान के लिये, जो भी, जो उसके पद या उससे संबंधित कर्तव्यों के निष्पादन में घटित होगी, जब तक यह उसकी स्वयं की लापरवाही या बेईमानी के कारण घटित नहीं होती है.

समापन

समापन पर संपत्तियों का वितरण

213. (1) यदि कंपनी का समापन किया जायेगा एवम इस तरह से उपलब्ध संपत्तियों का सदस्यों के मध्य वितरण प्रदत्त पूंजी का पूर्ण रूप से पुर्नभुगतान करने के लिये अपर्याप्त होगी, इस तरह की संपत्तियां वितरीत की जायेगी, ताकि लगभग हो सकता है, अंश पूंजी के भाग में सदस्यों द्वारा हानि वहन की जायेगी या उनके द्वारा क्रमशः धारित अंशों पर समापन की शुरुआत पर प्रदत्त किया जाना चाहिए एवम यदि समापन में सदस्यों के मध्य उपलब्ध वितरण के लिये उपलब्ध संपत्तियां समापन के प्रारंभ पर प्रदत्त पूंजी के पूर्ण का पुर्नभुगतान करने के लिये पर्याप्त से ज्यादा होगी, तो समापन की शुरुआत पर पूंजी के लिये अनुपात में सदस्यों के मध्य, उनके द्वारा धारित अंशों पर प्रदत्त या क्रमशः प्रदत्त की गयी है, अतिरिक्त को वितरीत किया जायेगा, बशर्ते, यद्यपि, इस अनुच्छेद में निहित कुछ भी विशेष शर्तों एवम दशाओं पर जारी अंशों के धारकों के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा.

संपत्तियों के वितरण की रीति

- (2) (ए) यदि कंपनी का समापन किया जायेगा, चाहे स्वेच्छा से या अन्यथा, अधिनियम द्वारा आवश्यक किसी अनुमोदन या विशेष प्रस्ताव के साथ परिसमापक, अंशदाताओं के मध्य विभाजित कर सकता है/विभाजित करेगा, रोकड़ या वस्तु के रूप में, कंपनी की पूर्ण संपत्तियां या उसका कोई भाग एवम जैसे मंजूरी के साथ, न्यासियों में कंपनी की पूर्ण संपत्तियां या उसका कोई भाग निहित होना, अंशदाताओं के लाभ के लिए इस तरह के न्यासों पर या उसके से किसी पर, परिसमापक के तौर पर, जैसे मंजूरी के साथ, उचित समझा जायेगा.
- (बी) यदि सोच समीचीन होती है, इस तरह का कोई भी विभाजन, अधिनियम के प्रावधानों के अधीन हो सकता है, अन्यथा, अंशदाताओं (इसके सिवाय जहां पर संस्था के बहिर्नियम द्वारा गैर-परिवर्तनीय तय किया गया हैं) के कानूनी अधिकारों के अनुसरण में, एवम, विशेष रूप से, किसी श्रेणी को विशेष वरीयता या विशेष अधिकार दिए जा सकते हैं या पूर्णरूप से या भाग में छोड़ी जा सकती है, किन्तु, अन्यथा किसी भी विभाजन के मामले में, अंशधारकों के कानूनी अधिकारों के अनुसरण में निर्धारित किया जायेगा, कोई भी अंशदायी, जिसके साथ इसके द्वारा पक्षपात किया गया होगा,

उसको असंतोष या सहायक अधिकार होंगे, जैसे यदि इस तरह का निर्धारण अधिनियम की धारा 494 के अनुसरण में विशेष प्रस्ताव पारित करके किया गया था।

- (सी) उपरोक्त कथित तौर पर विभाजित किये जाने वाले अंशों के मामले में, कथित अंशों में से किसी के इस तरह के विभाजन के अंतर्गत अन्यथा हकदार कोई व्यक्ति या कॉल्स के लिये सम्मिलित दायित्व, विशेष प्रस्ताव पारित करने के पश्चात 10 दिनों के अंदर लिखित में नोटिस द्वारा अपने भाग के विक्रय के लिये परिसमापक को निर्देशित किया जा सकता है एवम उसको शुद्ध आय का भुगतान किया जा सकता है एवम परिसमापक तनदुसार कार्य करेगा, यदि व्यवहार्य है।

हम, कई व्यक्ति, जिनके नाम, पते, विवरण एवम व्यवसाय, सदस्यता के तौर पर, इस कंपनी के विधान के अनुसरण में कंपनी को गठन करने के इच्छुक हैं।

क्र. नं.	नाम, पता और अभिदाता का विवरण	हस्ताक्षर	हस्ताक्षर, नाम, पता, विवरण और व्यवसाय यदि कोई हो, गवाह की
1.	आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड आईसीआईसीआई बैंक टावर्स, बान्द्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व) मुम्बई - 400051 अपने वरिष्ठ महाप्रबंधक द्वारा प्रतिनिधित्व श्री पूरनाम हाएग्रीवा, रविकुमार/ पुत्र स्व. श्री पूरनाम वेंकट सुब्रमण्यम व्यवसाय: वाणिज्य बैंकिंग	आईसीआई सीआई बैंक लिमिटेड Sd./- अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता	सभी अभिदाताओं के के लिए गवाह Sd./- भारत रमाकांत उपाध्याय 313 श्री साईधाम सहकारिता हाउसिंग सोसाइटी, 90 फुट रोड, घाटकोपर (पूर्व), मुम्बई-400077 व्यवसाय पेशेवर कंपनी सचिव
2.	भारतीय जीवन बीमा निगम केंद्रीय कार्यालय योगाक्षमा, जीवन बीमा मार्ग पो.बॉक्स नं. 19953 मुम्बई-400021 अपने मुख्य निवेशक द्वारा प्रतिनिधित्व श्री वासुदेव राजाराम गालकर, पुत्र श्री राजाराम नारायण गालकर व्यवसाय : जीवन बीमा	भारतीय जीवन बीमा निगम के लिए Sd./- अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता	
3.	कृषि और ग्रामीण विकास के लिए राष्ट्रीय बैंक प्लॉट नं. सी-24, जी ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व) मुम्बई-400051 इसके अध्यक्ष द्वारा प्रतिनिधित्व, श्री योगेश चंद नंदा, पुत्र श्री टेक चंद नंदा व्यवसाय : कृषि एवं ग्रामीण विकास के वित्तपोषण	नेशनल बैंक कृषि और ग्रामीण विकास के लिए अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता Sd./- अध्यक्ष	
4.	नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, एक्सचेंज प्लाजा, प्लाट सी-1, ब्लॉक जी, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा- (पूर्व), मुम्बई 400051 अपने वरिष्ठ उपाध्यक्ष और कंपनी सचिव, श्री जे रविचन्द्रन, पुत्र श्री एस. जगन्नाथन व्यवसाय : स्टॉक एक्सचेंज	नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड के लिए Sd./- जे. रविचंद्रन कम्पनी सचिव और वरिष्ठ उपाध्यक्ष	
5.	नरेन्द्र कुमार गुप्ता पुत्र श्री बिहारी दास, पता: ए-204, मरक्युरी, वसंत गेलेक्सी, बांगुर नगर, गोरेगांव (पश्चिम) मुम्बई - 400090 व्यवसाय : नौकरी	Sd./-	

क्र. नं.	नाम, पता और अभिदाता का विवरण	हस्ताक्षर	हस्ताक्षर, नाम, पता, विवरण और व्यवसाय यदि कोई हो, गवाह की
6.	श्री जे. रवि चंद्रन, पुत्र श्री एस. जगन्नाथन 703, नीट हाउस, रोड नं. 86, दादर (पश्चिम), मुम्बई - 400028 व्यवसाय : नौकरी	Sd./-	
7.	भाश्यम एस पुत्र श्री के. शेषन बी-403, रिवेरा बिल्डिंग, साई गार्डन के सामने, आकली रोड, लोखंडवाला टाउनशिप, कांदिवली (पूर्व), मुम्बई-400101 व्यवसाय : नौकरी	Sd./-	

दिनांक: 17 अप्रैल, 2003

स्थान: मुंबई

दिनांक: 20 सितम्बर, 2016

स्थान: मुंबई

समीर शाह

प्रबंध निदेशक एवम सीईओ

नॉर्थ करनपुरा ट्रांस्को लिमिटेड

नई दिल्ली - 110021

नॉर्थ करनपुरा ट्रांस्को लिमिटेड जिनका पंजीकृत कार्यालय सी-105, आनन्द निकेतन, नई दिल्ली - 110021 पर स्थित है, का उद्देश्य विद्युत के पारेषण के लिए विद्युत लाइनें बिछाने या विद्युत संयंत्र लगाने के लिए या सरकार द्वारा स्थापित किए गए या बनाए रखे गए या स्थापित किए जाने वाले या बनाए रखे जाने वाले टेलीग्राफ के प्रयोजन के लिए टेलीग्राफ लाइनें बिछाने और पोस्ट लगाने के संबंध में भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885 के अंतर्गत टेलीग्राफ प्राधिकरण के अधिकार के अंतर्गत कामों के समुचित समन्वय के लिए आवश्यक टेलीफोनी या टेलीग्राफ संचार के प्रयोजन के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 के अंतर्गत उसे सभी शक्तियाँ प्रदान करने के लिए भारत सरकार को आवेदन करना चाहता है और निम्नलिखित पारेषण योजनाओं के लिए सर्वेक्षण, निर्माण, संस्थापन, निरीक्षण, निर्माण का कार्य और अन्य कार्य जिसके बाद प्रवर्तन, संचालन रखरखाव और अन्य काम होंगे, करेगा :

योजना का नाम :

“नॉर्थ करनपुरा (3x660MW) एनटीपीसी की पीठी परियोजना के लिए तत्काल निकासी के निर्माण के साथ-साथ धनबाद में 400/220 kV सब-स्टेशन JUSNL की प्रस्ताव (ERSS-XIX)”

योजना के अंतर्गत शामिल कार्य : -

पारेषण लाइनें :

1. नॉर्थ करनपुरा - गया 400 kV डी/सी लाइन, क्वाड मूस कंडक्टर के साथ
2. नॉर्थ करनपुरा - चांदवा (झारखंड) पूर्णिमा स्टेशन 400 kV डी/सी लाइन, क्वाड मूस कंडक्टर के साथ
3. धनबाद में रांची - मायथॉन-आरबी 400 kV डी/सी लाइन के दोनों सर्किट्स का LILO (ट्विन मूस)

सबस्टेशन :

धनबाद में 400/220 kV, 2x500 MVA सब-स्टेशन स्थापित करना

400 kV

- ICTs: 400/220 kV, 2x500 MVA
- ICTs खण्ड: 2 संख्या
- लाइन खण्ड: 4 संख्या
- 400 kV बस रिएक्टर खण्ड: 2 संख्या
- बस रिएक्टर: 2x125 MVAr
- भविष्य के खण्ड के लिए स्थान: 4 संख्या
- भविष्य में 400/220 kV, 500 MVA ICT संबंधित बे सहित, के लिए स्थान

220 kV

- ICTs खण्ड: 2 संख्या
- लाइन खण्ड: 4 संख्या
- भविष्य के खण्ड के लिए स्थान: 4 संख्या

योजना के अंतर्गत अच्छादित पारेषण लाइनें बिहार और झारखंड राज्य के निम्नलिखित गांवों, कस्बों और शहरों से होकर, पर से, के आसपास से, के बीच से जाएगी।

1 अ) नॉर्थ करनपुरा - गया 400 kV डी/सी लाइन, क्वाड मूस कंडक्टर के साथ राज्य : बिहार		
गांव का नाम	तहसील	जिला
मोती चक, मौलानगर, मर्दाना, मोरा मर्दाना, रहीम चक, द्वारिका चक, घंटा डीह, बेलाही, मतिहानी, बिघाटोला, साफी, बारा, मझौली, सर्वोदयपुर, औरा, असनी, शिवगंज, सतघरवा, मिरचेहर, ज्ञान खाप, पूरन बीघा, पथागढ़, पथ, गोहटी, तुरी छोटा, जिंदापुर, शेखवारा, पर्मिया, श्रीपुर, गंगाहर, अहमदनगर, गौरा, सोभा खाप, पछाँ, रामगढ़, भोजू बीघा, भंवरबार, कबर बीघा, कोशिला, हरिदासपुर, नबी चक, सहदेव खाप, इगुना, कुसाहा, बहेड़ा, कुरुम डीह, कर्मा, बिशुनपुर, मेघन बीघा, तिउरा।	बोध गया	गया
मझौली, खैरत, सखौवां, पजिऔना, टिकैती, भूलानटोला, सलेमपुर, बिंदा, बेलघोघर, कुंदिल, गंगवार, बुनियाद बीघा, सेलरी, सुरौंधा, दहियार, बहरगढ़, धना चक, घोलसरी, भगौती, सरवन खास, धरमथान, सोनबरसा, बोधा बीघा, धीरजा बीघा, मनन बीघा, कलुवा खुर्द, बाजारकर, मखदूम पुर, छोटा सरवन, कर्मण, भदेया, कलुवा कलाँ, धनवान, बतासी, बेला, राजागंज, गंगटी, पदम चक, छोराबन, अदलपुर, पैली, चैनपुर, सन डीहा, हसनपुर, सोभा, रक्सी, मायापुर, भागहर, बाघर, बीबी पेशरा, भट बीघा, बांकी, जहांगीरा, दरबार, जोलाहटोला, देवनियां, गोसाईं पेशरा, देवरी डुमरी, बेरी, मन कुम्हारी, शाहबाजपुर, सोखिया, झाझ, शिवगंज, तिलैया कलां, तिलैया खुर्द, नवा डीह, गोस्वान, कठौतिया, चंदो, गंवा डीह, तुला चक, मानसा डीह, झांजी, इमलियाटांड, भेरिया, चोरदाहा, नौका डीह, मुरही, महुगेन, रेब्डा, पररिया, पथलगढ़ी (छन्नल्ली), जुमनरहि, पतलुका, धमना, कादल, बरसुद्धि, हसा सनरी, भुसा, सौंठा, लटकुटा, मुनरपाडा, इटवां, बेला, धनगेन, पकरिया, पोखरिया, नवा डीह, अमुखप, दुआरी, पुरानी धनगेन, कुम्भी, तिलेटांड.	बाराचट्टी	गया

लरहु, लालगंज, तेतरिया, महुलिया, केदार बीघा, चंदा, अमहना, बालकोआ, परवरिया, जोगार, साकिन जोगार, बगही, लठुआ, अम्सोत, बुम्बुवार, महुगेन, बाजु खुर्द, बाजु कलां, बुमुर, बाजु कलां, रोशन चक, चौरी, गम्हीरा, दुर्जन खाप.	मोहनपुर	गया
नवा डीह, मानसी डीह, भलुवा, गौरवा डीह, करमौनी, ढब, नामा डीह, दारीऔरा, बोटी बीघा, तेतरिया कलां, नीमहर, अंगना, बरमोरिया, जयनगर, घोमघवा, कुंडिलवा, डाक्टर बीघा, श्री चक, शाहपुर (सलेमपुर), अकौनी, बाबू बीघा, गौसपुर, हबीबपुर, अहुराधि, गम्हरिया, पिरासिन, धरमपुर, करहरा, फतेहपुर, गोबिंदपुर, रामपुर, शिवगंज, वारी, मुंशी चक, मिस्सिटन्ड, ज्वाल बीघा, आंग्रा, निमियात्तण्ड, घाठेरिया, नीमा, बजौरा, खैरा, मखरौर (कुटी चक), निगड़ी, बहरा भुरकुंडा, सीता चक, घिरसिंडि खुर्द, गणेश चक, नौका डीह, घिरसिंडि कलां, देसपुरा, डुमरी, केसपी, रत्नी, करमथान, सुराई मंडल, मणि चक, मधुआँ, जोधा बीघा, बेलहरिया, तेतरिया, तिवारी चक, चंदा, अमरूआ, नान्हू बीघा, बखतौरा, बूँदा बीघा, सबल बीघा, पट्टी, मुसेहनी, बांग्ला, भेलवा, बिघटोला, कल्याणपुर, बनवारा, रतल चक, कंगाली बीघा, सुंदर कुम्हारी, कूर्मवान, मुसहना, खरने, सोपालो, मुसहना, भरहर, त्रिलोकपुर, बभनदेव, जेहल डीह, मखमपुर, मुनरिअल, खरौंची, दुलाम डीह, लालमाती, बहरवाबाद, बहेड़ा डीह, गोसाईं डीह, मौलानगर, कैदुआ डीह (किमगढ़ी), पत्थरकट्टा, खरांटी, परबतियाटोला, पतिलाटोला, भितघरवा, नादरपुर, खगराई, मासौंधा, गोमठा मीठा, बड़ौली, बहेड़ा डीह, गरवड़िया, रागनियाटांड, खपिया, पचाम्प, लहुआरी, डोमचुआँ, नकटिया, महुअरि, गरहैतरी, केवलियाटोला, बथानमअ.	दोभी	गया
1 ब) नॉर्थ करनपुरा - गया 400 kV डी/सी लाइन, क्वाड मूस कंडक्टर के साथ राज्य : झारखंड		
गांव का नाम	तहसील	जिला
कोलवा, जोगनी पहाड़, लूटा, फाटा, बेगवातारी, जावादोहर, गुऐ, केदीमाउ, लुटाटोली, जल डीहा, पंडारकोला, कुरखेता, सतवत, कादलगोरी, गोरतोली, सरहद (सुरहुद), करमो, सहोत्रा, सरहद.	(हंटर-गंज) शालीग्राम राम नारायणपुर	चतरा
बिलुतुड़ाग, कोटाप, हेमरालुता, डुमरिया, डेबरा, छेवटा, रोस्ना, भगवानपुर, झबरगढ़ा, धमधमा, गेरी, प्राणपुर, राजपुर, पांडेडीह, रेहोड़ाग, कालिन्दिनगर, मिसिरडीह, कड़े, होल्मगरा, सिद्ध, कुडरी, जोरि, केवाई, मायापुर, डुमरी, मंझोली कलां, नवा डीह, बराबगी, बिरे खाप, कुशमा डीह, मंझोली खुर्द, तात्रा, बकचुमा, पकरियाटांड.	कान्हा चट्टी	चतरा
कारी, आरा, देवरिया, तेतरियाटांड, चरकापिपर, अबुकटू, मक्तमा, एकौना, अम्बधोहर, कचा, चमाबन्धा, गलगलवा, देहुरी, मरदानपुर, रूड खुर्द, करहिरा, होलमगरा कलां, करमाटांड, लछछनपुर, आरा, होलमगरा खुर्द, गंधरिया, धरमपुर, सन बीघा, मिशरौल, चौर, ऊंटा, पांडेपुरा, बाहेरकुछा, संघरी, चेरी खाप, कल्याण खाप, रक्सी, देवरिया, सिसंग, जंगी, खरीक, लोआगरा, एम डीह, जैनपुर, नवा डीह, मायापुर, माधवा खाप, रामतुंडा, लेम, गंगाजीत, दरियातु, पूर्णतंदटोला, भोजिया, सातौ, कामता खुर्द, सिंहपुर, बनगरटोला, कामत, ओबरा, घाघरतंदटोला, मरामदिरी, दाहुरी, कनौड़ी, असरिहा, लातबेर, लुपंगा, जपूत, तुरी, टिलरा, गोदरा.	चतरा	चतरा
मार्गा, नवाडीह, दमौल	पथलगड़ा	चतरा

देल्हो, चद्रम, कोरी, चालंगबार, लोबगा, कसिया डीह, नवा डीह, इचाक खुर्द, बाजोबार, बांगासंदम, सीरिया, हराखनाथपुरी, गोपेरा, मझलीटांड (सीकरी), मझलीटांड, सिमरिया, बाना, सांडी, बांहे, लिप्डा, रोल, गोवा कलां, गोवा खुर्द, टिकुलिया, कुटी, अरातू, इचाक कलां, बारा, फटाहटोला, पुंझा, सबनो, काडले, चोंथा, दारी, कोद्वारी, रानी पोखर, सोहर खुर्द (केवता), खपिया, बकचोमा (पंच फेरवा), एडल, खुटेरवा, पगार, सहार कलां, मुरवे, कटिया, टुम्बपत्रा, जातिअहि, सिधापत्रा, सदमा.	सिमरिया	चतरा
रहरेथवा, गोबिंदपुर, बोंगागरहा, भटकुरटोली, धनगरा, खरीका, अलगडीहा, बिरबिर, सिधपा, पद्मपुर, कसियाडीह, लेम्बुआ, बुकरू, जमुनियाटंर, दरीडाग, हेसतु, चट्टी, बरवाडीह, रोल, तेसरचेपा, बड़बीघा, करहनीटोला, गिद्दी, नवाडीह, फुलवरिया, तेखथा, तेलियाडीह, मिसरोल, खढ़इया, बार्किटरीटोली, गढ़वाईयाटोली, भहगहीटोंग्री, काबरा, मारंगलोईयाटोली, टिटहियातनरटोली, बूदा, हमबिटोली, हँदुटोली, कधमदिरी, कटही मिसरोल, शिवपुर, किसनपुर, नवडीहा, घाघरा, पोकला, देरघराटोली, कसियाडीह, बांसाटोली, होन्हे, कुर्हपत्रा, नवाइह, सोपराम, सेरेनदाग, बिंगलात, बरकुटे, कोयाद, कुमरंग कलां, कुरलौंगा, सराधु, हैचबलिया, बार्किटंर, कुमरंग खुर्द, उर्सु, कुण्डी, हाहावै, परदहि, चपडीह, सिदालू, बसरिया, उबकापानी, डेवलगरा, टेार्टटंर, नवटांड, चहेतर, मासीलौंग, रहम, असनातरी, बार्किटंर, झुंडुवा, नैपरम (मंजरही), कामटा, गारीलौंग, टंडवा.	टंडवा	चतरा
कुरकुटा, पेकसा, दगडवा, किरकिरा, केंदुआ, पहारा.	गिधौर	चतरा
पचरा, सिझुवा, बुकरू, डोम्बबागी, अगरटोली, पेटो.	केरेडारी	हजारीबाग
मनातू, बनैत, पाकुरवाटोली, सोहरवतनरटोली.	बरियातू	लातेहार

2) नॉर्थ करनपुरा - चांदवा (झारखंड) पूर्लिंग स्टेशन 400 kV डी/सी लाइन, क्वाड मूस कंडक्टर के साथ

राज्य : झारखंड

गांव का नाम	तहसील	जिला
बुकरू, डोम्ब बागी.	केरेडारी	हजारीबाग
टंडवा, रहम, झुंडुवा, नैपरम (मंजरही), हाहावै, कामटा, गारीलौंग, उर्सु, बार्किटंर, कुमरंग कलां, कुमरंग खुर्द, बसरिया, उबकापानी, मासीलौंग, चहेतर, सिदालू, असनातरी, नवतंर, समिदिह, धुमना, टेार्टटंर, देवलगरा, गोंडा, सुइयातंर (जोगीपुरा), बुर्ही पात्रा, सत पहाड़ी, चिरियांगा, खंडहर, खरपत्तिंतंर, नवटांड, लकरधारी, परसत्री, चपराटोली, सिद्पा, छात्रों खाप, रामनिटांड, खूटीटोली, बंगटीया, बाली, बानपुर, मदना पात्रा, सरैया, कोइलरा, बघलाता, दाहू, दहुटांड, बरवाटोली, बरगांव, उलातु सम्राटटांड, उलातु नवाटांड, बरवाटांड, नवादा, बरवाटोली, दाहू पहाड़.	टंडवा	चतरा
पन्नातनी, कौद्रा, आरा, गणेशपुर, अखितया, चमरैंगा, चमरटोली, सरदमटांड, पारसटोली, केरी, बिश्रामपुर, दुधमटिया, तोरिटांड, कौद्रा, बरहकबर, कालीमाटी, झूमरटोली, हूँद्राटांड, ओकेआ, बरकाबंध, मुरपा, हरहि पहाड़, जीलंगा, मानसिंधा, जिपुआ, कोलपटिया, बसरियागरहा, मरनलोइया, इत्के, हेब्ना, बारा, तुरिसोट, बरवाटोली, पिंडारकोम, बिशुनपुर, थालिया, बलबल, पिपराही, गेरेंजा, हरपु, मकैयातंर, भैंसादों, परगरहा, खराटियाटोली, धाधु, चितरपुर, बरतपुर, जवटोली, पुरुनीपानी.	बालूमाथ	लातेहार
माहुआटांड, तिलयदमार, सलैया पहाड़, हुकुटोली, छोछरि टोंगरी, हरैयाटोली, चकला, बरवाटोली, ललका टोंगरी, केल्हवा, सतमिलिया, अंबुआटांड, अंबुआटांड, साहिलतावा पहाड़, नगर, सदबरटोली, नवाटोली, धसावा पहाड़, लोहसिंधटोली, कर्महि, बसरियाटोली, अम्बाडोहार, छात्रों, सौंडिहारटोली, भेलवाही, टिमकी, डोमरखार, दामोदर, पोकियाटोली, गौदामर, चीरोखार, चेदुआ, थुथबार, हरियाटोली, जोबियाटोली, अंगारहा, कुसुमटोली, टुजीटोली, विराहदतोली, भुसरह, आर्थ, कुजरी, कामटा, पिपराही, हिसरी, बेलवाही, ननफलिया.	चंदवा	लातेहार

3) धनबाद सब-स्टेशन (ट्विन मूस) पर रांची - मायथॉन-RB 400 kV डी/सी लाइन के दोनों सर्किट्स का LILO राज्य : झारखंड		
गांव का नाम	तहसील	जिला
खरिकाबाद, फफूआड, जंगलपुर, मुर्गाबनी, आशना, काशीटांड, गहिरा, टोलादेवली, देवली, नीरो, मोरंगा, मोरडीह, जमबाद, कालादबर, खारीडीह, दलदली, चम्पापुर, रंगडीह, बरवा, दुमदुमी, पारसी, घोरमुर्गा, भेलातर, डोमनडीह, नारोडीह, महुबनी, चक चिरोबाद, हरंगडीह, चंद्राईडीह.	गोबिंदपुर	गोबिंदपुर
सोनाबाद, बरुइगरहा, तेतुलिया, तेतुलिआ, रामकनाली, दुभि, कोइराड, झिरका, बिल्ली, लाखियाबाद, काशीटांड, चंदइ, काटाजानी, कालुबथान, केराबकं, एलाकैंड, कुसियारा, छोटा अम्बोना, फतेपुर, जामकुदार, बारा अम्बना, पिपराटांड, सीतालपुर, सुरजूडीह, सलूकछापर, बरमुरी, दूधिया.	चिरकुंडा	धनबाद

मार्ग संरेखण की प्रति अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में उपलब्ध है। सूचना एतद्वारा आम जनता को लिखित रूप में अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से दो महीने के भीतर प्रस्तावित पारेषण प्रणाली का अवलोकन/अभ्यावेदन करने की सूचना दी जाती है। आगे के विवरण और स्पष्टीकरण के लिए संपर्क करें :

पदनाम : प्रोजेक्ट डायरेक्टर (ट्रांसमिशन)
 हेड ऑफिस का पता : 7ए, समभाव बिल्डिंग, जजेस बंगला रोड, बोड़कदेव, अहमदाबाद, गुजरात-380015
 ईमेल पता : nktil.transco@gmail.com
 फोन नं. : 079- 2555 6961
 फैक्स नं. : 079- 2555 7216

NATIONAL COMMODITY & DERIVATIVES EXCHANGE LIMITED

MUMBAI

The Memorandum of Association and Articles of Association of National Commodity and Derivatives Exchange Ltd have been amended pursuant to the merger of FMC with SEBI and repeal of FCR Act, and in accordance with the directives of Securities and Exchange Board of India (SEBI) and the same has been approved by the SEBI vide its letter no. SEBI/HO/CDMRD/DEA/OW/P/2016/25984 dated September 16, 2016 and direction of SEBI vide letter no. CDMRD/DEA/OW/21544/2016 dated August 01, 2016 as under:

THE COMPANIES ACT, 1956

(A COMPANY LIMITED BY SHARES)

MEMORANDUM OF ASSOCIATION

OF

NATIONAL COMMODITY & DERIVATIVES EXCHANGE LIMITED

- I. The name of the Company is NATIONAL COMMODITY & DERIVATIVES EXCHANGE LIMITED.
- II. The Registered office of the Company is situated in the State of Maharashtra within the jurisdiction of Registrar of Companies situated at Mumbai.
- III. The objects for which the Company is established are

A. THE MAIN OBJECTS TO BE PURSUED BY THE COMPANY ON ITS INCORPORATION ARE:-

- (1) To facilitate, promote, assist, regulate and manage in the public interest, dealings in commodities (which expression shall include goods as defined in Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 as amended from time to time) of all kinds and to provide specialised, advanced, automated and modern facilities for nationwide trading in commodities and in all types of contracts for buying and selling of commodities, including its derivatives such as Futures, Options and other kinds of derivatives, permitted and to be permitted in future, clearing and settlement thereof, with a high standard of integrity and honesty, and to ensure trading in a transparent, fair and open manner with access to all players in the commodity markets including foreign funds, corporates and banks engaged in financing commodity transactions from areas in or outside India.
- (2) To initiate, facilitate and undertake all such activities in relation to Exchange dealing in commodities and its derivatives, as are required for reliable nationwide platform to hedge commodity and price related risks for cross-section of players in the various commodities including producers, manufacturers, traders, exporters and importers; to offer hedging and other related requirements to the community at large; to provide novel and innovative safety mechanisms, to the market participants in such commodities; and to support, develop, promote and maintain a healthy market in the best interests of the all players, market participants and the general public and the economy and to introduce high standards of professionalism among themselves and the commodity(ies) markets in general.

B. THE OBJECTS INCIDENTAL OR ANCILLARY TO THE ATTAINMENT OF THE MAIN OBJECTS :-

- (3) To apply for and obtain from the Government of India recognition of the Exchange as a recognised Commodity & Derivatives Exchange for the purpose of managing the business of purchase, sale, dealings and transactions in the commodities within the meaning of Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 and the rules made thereunder.
- (4) To frame and enforce Rules, Byelaws and Regulations regulating the mode and manner, the conditions, subject to which business on the Commodity & Derivatives Exchange shall be transacted and the rules of conduct of the Trading Members and Clearing Members of the Exchange including all aspects relating to membership, trading, settlement, constitution of committees, delegation of authority and general diverse matters pertaining to the Exchange and also including code of conduct and business ethics for the Trading Members and from time to time, to amend or alter such rules, byelaws and regulations or any of them and to make any new, amended or additional rules, byelaws or regulations for the aforesaid purposes.
- (5) To settle disputes and to decide all questions of trading methods, practices, usages, custom or courtesy in the conduct of trade and business at the National Commodity & Derivatives Exchange.
- (6) To fix, charge, recover, receive security deposit, admission fee, fund subscriptions, subscription and such other charges, fees from trading members / clearing members of the Exchange or the Company in terms of

the Articles of Association and Rules and Byelaws of the Exchange and also to fix, charge and recover deposits, margins, penalties, adhoc levies and other charges.

- (7) To regulate and fix the scale of commission and brokerage and other charges to be charged by the trading / clearing members of the Exchange.
- (8) To facilitate resolution of disputes by arbitration or to nominate arbitrators or umpires on such terms and in such cases as may seem expedient; to set up Regional or local arbitration panels and to provide for arbitration of all disputes and claims in respect of all transactions relating to or arising out of or in connection with or pertaining to transactions in commodities and including arbitration of disputes between members of the Exchange and between members of the Exchange and persons who are not members of the Exchange but constituents of members of the Exchange; and to remunerate such Arbitrators, Regional Arbitration panels or Local Panels and to make rules, bye-laws and regulations in relation to such arbitration proceedings, the fees of arbitrators, the costs of such arbitration, and related matters and to regulate the procedures thereof and enforcement of awards and generally to settle disputes and to decide all questions of usage, custom or courtesy in the conduct of trade and business in commodities.
- (9) To establish and maintain or to arrange or appoint agents, to establish and maintain one or more clearing houses for the achievement of objects and purposes of the Company and / or maintain warehouses, godowns, certification agencies, clearing corporation and such other related entities or divisions and to control and regulate the working and administration thereof.
- (10) To take part in the management of or set up an advisory or research division and act as consultants and advisers for the setting up and organising of Exchanges in India or abroad, and to act as consultants for commodities and their marketing and advising on the incidents and features of trading on the Exchange and to enter into an association with any other Exchange in India or abroad whether by subscription or on a co-operation principle for furthering the objects of the Company.
- (11) To acquire, collect, preserve, disseminate or sell or otherwise provide to any person for consideration or otherwise any statistical, research material or other information, to maintain a library and to print, publish, undertake, manage and carry on any newspaper, journal, magazine, pamphlet, official year book, daily or other periodicals or other works in connection with or in furtherance of the objects of the Exchange.
- (12) To provide counsel or advice, assist or help in obtaining counsel or advice on business strategies, including management, technology, production, marketing and finance or to take part in the management of or set up an advisory or research division and act as consultants and advisors for the setting up and organising of such set-ups in India or abroad.
- (13) To enter into arrangements with any government, central, state, municipal or local bodies or other authority which may seem conducive to the Company's objects or any of them and to obtain from any such government or authority any powers, licenses, concessions, grants or decrees, rights or privileges, whatsoever which the Company may think fit or which may seem to the Company capable of being turned to account any such arrangements, powers, licenses, concessions, grants, decrees, rights or privileges.
- (14) To act as Trustees of any deeds constituting or securing any debentures, debenture stock or other securities or obligations, to undertake and execute any other trusts and also undertake the office of or exercise the powers of executor, administrator, receiver, custodian and trust corporation.
- (15) To receive and hold in trust as trustees, nominees, agents of any person, company, body corporate, trust, fund, institution, corporation, government, state or of municipal or other authority or public body, client, member, shareholder, depositor or any other intermediary, any and all kinds of property including shares, stocks, debentures, securities, policies, book debts, claims, choses in action, bonds, promissory notes, participation certificates, lands, buildings, hereditaments, business concerns and undertakings, mortgages, charges and annuities, patents, licences, leases and interests of every kind or against any person, company, body corporate and to collect and receive all dividends, interests, monies payable to or receivable from the beneficiary in respect of such property so held by the Company and hold, sell, buy, transfer, exchange, mortgage, pledge, assign, deal with or manage the same in the normal course of the business of the Company.
- (16) To constitute any trusts with a view to issue preferred, deferred or any other special stocks, securities, certificates or other documents based on or representing any shares, stocks, securities, certificates or other document or other assets appropriated for the purpose of any such trust and to settle and regulate and, if

required, to undertake and execute any such trust to issue, hold or dispose of any such preferred, deferred or other special stocks, securities, certificates or documents.

- (17) To negotiate, enter into and perform or obtain performance of contract(s) with foreign or other companies or bodies corporate, firms and individuals with regard to technology transfer, know-how, technical process, technical assistance, technical or other collaboration, in connection with the setting up and operation of computer hardware and software and telecommunications and any other necessary system or establishment in connection with the business of the Company.
- (18) To undertake designing, constructing and developing, management know-how, studies, development and evaluation of projects, expertise, data, information and / or dealing with technical know-how connected with the activities referred to in the main objects of the Company.
- (19) To act as brokers, negotiate with banks, financial institutions and others for arranging loans, and underwriting of shares and debentures and to undertake and carry out promotion and formation of companies, firms, associations, trusts and run and manage them for others and on own account and to assist in selection, recruitment and hiring of personnel.
- (20) To provide technical know-how in India and abroad which is likely to assist the manufacture of goods or processing of materials or in the installation or erection of plant or machinery for such manufacture or processing including providing of technological design, installation and erection information and to render engineering, technical management and various types of skilled and other services to all types of business and industry or other organisation.
- (21) To improve and elevate the technical and business knowledge of persons engaged in or about to be engaged in activities pertaining to Company or in connection therewith and with a view to provide for delivery of lectures and the holding of classes or form any such technical or educational institutions and to run and administer it.
- (22) To achieve greater growth of the national economy through increased productivity, effective utilisation of materials and manpower resources, export promotion and continued application of modern techniques so as to discharge its social and moral responsibilities to the shareholders, employees, customers, local community and the society, and to undertake, carry out, promote and sponsor or assist any activity which the Directors consider likely to promote national welfare or social, economic or moral upliftment of the public or any section of the public and in such manner and by such means as the Directors may think fit and the Directors may without prejudice to the generality of the foregoing undertake, carry out, promote and sponsor any activity for publication of any book, literature, newspaper or for organising lectures or seminars likely to advance these objects or for giving merit awards, or giving scholarships to any other person to enable them to pursue their studies, academic pursuits or researches and for establishing, conducting or assisting any institution, fund or trust having any one or more of the aforesaid objects as its objects, by giving donations or otherwise in any other manner as the Directors may at their discretion think fit in order to implement any of the above mentioned objects or purpose transfer without consideration or at such value as the Directors may think fit and deliver the ownership of any property of the Company to or in favour of public or local body or authority or Central or state governments or any public institutions or trust or funds or organisation of persons as the Directors may approve.
- (23) To undertake, carryout, promote, and sponsor development including any programme for promoting the social and economic welfare or upliftment of the public in any rural area and to incur any expenditure on any programme of rural development and to assist execution and promotion thereof either directly or through an independent agency or in any other manner without prejudice to the generality of the promoting of rural development and that word rural area shall include such area as may be regarded as rural areas under section 35CC of the Income Tax Act, 1961 or any other law relating to rural development for the time being in force or as may be regarded by the Directors as rural areas.
- (24) To carry on the business as forwarding agents, representatives of manufacturers, sales and marketing.
- (25) To become a member of or co-operate with any other association whether incorporated or not, whose objects are to promote the interests represented by the Exchange or to promote general, commercial and trade interests and to procure from and communicate to such association such information as may further the objects of the Exchange or promote measures for the protection and promotion of the business of the Exchange.
- (26) To enter into any partnership or arrangement in the nature of a partnership, joint venture, co-operation or union of interest, with any person or persons, company or corporation engaged or interested or about to be

engaged or interested in the carrying on or conduct of any business or enterprises which the Company is authorised to carry on or conduct or from which the Company would or might derive any benefit whether direct or indirect.

- (27) To purchase or otherwise acquire and take over either the whole or any part of, or any interest in the business, goodwill, trade marks, patents, property, contracts, agreements, rights, privileges, effects, assets and liabilities of any person or persons, firm, other company, body corporate or corporation carrying on or having ceased to carry on, any business which the Company is authorised to carry on or possessing property suitable for the purpose of the Company and upon such terms and subject to such stipulations and conditions and at or for such price or consideration, if any, in money, shares, money's worth, or otherwise as may be deemed advisable.
- (28) To employ or engage staff to carry out the objects and to acquire from any person, firm or body corporate whether in India or elsewhere technical information, know-how, grants or licences.
- (29) To open bank accounts of all nature including overdraft accounts with any bank and operate such accounts.
- (30) To adopt such means of making known the services, business interests of the Company as it may deem expedient and in particular by advertising in the press, radio, television, web, and cinema, by circulars, by purchase, construction and exhibitions of work or art or general interest, by publication of books and periodicals and by granting prizes, rewards, scholarships and donations, subject to Section 293A of the Companies Act, 1956.
- (31) To procure recognition for the Company in or under the laws of any place outside India and to take such steps as may be necessary to give the Company same rights and privileges in any part of the world as are possessed by, or available to, local companies or partnerships of a similar nature.
- (32) To appoint trustees (whether individuals or corporations) to hold securities on behalf of and to protect the interests of the Company.
- (33) To appoint attorneys and agents whether on commission, fees or otherwise and constitute agencies and sub-agencies of the Company in India and elsewhere.
- (34) To remunerate any person or company, corporation or body corporate for the services rendered or to be rendered in acting as trustees for debentures or debenture stock holders or placing or assisting to place or guarantee the placing of any of the shares in the Company's capital or debenture or debenture stock or other securities of the Company or the conduct of its business or for guaranteeing the payment of such debentures or debenture stock and interest.
- (35) To insure any or all of the properties, undertakings, contracts, risks or obligations of the Company in such manner as the Company may deem fit.
- (36) To apply for, purchase or otherwise acquire, protect and renew in any part of the world any patents, patent rights, *brevets d'invention*, trade marks, designs, licences, concessions, rights, privileges and the like conferring of any exclusive or limited right to use any secret or other information as to any invention which may seem capable of being used for any of the purposes of the Company or may appear likely to be advantageous or useful to the Company and to use, exercise, develop or grant licences, privileges in respect of or otherwise turn to account the property rights or information so acquired and to assist, encourage and spend money in making experiments of all inventions, patents and rights which the Company may acquire or propose to acquire in connection with its business.
- (37) To establish, provide, maintain and conduct, or otherwise subsidise research laboratories and experimental workshops for scientific and technical research and experiments and to undertake and carry on with all scientific and technical researches, experiments and tests of all kinds and to promote studies and research, both scientific and technical investigations and inventions by providing subsidising, endowing or assisting laboratories, workshops, libraries and arranging lectures, meetings and conferences and by providing for the remuneration of professors or teachers and by providing for the award of scholarships, prizes and grants to students or otherwise and generally to encourage, promote and reward studies, researches, investigations, experiments, tests and inventions of any kind that may be considered likely to assist any of the business which the Company is authorised to carry on.
- (38) To amalgamate, enter into any partnership or partially amalgamate with or acquire interest in the business of any other company, person or firm carrying on or engaged in, or about to carry on or engage in any

business or transaction included in the objects of the Company, or enter into any arrangement for sharing profits, or for co-operation or for mutual assistance, with any such person, firm or company or to acquire, carry on business that are ancillary to the business of the Company or connected therewith or which may seem to the Company capable of being conveniently carried on in connection with the above, to give or accept by way of consideration for any of the acts or things aforesaid or property acquired, any shares, debentures, debenture stock or securities that may be agreed upon, and to hold and retain, or sell, mortgage and deal with any shares, debentures, debenture stock or securities so received.

- (39) To form, promote, subsidise or organise and assist or aid in forming, constituting, promoting, subsidizing or organising and assisting or aiding companies or partnerships of all kinds having similar objects for the purpose of acquiring any undertaking or any property whether movable or immovable, whether with or without liability of such undertaking or company or any other company, for advancing directly or indirectly the objects hereof and to take or otherwise acquire, hold and dispose of shares, debentures and other securities in or of any such company and to subsidise or otherwise assist or manage or own any such company in furtherance of the objects of the Company.
- (40) To do in India or any other part of the world either as principals, agents, trustees, contractors or otherwise and either alone or in conjunction with others and either by or through agents, contractors, trustees or otherwise for the attainment of the objects of the Company.
- (41) To own, establish or have and maintain offices, branches and agencies in or out of India for its business.
- (42) To subscribe, contribute, make donations or grants or guarantee money for any general or useful object(s) or fund(s) or institution(s) and to aid pecuniarily or otherwise, any association, body or movement having as its object the solution, settlement or surmounting of industrial or labour problems or trouble or the promotion of business, industry, trade, commerce, commodities market.
- (43) To establish and support or assist in the establishment and support of any funds, trusts and conveniences calculated to advance and further the objects and purposes of the Company or required by law.
- (44) To effect payments or disbursements out of the funds or other movable property(ies) of the Company for any of the purposes specified in these presents and the Articles of Association and Rules, Byelaws & Regulations of the Exchange and to make, draw, accept, endorse, discount, execute warrants, debentures or other negotiable or transferable documents.
- (45) To borrow, raise loans (other than public deposits) in Indian or foreign currencies in any form, accept deposits, create indebtedness, receive grants or take advances (whether interest free or not), procure equity loans or raise any monies required for the objects and purposes of the Company upon such terms and in such manner and with or without security as may from time to time be determined and in particular by the issue of debentures, debenture stock, bonds or other securities, provided always and it is hereby expressly declared as an original and fundamental condition of any such borrowing or raising of monies, that in all cases and under all circumstances any person claiming payment whether of principal or interest or otherwise howsoever in respect of the monies so borrowed or raised shall be entitled to claim such payment only out of the funds, properties and other assets of the Company which alone shall be deemed to be liable to answer and make good all claims and demands whatsoever under and in respect of the monies so borrowed or raised and not the personal funds, properties and other assets of all or any one or more of the members of the Board of Directors or Members of the Company, their or his heirs, executors, administrators, successors and assigns who shall not and shall not be deemed to in any way incur any personal liability or render themselves or himself personally subject or liable to any claims or demands or be charged under and in respect of the monies so borrowed or raised, and in the event of the funds, properties and other assets of the Company being insufficient to satisfy the claims of all persons claiming payment as aforesaid, the right of any such person shall be limited to and he shall not be entitled to claim anything more than his part or share of such funds, properties and other assets of the Company in accordance with the terms and conditions on which the monies have been so borrowed or raised.
- (46) To invest, lend or advance the monies of the Company not immediately required in or upon such security and with or without interest and in such other investments as may from time to time be determined by the Company.
- (47) To lend money and negotiate loans, to draw, accept, endorse, discount, buy, sell and deal in bills of exchange, promissory notes, bonds, debentures, hundies, coupons and other negotiable instruments and securities, to issue on commission, subscribe for purchase, take, acquire and hold, sell, exchange and deal in shares, stocks, bonds, debentures, obligations or securities of any Government, local authority or other

- interest in any other company. To carry on in all their respective branches the business of hire purchase, housing general finance, investment trust, legal and life insurance trust.
- (48) For achievement of all or any of the purposes of the Company, to draw, make, accept, endorse, discount, execute, issue, negotiate and sell bills of exchange, promissory notes, cheques, bills of lading, warrants and other negotiable instruments with or without security upon such terms and conditions as the Company deems fit and also to advance any sum or sums of monies upon materials or other goods or any other things of the Company upon such terms and securities as the Company may deem expedient.
- (49) To receive money on deposit or otherwise upon such terms and conditions as the Company may approve, and to give guarantee and indemnities in respect of debts and contracts of others.
- (50) To secure or discharge any debt or obligation or binding in such manner as may be thought fit and in particular by mortgages, hypothecation, pledge of or charges upon the undertaking and all or any of the assets and property (present and future) and the uncalled capital of the Company or by the creation and issue on such terms as may be thought expedient, of debentures, debenture-stock, or other securities of any description or by the issue of shares credited as fully or partly paid-up.
- (51) To give guarantee, and carry on and transact every kind of guarantee and counter guarantee business and in particular the payment of any principal monies, interest or other monies secured by or payable under debentures, bonds, debenture-stock, mortgage, charges, contracts, obligations and securities and the payment of dividends on and the repayment of the capital stocks and shares of all kinds and descriptions.
- (52) To acquire any shares, stocks, debentures, debenture-stock, bonds, derivatives, obligations or securities by original subscription, tender, purchase, exchange or otherwise and to subscribe for the same either conditionally or otherwise, and to guarantee to the subscription thereof and to exercise and enforce all rights and powers conferred by or incidental to the ownership thereof in furtherance of the objects of the Company.
- (53) To erect, construct, extend and maintain suitable building(s) or premises for any of the purposes of the Company and to alter, add, modify, change to or remove or replace or substitute, or augment space in any such building or buildings.
- (54) To buy, purchase, sell, lease, take on lease, exchange or otherwise acquire lands, building, flats and hereditaments of any tenure or description in India or elsewhere whether for residential, business, manufacturing or other purposes and any rights, easements, advantages, and privileges relating thereto and to construct, alter, improve, decorate, develop, furnish and maintain offices, flats, houses, factories, warehouses, godowns, shops, buildings and other structures, works and conveniences of all kinds on any of the lands or immovable properties purchased or acquired by the Company for its own use.
- (55) To sell, insure, mortgage, exchange, lease, let, underlease or sub-let, grant licenses, easement and other rights over, improve, manage, develop and turn to account and in any other manner deal with or dispose of the undertaking(s), investments, property(ies), assets, rights and effects of the Company or any part thereof for such considerations as may be thought fit, including any stocks, shares or securities of any other company, whether partly or fully paid up.
- (56) To train or pay for the training in India or abroad of any of the Company's employees or any candidate in the interest of or for the furtherance of the Company's objects.
- (57) To provide for the welfare of employees or ex-employees of the Company or its predecessors in business and the spouse, widow or widower, father (including step-father), mother (including step-mother), brother (including step-brother), sister (including step-sister), son (including step-son), daughter (step-daughter), son's widow, daughter's widower, deceased son's children, deceased daughter's children or dependents of such employees or ex-employees, by building or contributing to the building of houses or dwellings or by grant of money, pensions, allowances, bonus, ex-gratia or other payments or by creating and from time to time subscribing or contributing to provident funds and other associations, institutions, funds or trusts and by providing or subscribing or contributing towards places of instruction and recreation, hospitals and dispensaries, medical and other attendances and to subscribe or contribute to or otherwise assist charitable, benevolent, national and or other institutions or objects.
- (58) Subject to the provisions of the Companies Act, 1956, to indemnify officers, directors, employees, promoters and servants of the Company or any persons otherwise concerned with the Company against proceedings, costs, damages, claims and demands in respect of anything done or ordered to be done by them, for and in the interest of the Company or for any loss or damage or misfortune whatever that may happen in the execution of duties of their offices and / or in relation thereto.

- (59) To distribute any of the property of the Company in specie or in kind among the members in the event of winding up subject to the provisions of the Companies Act, 1956 or any modification or replacement thereof.
- (60) To exercise all or any of its corporate powers, rights and privileges and to conduct its business in all or any of its branches in the Union of India and in any or all States and territories and in any or all foreign countries and for this purpose to have and maintain and to discontinue such number of offices and agencies therein as may be convenient.
- (61) To promote or join in the promotion of any company or companies for the purpose of acquiring all or any of the property, rights and liabilities of the Company, or of advancing, directly or indirectly, the objects or interests thereof, or for any other purpose which may seem directly or indirectly calculated to benefit the Company and to take or otherwise acquire, and hold shares in any such company, and to guarantee the payment of any debentures or other securities issued by any such company.
- (62) To pay all costs, charges and expenses of and incidental to the formation, promotion, registration and establishment of the Company and issue of its capital including any underwriting or other commission, broker's fee and charges in connection therewith including costs, charges of negotiations and contracts and arrangement made prior to and in anticipation of the formation and incorporation of the company.
- (63) To take part in the management, supervision or control of the business or operations of any company or undertaking and for that purpose to render technical and professional services and act as administrators or in any other capacity, and to appoint and remunerate any directors, administrators or accountants or other experts or agents for consideration or otherwise.
- (64) To do all and everything necessary suitable or proper for the accomplishment of any of the purposes of the attainment of any of the objects.

C. OTHER OBJECTS

NIL

IV. The liability of the Members is limited.

V. (a) The Authorised Share Capital of the Company is Rs. 70,00,00,000/- (Rupees Seventy Crores only) divided into 6,00,00,000 (Six Crores only) Equity Shares of Rs. 10/- (Rupees Ten Only) each and 1,00,00,000 (One Crore only) preference shares of RS. 10/- Rupees Ten Only) each with power to increase or reduce the capital from time to time in accordance with these Articles and subject to the provisions of The Act and to divide the shares in the capital of the Company from the time being into several classes and attach thereto respectively such preferential, deferred, qualified or special rights, privileges, restrictions or conditions whether in regard to dividend, voting, return of capital or otherwise in accordance with these Articles for the time being and to vary, modify or abrogate any such rights, privileges, conditions or restrictions in such manner as may be provided in The Act or as provided by these presents.

(b) The minimum paid up capital of the company shall be Rs 5,00,000/-(Rupees Five Lakhs only)

We, the several persons whose names, addresses, descriptions and occupations as hereunto subscribed, are desirous of being formed into a Company in pursuance of this Memorandum of Association and we respectively agree to take the number of shares in the capital of the Company as set opposite our respective names.

Sr. No.	Name, address and description of the Subscribers	Number of Equity Shares taken by each Subscriber	Signature(s)	Signature, Name, Address, Description and Occupation, if any, of the witness
1.	ICICI Bank Limited ICICI Bank Towers, Bandra Kurla Complex, Bandra (East) Mumbai 400 051. <i>Represented by its Senior General Manager</i> <i>Mr. Puranam Hayagreeva Ravikumar S/o. Late Mr. Puranam Venkata Subrahmanyam</i> Occupation : Commercial Banking	21985 (Twenty one thousand nine hundred eighty five)	ICICI Bank Ltd. Sd./- Authorised Signatory	Witness to all subscribers Sd./- Bharat Ramakant Upadhyay 313, Shri Saidham Co-op. Hsg.

Sr. No.	Name, address and description of the Subscribers	Number of Equity Shares taken by each Subscriber	Signature(s)	Signature, Name, Address, Description and Occupation, if any, of the witness
2.	Life Insurance Corporation of India Central Office Yogakshema, Jeevan Bima Marg, P.B. No. 19953 Mumbai 400 021. <i>Represented by its Chief – Investments, Mr. Vasudeo Rajaram Galkar, S/o. Mr. Rajaram Narayan Galkar</i> Occupation : Life Insurance	5000 (Five thousand)	For Life Insurance Corporation of India Sd./- Authorised Signatory	Society, 90 Feet Raod, Ghatkopar (East), Mumbai – 400 077. Occupation : Practising Company Secretary
3.	National Bank for Agriculture and Rural Development Plot No. C-24, G Block, Bandra Kurla Complex, Bandra (East) Mumbai 400 051. <i>Represented by its Chairman, Mr. Yogesh Chand Nanda S/o. Mr. Tek Chand Nanda</i> Occupation : Financing of Agriculture & Rural Development	1000 (One thousand)	For National Bank for Agriculture and Rural Development Sd./- Chairman	
4.	National Stock Exchange of India Limited Exchange Plaza, Plot C-1, Block G, Bandra Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai 400 051. <i>Represented by its Sr. Vice President & Company Secretary, Mr. J. Ravichandran S/o. Mr. S. Jagannathan</i> Occupation : Stock Exchange	21985 (Twenty one thousand nine hundred eighty five)	For National Stock Exchange of India Limited Sd./- J. Ravichandran Company Secretary & Sr. Vice President	
5.	Narendra Kumar Gupta S/o. Mr. Bihari Dass, R/O A-204, Mercury, Vasanth Galaxy, Bangur Nagar, Goregaon (West), Mumbai 400 090. Occupation : Service	10 (Ten)	Sd./-	
6.	Mr. J. Ravichandran S/o. Mr. S. Jagannathan 703, NEAT House, Road No. 86, Dadar (West), Mumbai 400 028. Occupation : Service	10 (Ten)	Sd./-	
7.	Bhashyam S S/o. Mr. K. Seshan B-403, Riviera Building, Opp. Sai Gardens, Akurli Road, Lokhandwala Township, Kandivili (East) Mumbai 400 101. Occupation : Service	10 (Ten)	Sd./-	
	Total	50000 (Fifty Thousand)		

Date : April 17, 2003

Place : Mumbai

THE COMPANIES ACT, 1956
(A COMPANY LIMITED BY SHARES)
ARTICLES OF ASSOCIATION
OF
NATIONAL COMMODITY & DERIVATIVES EXCHANGE LIMITED
TABLE 'A' EXCLUDED

Table A not to apply

1. The regulations contained in Table "A" in the First Schedule to the Companies Act, 1956 shall not apply to the Company except in so far as the same are repeated or expressly made applicable, in these Articles or by The Act.

Company to be governed by these Articles

2. The regulations for the management of the Company and for the observance by the Members thereof and their representatives, shall subject to any exercise of the statutory powers of the Company with reference to the repeal or alteration of, or addition to its regulations by special resolution, or as prescribed by the Companies Act, 1956, be such as are contained in these Articles. No provision of the Articles of Association shall operate in contravention of any provisions of Securities Contracts (Regulation) Act, 1956, Securities Contracts Regulation Rules, 1957, Securities and Exchange Board of India Act, 1992 or any Rules or Regulations and Circulars etc, issued by SEBI from time to time.

INTERPRETATION

3. (1) In these Articles and the Memorandum of Association, the following words and expressions shall have the following meaning unless excluded by the subject or the context,
 - (a) "The Act" or "the said Act" means The Companies Act, 1956 and includes every statutory modification, replacement or re-enactment thereof, for the time being in force.
 - (aa) "banking company" shall have the same meaning as assigned to it in clause (c) of section 5 of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949).
 - (b) "Bye-laws", "Rules" and "Regulations" means the Byelaws, Rules and Regulations of the Exchange for the time being in force.

Explanation: "Rules" shall include Memorandum and Articles of Association of the Company.
 - (c) "Board", "Board of Directors" or "the Directors" means the Board of Directors of the Company or the Directors of the Company collectively.
 - (d) "Clearing Member" means a person having clearing and settlement rights in any recognized clearing corporation and shall include any person having clearing and settlement rights on the Exchange.

Provided that such a clearing member of the Exchange shall be required to become a member of recognized clearing corporation from such date as may be specified by the SEBI.
 - (e) "Clearing House" is one which acts as the common agent of the members of the Clearing House for clearing contracts between members and for delivering commodities to and receiving commodities from members in connection with any of the contracts and to do all the things necessary or proper for carrying out the foregoing purposes. The functions of the Clearing House may be performed by the Exchange or any other agency identified by the Exchange for this purpose.
 - (f) "Goods" mean the meaning assigned to it in section 2 (bb) of SCRA.
 - (g) "The Company" means "National Commodity & Derivatives Exchange Limited".
 - (h) "Depositories Act" means the Depositories Act, 1996 and includes every statutory modification, replacement or re-enactment thereof for the time being in force.
 - (i) "Depository" means a company formed and registered under the Companies Act, 1956 (1 of 1956) and or Companies Act 2013 which has been granted a certificate of registration under sub-section (1A) of section 12 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992).

- (j) "Exchange" means a commodity derivatives exchange that is demutualized, has an electronic trading platform and is permitted to assist, regulate or control the business of buying, selling or dealing in derivatives on all commodities as notified by the Central Government from time to time.
- (k) "Executive Committee" means the Executive Committee(s) constituted and appointed by the Board pursuant to and in the manner prescribed in these Articles to manage day-to-day affairs of the Exchange. A member of the Executive Committee shall be called an "Executive Committee member".
- (l) DELETED.
- (la) "insurance company" shall have the same meaning as assigned to it in sub-section (8) of section 2 of the Insurance Act, 1938 (4 of 1938).
- (lb) "Key Managerial Personnel" means the Chief Executive Officer or the Managing Director or the Manager; the Company Secretary; the Whole- time Director; the Chief Financial Officer; and such other officer as may be prescribed by Central Government.
- (m) "Members of the Company" or "Members" mean the duly registered holders, from time to time, of the shares of the Company and include the subscribers to the Memorandum of Association of the Company and the beneficial owner(s) as defined in clause (a) of sub-section (1) of Section 2 of the Depositories Act, 1996 but does not include a bearer of a share warrant.
- (ma) "Securities"— include
 - (i) shares, scrips, stocks, bonds, debentures, debenture stock or other marketable securities of a like nature in or of any incorporated company or other body corporate;
 - (ia) derivative;
 - (ib) units or any other instrument issued by any collective investment scheme to the investors in such schemes;
 - (ic) security receipt as defined in clause (zg) of section 2 of the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002;
 - (id) units or any other such instrument issued to the investors under any mutual fund scheme;

Explanation.—For the removal of doubts, it is hereby declared that "securities" shall not include any unit linked insurance policy or scrips or any such instrument or unit, by whatever name called, which provides a combined benefit risk on the life of the persons and investment by such persons and issued by an insurer referred to in clause (9) of section 2 of the Insurance Act, 1938 (4 of 1938);

 - (ie) any certificate or instrument (by whatever name called), issued to an investor by any issuer being a special purpose distinct entity which possesses any debt or receivable, including mortgage debt, assigned to such entity, and acknowledging beneficial interest of such investor in such debt or receivable, including mortgage debt, as the case may be;
 - (ii) Government securities;
 - (iia) such other instruments as may be declared by the Central Government to be securities; and
 - (iii) rights or interest in securities;
- (n) "Trading Member" means a person having trading rights in the Company and includes a stock broker.
- (o) "Month" means a calendar month.
- (p) "The Office" means the registered office for the time being of the Company.
- (pa) "persons acting in concert" in the context of acquisition or holding of shares or voting rights or control shall mutatis mutandis have the same meaning as assigned to it in clause (q) of sub-regulation (1) of regulation 2 of the Securities and Exchange Board of India (Substantial acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011 or any modification thereof.
- (pb) "person resident in India" shall have the same meaning as assigned to it in clause (v) of section 2 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999).

- (pc) "person resident outside India" shall have the same meaning as assigned to it in clause (w) of section 2 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999).
 - (pd) "public" includes any member or section of the public but does not include any trading member or clearing member or their associates and agents. Provided that a public sector bank, public financial institution, an insurance company, mutual fund and alternative investment fund in public sector, that has associate(s) as trading members or clearing members, shall be deemed as public.
 - (q) "Record" includes the records maintained in the form of books or stored in computer or in such other form as may be determined by regulation made by SEBI in relation to the Depositories Act, 1996.
 - (r) "Register" means the Register of the Members to be kept pursuant to Section 150 of The Act.
 - (s) "Seal" means the Common Seal for the time being of the Company.
 - (sa) "trading-cum-clearing member" means a person who is admitted by the Exchange as a member of the Exchange conferring a right to trade and clear through the clearing house of the Exchange as a clearing member.
 - (sb) "SCRA" means Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 and include any statutory modification or re-enactment thereof for the time being in force.
 - (sc) "SECC" means Securities Contracts (Regulation) (Stock Exchanges and Clearing Corporations) Regulations, 2012 and include any statutory modification or re-enactment thereof, Circulars and guidelines issued, for the time being in force.
 - (sd) "Securities and Exchange Board of India/SEBI" means the Securities and Exchange Board of India established under section 3 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992.
 - (t) "Tribunal" means the National Company Law Tribunal constituted under sub-section (1) of Section 10FB of The Act.
 - (u) "Written" or "in writing" means and includes the word printed, lithographed, represented in or reproduced in any mode in a visible form
 - (v) "Year" means "Financial Year of the Company".
- (2) Words importing persons shall include companies, corporations, firms, joint families or joint bodies, association of persons, societies, trusts, public financial institutions, subsidiaries of any of the public financial institutions or banks or companies.
- (3) Words importing the masculine gender shall include the feminine gender and vice versa and neutral gender in the case of companies, corporations, firms, etc.
- (4) Words importing the singular shall include the plural and vice versa.
- (5) Words and expressions used and not defined in these Articles but defined in the Companies Act, 2013, the Securities and Exchange Board of India, 1992, Securities Contracts (Regulation) Act, 1956, the Depositories Act, 1996 or any rules or regulations made thereunder shall have the same meaning respectively assigned to them in those Acts, rules and regulations made thereunder or any statutory modification or re-enactment thereto, as the case may be.
- (6) Head / Marginal notes shall not affect the construction hereof.

NET WORTH REQUIREMENTS

3A. (1) The Exchange shall have a minimum networth of one hundred crore rupees at all times.

Explanation: For the purpose of this Article, 'networth of the Exchange' means the aggregate value of paid up equity share capital plus free reserves (excluding statutory funds, benefit funds and reserves created out of revaluation) reduced by the investments in business, whether related or unrelated, aggregate value of accumulated losses and deferred expenditure not written off, including miscellaneous expenses not written off.

(2) The Exchange shall not distribute profits in any manner to its shareholders until the networth specified above is achieved.

(3) The Exchange shall submit an audited net worth certificate from the statutory auditor on a yearly basis by the thirtieth day of September of every year for the preceding financial year or as permitted/directed by the SEBI.

SHARE CAPITAL

Authorised Share Capital

4. (1) (a) The Authorised Share Capital of the Company, from time to time, would be as per clause V (a) of the Memorandum of Association of the Company.

Power to Increase or reduce capital

(b) The Company has power from time to time to increase or reduce its capital and to divide the shares in the capital for the time being into several classes and to attach thereto respectively such preferential, cumulative, convertible, guarantee, deferred, qualified or other special rights, privileges, conditions or restrictions, as may be determined by or in accordance with these presents and to vary, modify or abrogate any such right, privileges or conditions or restrictions in such manner as may of for the time being be permitted by these presents or the legislative provisions for the time being in force in that behalf.

- (2) The minimum paid up capital of the Company shall be Rs 5,00,000/-(Rupees Five Lakhs only)

Register of Members and Debenture-holders, etc.

5. The Company shall cause to be kept a Register of Members, an Index of Members, a Register of Debenture-holders and an Index of Debenture-holders in accordance with Sections 150, 151 and 152 of The Act.

Foreign Register of Members or Debenture-holders

6. The Company may exercise the powers conferred on it by Section 157 of The Act with regard to the keeping of the Foreign Register and the Board may, subject to the provisions of Section 158 of The Act, make and vary such regulations as it may think fit in respect of the keeping of any such register.

Inspection of Register of Members and Debenture-holders, etc.

7. The Register of Members, the Index of Members, the Register and Index of Debenture-holders, copies of all Annual Returns prepared under Section 159 of The Act, together with the copies of certificates and documents required to be annexed thereto under Section 161 of The Act shall, except when the Register of Members or Debenture-holders is closed under the provisions of The Act or these Articles, be open during business hours (subject to such reasonable restriction as the Company may impose) to inspection of any Member or Debenture-holder without fee and to inspection of any other person on payment of such sum as may be prescribed by The Act for each inspection. Any such Member or person may take extracts therefrom on payment of such sum as may be prescribed by The Act for each inspection.

The Company to send extract of Register, Index, etc.

8. The Company shall send to any Member, Debenture-holder or other person on request, a copy of the Register of Members, the Index of Members, the Register and Index of Debenture-holders or any part thereof required to be kept under The Act, on payment of such sum as may be prescribed by The Act. The copy shall be sent within a period of ten days, exclusive of non-working days, commencing on the day next after the day on which the requisition is received by the Company.

Restriction on allotment

9. The Directors shall observe the restriction as to allotment contained in Sections 69, 70, and 73 of The Act and shall cause to be made the Returns as to allotment provided for in Section 75 of The Act.

Shares at the disposal of the Directors

10. Subject to the provisions of The Act and these Articles, the shares in the Capital of the Company for the time being (including any shares forming part of any increased capital of the Company) shall be under the control of the Directors who may allot or otherwise dispose of the same or any of them to such persons in such proportions and on such terms and conditions and either at a premium or at par or at a discount (subject to compliance with the provisions of Section 79 of The Act) and at such times as they may from time to time think fit and proper; provided that option or right to call shares shall not be given to any person except with the sanction of the Company in General Meeting.

Directors may allot shares as fully paid-up or partly paid-up

11. Subject to the provisions of The Act and these Articles, the Directors may allot and issue shares in the capital of the Company as payment or part payment for any property sold or goods transferred or machinery supplied or for services rendered to the Company and any shares which may be so allotted may be issued as fully paid-up or partly paid-up and if so issued shall be deemed to be fully paid-up shares or partly paid-up shares.

Acceptance of Shares

12. Any application signed by or on behalf of an applicant for shares in the Company, followed by an allotment of any shares therein, shall be an acceptance of shares within the meaning of these Articles; and any person who thus or otherwise accepts any shares and whose name is in the Register shall for the purpose of these Articles be a Member.

Company not bound to recognise any interest in shares other than that of the registered holders

13. Save as herein otherwise provided, the Company shall be entitled to treat the person whose name appears in the Register of Members as the holder of any shares as the absolute owner thereof and accordingly shall not (except as ordered by a Court of competent jurisdiction or as by law required) be bound to recognise any benami, trust or equity or equitable, contingent or other claim to or interest in such share on the part of any other person whether or not it shall have express or implied notice thereof.

Company's funds may not be applied in purchase of or lent on shares of the Company

14. Except to the extent permitted by Sections 77 and 77A of The Act, no part of the funds of the Company shall be employed in the purchase of or lent on the security of the shares of the Company.

Liability of Members

15. Every Member or his heirs, executors or administrators shall pay to the Company the portion of the capital represented by his share or shares, which may for the time being remain unpaid thereon, in such amounts at such time or times and in such manner as the Board shall, from time to time, require or fix payment thereof.

Trusts not recognised

16. Except as ordered by a Court of Competent Jurisdiction or as provided by The Act, no notice of any trust, expressed or implied or constructive, shall be entered on the Register of Members or of Debenture-holders of the Company.

MODIFICATION OF CLASS RIGHTS*Power to modify rights of different classes of shareholders and the rights of dissentient shareholders*

17. (1) If at any time the share capital of the Company is divided into different classes of shares, the rights and privileges attached to the shares of any class may, subject to provisions of The Act, and whether or not the Company is being wound up, be varied, modified, commuted, affected or abrogated with the consent in writing of the holders of not less than three-fourths of the issued shares of that class or with the sanction of a special resolution passed at a separate meeting of the holders of the issued shares of that class.

(2) This Article is not to derogate from any power the Company would have had if this Article were omitted and the right of dissentient shareholders being holders of not less in the aggregate, than 10 per cent of the issued shares of that class, being persons who did not consent to or vote in favour of the Resolution for the variation, to apply to the Tribunal to have the variations or modifications cancelled as provided in Section 107 of The Act.

UNDERWRITING COMMISSION*Commission for placing shares*

18. (1) Subject to the provisions of Section 76 of The Act, the Company may at any time pay a commission to any person for subscribing or agreeing to subscribe (whether absolutely or conditionally) for any shares, debentures or debenture stock or any other security of the Company or for procuring or agreeing to procure subscriptions (whether absolute or conditional) for any shares, debentures or debenture stock or any other security of the Company. If the commission in respect of shares shall be paid or payable out of capital, the statutory conditions and requirements shall be observed and complied with. The amount or rate of commission shall not exceed the rates prescribed by The Act. The Commission may be paid or satisfied in cash or in shares, debentures or debenture stock of the Company.

Brokerage

(2) The Company may also, on issue of such shares pay such brokerage as may be permissible under The Act.

CERTIFICATES*Certificates how to be issued*

19. The certificate of title to shares shall be issued under the Seal of the Company and shall bear the signature of two Directors or persons acting on behalf of the Directors under a duly constituted Power of Attorney or some other persons

appointed by the Board for the purpose. The certificate of such shares shall, subject to provisions of Section 113 of The Act, be delivered in accordance with the procedure laid down in Section 53 of The Act within three months after the allotment or within two months after the application for the registration of the transfer of such share as the case may be unless the conditions of issue of the shares otherwise provide; provided always that notwithstanding anything contained in these Articles, the certificate of title to shares may be executed and issued in accordance with such other provisions of The Act or rules made thereunder, as may be in force for the time being and from time to time.

Member's right to Certificates

20. (1) Every Member shall be entitled without payment to one certificate for all the shares of each class or denomination registered in his name or, if the Directors so approve (upon paying such fee or fees or at the discretion of the Directors without payment of fees as the Directors may from time to time determine) to several certificates each for one or more shares of each class. Every certificate of shares shall specify the number of shares in respect of which it is issued and the amount paid thereon and shall be in such form as the Directors shall prescribe or approve. Where a Member has transferred a part of the shares comprised in his holding he shall be entitled to a certificate for the balance without charge.

(2) Notwithstanding anything contained hereinabove, the Board may, in its absolute discretion, refuse applications for subdivision or consolidation of share certificates, debenture or bond certificates, into denomination of less than marketable lot except when such sub-division or consolidation is required to be made to comply with a statutory provision or on order of a competent court of law.

As to issue of new certificate in place of one defaced, lost or destroyed.

21. (1) A certificate may be renewed or a duplicate of a certificate may be issued if such certificate (a) is proved to have been lost or destroyed, or (b) having been defaced or mutilated or torn, is surrendered to the Company or (c) has no further space on the back thereof for endorsement of transfer.

(2) The manner of issue or renewal of a certificate or issue of a duplicate thereof, the form of a certificate (original or renewed) or of a duplicate thereof, the particulars to be entered in the Register of Members or in the Register of renewed or duplicate certificates, the form of such Registers, the fee on payment of which, the terms and conditions on which a certificate may be renewed or a duplicate thereof may be issued, shall be such as prescribed by the Companies (Issue of Share Certificates) Rules, 1960 or any other rules in substitution or modification thereof.

CALLS

Calls

22. The Directors may, from time to time, make such calls as they think fit upon the Members in respect of all monies unpaid on the shares held by them respectively and not by the conditions of allotment thereof made payable at fixed times, and each Member shall pay the amount of every call so made on him to the person and at the times and places appointed by the Directors. A call may be made payable by instalments.

Calls on shares of the same class to be on uniform basis

23. Where any calls for further share capital are made on shares, such calls shall be made on a uniform basis on all shares falling under the same class. For the purpose of this Article, shares of the same nominal value on which different amounts have been paid-up shall not be deemed to fall under the same class.

Call to date from resolution

24. A call shall be deemed to have been made at the time when the resolution of the Directors authorising such call was passed and may be made payable by Members on the Register of Members on such date or at the discretion of the Directors on such subsequent date as shall be fixed by the Directors.

Notice of call

25. Not less than fourteen days notice of every call shall be given specifying the time of payment provided that before the time for payment of such call the Directors may, by notice in writing to the Members, revoke the same.

Board may extend time

26. The Directors may from time to time, at their discretion, extend the time fixed for the payment of any call and may extend such time as to all or any of the Members whom the Directors may deem entitled to such extension but no Member shall be entitled to any such extension save as a matter of grace and favour.

Liability of Joint-holders

27. The joint-holders of a share shall be jointly and severally liable to pay all calls in respect thereof.

Amount payable at fixed time or by installments as call

28. If by the terms of issue of any share or otherwise any amount is made payable at any fixed time or by installments at fixed times, whether on account of the amount of the share or by way of premium, every such amount or installment shall be payable as if it were a call duly made by the Directors and of which due notice has been given and all the provisions herein contained in respect of calls shall relate to such amount or installment accordingly.

Deposit and calls, etc. to be a debt payable immediately

29. The money, if any, which the Board shall, on allotment of any shares being made by them, require or direct to be paid by way of deposit, call or otherwise, in respect of any shares allotted by them, shall immediately on insertion of the name of allottee in the Register of Members as the name of the holder of such shares, become a debt due to and recoverable by the Company from the allottee thereof, and shall be paid by him accordingly.

When interest on call or installment payable

30. If the sum payable in respect of any call or installment be not paid on or before the day appointed for payment thereof the holders for the time being or allottee of the share in respect of which a call shall have been made or the installment shall be due shall pay interest on the same at such rate as the Directors may fix from time to time from the day appointed for the payment thereof to the time of actual payment, but the Directors may waive payment of such interest wholly or in part.

Payment in anticipation of calls may carry interest

31. The Directors may, if they think fit, receive from any Member willing to advance the same, all or any part of the moneys due upon the shares held by him beyond the sums actually called for, and upon the moneys so paid in advance or so much thereof as from time to time exceeds the amount of the calls then made upon the shares in respect of which such advance has been made, the Company may pay interest at such rate as the Member paying such sum in advance and the Directors agree upon and the Directors may at any time repay the amount so advanced upon giving to such Member one month's notice in writing; provided the Member shall not be entitled to any voting rights in respect of the monies so paid by him until the same would, but for such payment, become presently payable.

Evidence in action by Company against shareholders

32. On the trial or hearing of any action or suit brought by the Company against any Member or his legal representatives for recovery of any moneys claimed to be due to the Company in respect of his shares, it shall be sufficient to prove that the name of the Member, in respect of whose shares the moneys are sought to be recovered, is entered in the Register of Members as a Member/as one of the Members at or any subsequent date on which the moneys sought to be recovered are alleged to have become due on the shares, and the resolution making the call is duly recorded in the Minutes Book, and the notice of such call was duly given to the member, holder or joint holder or his legal representatives issued in pursuance of these Articles. It shall not be necessary to prove the appointment of Directors who made such call, nor that the quorum of Directors was present at the Board at which any such call was made had been duly convened or constituted, nor any other matter whatsoever but the proof of the matters aforesaid shall be conclusive evidence of the debt.

FORFEITURE, SURRENDER AND LIEN*Members not entitled to privileges of membership until all calls are paid*

33. No Member shall be entitled to receive any dividend or exercise any privilege as a Member until he shall have paid all calls for the time being due and payable on every share held by him, whether alone or jointly with any person, together with interest and expenses, if any.

If call or installment not paid, notice must be given

34. If any Member fails to pay the whole or any part of any call or installment or any money due in respect of any shares either by way of principal or interest on or before the day appointed for the payment of same, the directors may at any time thereafter during such time as the call or installment or any part thereof or other monies remain unpaid or a judgement or decree in respect thereof remains unsatisfied in whole or in part serve a notice on such Member or on the person, if any, entitled to the share by transmission requiring him to pay such call or installment or such part thereof or other moneys as remain unpaid together with any interest that may have accrued and all expenses (legal or otherwise) that may have been paid or incurred by the Company by reason of such non-payment.

Form of Notice

35. The notice shall name a day not being less than fourteen days from the date of the notice and the place or places on and at which such call or installment or such part or other moneys as aforesaid and such interest and expenses as aforesaid are

to be paid. The notice shall also state that in the event of non-payment on or before the time and at the place appointed the share in respect of which the call was made or installment is payable will be liable to be forfeited.

In default of payment shares to be forfeited

36. If the requisitions of any such notice as aforesaid are not complied with, any of the shares in respect of which such notice has been given may at any time thereafter before payment of all calls or installments, interest and expenses or the money due in respect thereof, be forfeited by resolution of the Directors to that effect. Such forfeiture shall, subject to the provisions of The Act, include all dividends and/or bonus declared or any other monies payable in respect of the forfeited shares and not actually paid before the forfeiture.

Application of forfeiture provisions

37. The provisions of the Articles as to the forfeiture shall apply in the case of non-payment of any sum which by terms of issue of share(s) become payable at a fixed time, as if the same had been payable by virtue of a call duly made or notified.

Entry of forfeiture in Register of Members

38. When any share shall have been forfeited, an entry of the forfeiture with the date thereof shall be made in the Register of Members.

Forfeited shares to be property of the Company and may be sold, etc.

39. Any share so forfeited shall be deemed to be the property of the Company and may be sold, reallocated or otherwise disposed of either to the original holder thereof or to any other person upon such terms and in such manner as the Directors shall think fit.

Power to annul forfeiture

40. The Directors may at any time before any share so forfeited shall have been sold, reallocated or otherwise disposed of, annul the forfeiture thereof upon such conditions, as they think fit.

Shareholders still liable to pay money together with interest owing at the time of forfeiture

41. (1) Any Member whose shares have been forfeited shall cease to be a Member in respect of the forfeited shares but shall, notwithstanding the forfeiture, be liable to pay and shall forthwith pay to the Company all calls, instalments, interests, expenses and other monies owing upon or in respect of such shares at the time of the forfeiture together with interest thereon from the time of the forfeiture until payment, at such rates as may be prescribed by the Directors and the Directors may enforce the payment of the whole or a portion thereof if they think fit but shall not be under any obligation to do so.

(2) The liability of such member shall cease if and when the Company shall have received payment in full of all such moneys in respect of the shares.

Surrender of share(s)

42. The Directors may subject to the provisions of The Act accept surrender of any share(s) from or for any member desirous of surrendering on such terms as they think fit.

Company's lien on shares

43. The Company shall have no lien on its fully paid shares. In the case of partly paid up shares, the Company shall have a first and paramount lien only for all monies called or payable at a fixed time in respect of such shares. Any such lien shall extend to all dividends from time to time declared in respect of such shares subject to Section 205 of The Act.

Enforcing lien by sale

44. For the purpose of enforcing such lien, the Company may sell the shares subject thereto in such manner as it thinks fit, but no sale shall be made unless a sum in respect of which the lien exists is presently payable or until the expiration of fourteen days after a notice in writing stating and demanding payment of such part of the amount, in respect of which the lien exists is presently payable, has been given to the Member or the person entitled thereto by reason of his death or insolvency.

Application of proceeds of sale

45. The net proceeds of any such sale after payment of the costs of such sale shall be applied in or towards the satisfaction of the debt or liability in respect whereof the lien exists so far as the same is presently payable and the residue, if any, paid to the Member or the person, if any, entitled to the transmission of the shares so sold.

Certificate of forfeiture

46. A certificate in writing under the hands of any Director, Manager or the Secretary of the Company that the call in respect of a share was made and that the forfeiture of the share was made by a resolution of the Directors to that effect shall be conclusive evidence of the fact stated therein as against all persons entitled to such shares.

Title of purchaser and allottee of forfeited shares

47. The Company may receive the consideration, if any, given for the share on any sale, allotment or other disposition thereof and the person to whom such share is sold, allotted or disposed of may be registered as the holder of the share and such person shall not be bound to see to the application of the consideration, if any, nor shall his title to the share be affected by any irregularity or invalidity in the proceedings in reference to the forfeiture, sale, allotment or other disposal of the share and the remedy of any person aggrieved by the sale shall be in damages only and against the Company exclusively.

Partial payment not to preclude forfeiture

48. Neither a judgement nor a decree in favour of the Company for calls or other monies due in respect of any shares nor any part payment or satisfaction thereunder nor the receipt by the Company of a portion of any money which shall from time to time be due from any Member in respect of any shares either by way of principal or interest nor any indulgence granted by the Company in respect of payment of any money shall preclude the forfeiture of such shares as herein provided.

ELIGIBILITY FOR ACQUIRING OR HOLDING SHARES

48A. (1) Notwithstanding anything contained in these Articles, no person shall, directly or indirectly, acquire or hold any equity shares of Exchange unless he is a fit and proper person, as per criteria prescribed by SEBI.

(2) Any person who, directly or indirectly, either individually or together with persons acting in concert, acquiring equity shares of the Exchange such that his shareholding in the Exchange exceeds two per cent of the paid up equity share capital of Exchange, shall seek approval of SEBI within fifteen days of the acquisition.

(3) Any person eligible to acquire or hold more than five per cent of the paid up equity share capital under sub-Article (2) above (shareholding in Exchange), may acquire or hold more than five percent of the paid up equity share capital of Exchange, only if, he has obtained prior approval of SEBI.

(4) DELETED.

(5) If approval under sub-Article (2) above is not granted by SEBI to any person, such person shall forthwith divest his excess shareholding, if any.

(6) Any person holding more than two per cent of the paid up equity share capital in Exchange shall file a declaration with the Exchange within fifteen days from the end of every financial year that he complies with the fit and proper criteria prescribed by SEBI.

(7) In the event of any person ceasing to be a 'fit and proper person' or being declared so, by SEBI, such person shall forthwith divest his shareholding in the Exchange. Further, pending divestment of shares, the voting rights of such person in the Exchange shall stand extinguished and any corporate benefit in lieu of such holding shall be kept in abeyance /withheld by Exchange. The Exchange shall take necessary steps, as it may deem fit, so as to ensure that the shareholding of such person is divested forthwith.

For the purposes of these Articles, a person shall be deemed to be a fit and proper person, as per directives of SEBI, as amended from time to time and which, at present, are as follows –

(a) such person has a general reputation and record of fairness and integrity, including but not limited to –

(i) financial integrity;

(ii) good reputation and character; and

(iii) honesty;

(b) such person has not incurred any of the following disqualifications —

(i) the person or any of its whole time directors or managing partners has been convicted by a Court for any offence involving moral turpitude or any economic offence, or any offence against the securities laws;

(ii) an order for winding up has been passed against the person;

(iii) the person or any of its whole time directors or managing partners has been declared insolvent and has not been discharged;

(iv) an order, restraining, prohibiting or debarring the person, or any of its wholtime directors or managing partners from dealing in commodity derivatives or securities or from accessing the commodity derivative or securities market, has been passed by SEBI or any other regulatory authority, and a period of three years from the date of the expiry of the period specified in the order has not elapsed;

(v) any other order against the person, or any of its whole time directors or managing partners, which has a bearing on the securities market, has been passed by SEBI or any other regulatory authority and a period of three years from the date of the order has not elapsed;

(vi) the person has been found to be of unsound mind by a Court of competent jurisdiction and the finding is in force; and

(vii) the person is financially not sound.

The question arising as to whether a person is a fit and proper person, the decision of SEBI in this behalf shall be final

SHAREHOLDING

48B (1) At least fifty one percent of the share capital of Exchange shall be held by public.

(2) No person resident in India shall at any time, directly or indirectly, either individually or together with persons acting in concert, acquire or hold more than five per cent. of the paid up equity share capital in a recognised stock exchange:

Provided that,—

(i) a stock exchange;

(ii) a depository;

(iii) a banking company;

(iv) an insurance company; and

(v) a public financial institution,

may acquire or hold, either directly or indirectly, either individually or together with persons acting in concert, upto fifteen per cent. of the paid up equity share capital of a Exchange.

(3) No person resident outside India, directly or indirectly, either individually or together with persons acting in concert, shall acquire or hold more than five percent of the paid up equity share capital.

(4) Subject to the limits as otherwise prescribed by the Central Government from time to time, the combined holding of all persons resident outside India in the paid up equity share capital of the Exchange shall not exceed, at any time, forty-nine per cent. of its total paid up equity share capital:

Provided that no foreign portfolio investor shall acquire shares of the Exchange otherwise than through the secondary market.

Explanation.—The acquisition of shares in the Exchange through secondary market shall be construed as follows:—

I. If the Exchange is not listed, a foreign portfolio investor may acquire its shares through transactions outside of a recognised stock exchange provided it is not an initial allotment of shares;

II. If the Exchange is listed, the transactions by a foreign portfolio investor shall be done through the recognised stock exchange where such shares are listed.

(5) No clearing corporation shall hold any right, stake or interest of whatsoever nature, in the Exchange.

(6) The Exchange shall monitor and at all times ensure compliance with the requirements and guidelines in this regard, issued by SEBI.

(7) (i) The shareholding or voting rights of any person in the Exchange shall not exceed the limits specified in these Articles.

(ii) Further, the shareholding as specified in these Articles shall include any instrument owned or controlled, directly or indirectly, that provides for entitlement to equity or rights over equity at any future date.

Provided that any equity or rights over equity, arising from such instruments in excess of limit of shareholding specified in these Articles, shall be reduced to the specified limit within a period of five years commencing from May 6, 2014.

(8) Without prejudice to the provisions of the SCRA, rules and SECC regulations, the Exchange shall disclose to SEBI, in the format specified by the SEBI, shareholding pattern on a quarterly basis within fifteen days from the end of each quarter, including therein the following:—

(a) the names of the ten largest shareholders along with the number and percentage of shares held by them;

(b) the names of the shareholders falling under regulations 17 and 18 of SECC Regulations who had acquired shares in that quarter.

The Exchange shall monitor and ensure compliance with the foregoing requirements at all times.

(9) In addition to the requirements under other laws in force, the Exchange shall maintain and preserve all the books, registers, other documents and records relating to the issue or transfer of its securities for a period of not less than ten years.

TRANSFER AND TRANSMISSION OF SHARES

Transfer not to be registered except on production of instrument of transfer

49. The Company shall not register a transfer of shares in, or debentures of, the Company, unless in accordance with the provisions of Section 108 of The Act, a proper instrument of transfer duly stamped and executed by or on behalf of the transferor and/or on behalf of the transferee and specifying the name, address and occupation, if any, of the transferee has been delivered to the Company along with the certificate relating to the shares or debentures, or if no such certificate is in existence, along with the letter of allotment of the shares or debentures; provided that where, on an application in writing made to the Company by the transferee and bearing the stamp required for an instrument of transfer, it is proved to the satisfaction of the Board of Directors that the instrument of transfer signed by or on behalf of the transferor and by or on behalf of the transferee has been lost, the Company may register the transfer on such terms as to indemnity as the Board may think fit; provided further that nothing in this Article shall prejudice any power of the Company to register as shareholder or debenture holder any person to whom the right to any shares in, or debentures of, the Company has been transmitted by operation of law.

Form of transfer

50. The instrument of transfer of any shares shall be in writing in the prescribed form and in accordance with Section 108 of The Act.

Transfer by legal representative

51. A transfer of shares or other interest in the Company of a deceased Member thereof made by legal representative shall, although the legal representative is not himself a Member, be as valid as if he had been a Member at the time of the execution of the instrument of transfer.

Application for registration of transfer

52. (1) An application for the registration of a transfer of any share or shares may be made either by the transferor or by the transferee.

(2) Where the application is made by the transferor and relates to partly paid up shares, the transfer shall not be registered, unless the Company gives notice of the application to the transferee and the transferee gives no objection to the transfer within two weeks from the receipt of the notice.

(3) For the purpose of sub-article (2), notice to the transferee shall not be deemed to have been duly given unless it is despatched by prepaid registered post to the transferee at the address given in the instrument of transfer, and if so despatched shall be deemed to have been duly delivered at the time at which it would have been delivered in the ordinary course of post

Company's power to refuse transfer

53. Nothing in these Articles shall prejudice the powers of the Company to refuse to register the transfer of any shares.

Transferor liable until the transferee's name entered in Register

54. The transferor shall be deemed to remain the holder of any shares until the name of the transferee is entered into the Register of Members in respect thereof.

Register of Transfers to be kept

55. The Company shall keep a book to be called the "Register of Transfers" and therein shall be fairly and distinctly entered particulars of every transfer or transmission of any share.

Rectification of register on transfer

56. Subject to the provisions of Section 111A of The Act, the shares or debentures or any interest therein of the Company shall be freely transferable; provided that if the Company without sufficient causes refuses to register transfer of shares within two months from the date on which the instrument of transfer or the intimation of transfer, as the case may be, is delivered to the Company, the transferee may appeal to the Tribunal in the manner provided under the above section.

No transfer to minor, etc.

57. No transfer shall be made to a person who is a minor or of unsound mind. However, subject to the provisions of The Act, the Directors may at their absolute discretion, approve a minor becoming a Member of the Company on such terms as the Directors may stipulate.

Custody of transfer instruments

58. The instrument of transfer shall, after registration, be retained by the Company and shall remain in its custody. All the instruments of transfer which the Directors may decline to register shall on demand be returned to the persons depositing the same. The Directors may cause to be destroyed all transfer deeds lying with the Company after such period as they may determine.

Closure of transfer books

59. The Directors shall have power, on giving not less than seven days' previous notice by advertisement as required by Section 154 of The Act, to close the Register of Members or the Debenture-holders of the Company for such period or periods of time not exceeding in the whole forty-five days in each year but not exceeding thirty days at a time as they may deem fit.

Title to shares of deceased holder

60. The executors or administrators of a deceased Member or holder of a succession certificate or other legal representation in respect of shares of a deceased Member where he was a sole or only surviving holder shall be the only person whom the Company may recognise as having any title to the shares registered in the name of such Members and the Company shall not be bound to recognise such executors or administrators unless they have first obtained Probate or Letters of Administration or such holder is the holder of a Succession Certificate or other legal representation as the case may be from a Court of competent jurisdiction in India; provided that, in any case where the Directors in their absolute discretion think fit, the Directors may dispense with production of Probate or Letters of Administration or succession certificate upon such terms as to indemnity or otherwise as the Directors in their absolute discretion think necessary and register the name of any person who claims to be absolutely entitled to the share(s) standing in the name of a deceased Member as a Member.

Registration of persons entitled to shares other than by transfer

61. Any person becoming entitled to any shares in consequence of the death, lunacy, bankruptcy or insolvency of any Member or by any lawful means, other than by a transfer in accordance with these Articles, may, with the consent of the Directors (which they shall not be under any obligation to give) upon producing such evidence that he sustains the character in respect of which he proposes to act under this Article or of his title, as the Directors shall require either be registered as a Member in respect of such shares or may, subject to the regulations as to transfer in these Articles contained, transfer such shares to some other persons. This Article is in these Articles referred to as the "the Transmission Clause".

Refusal to register nominee

62. The Directors shall have the same right to refuse to register a person entitled by transmission to any shares or his nominee as if he were the transferee named in an ordinary transfer for registration.

Board may require evidence of transmission

63. Every transmission of a share shall be verified in such manner as the Directors may require and the Company may refuse to register any transmission until the same be so verified or until or unless an indemnity be given to the Company with regard to such registration which the Directors at their discretion shall consider sufficient, provided nevertheless that there shall not be any obligation on the Company or the Directors to accept any indemnity.

Fee on transfer or transmission

64. No fee shall be payable to the Company in respect of transfer or transmission of any shares in the Company.

Nomination of shares

65. (1) *Every holder of shares in, or holder of debentures of, the Company may, at any time, nominate, in the prescribed manner, a person to whom his shares in, or debentures of, the Company shall vest in the event of his death.*

(2) Where the shares in, or debentures of, the Company are held by more than one person jointly, the joint holders may together nominate, in the prescribed manner, a person to whom all the rights in the shares or debentures of the Company shall vest in the event of death of all the joint holders.

(3) Notwithstanding any contained in any other law for the time being in force or in any disposition, whether testamentary or otherwise, in respect of such shares in, or debentures of, the Company, where a nomination made in the prescribed manner purports to confer and on any person the right to vest the shares in, or debentures of, the Company, the nominee shall, on the death of the shareholder or holder of debentures of, the Company or, as the case may be, on the death of the joint holders become entitled to all the rights in the shares or debentures of the Company or, as the case may be, all the joint holders, in relation to such shares in, or debentures of the Company to the exclusion of all other persons, unless the nomination is varied or cancelled in the prescribed manner.

(4) Where the nominee is a minor, it shall be lawful for the holder of shares, or holder of debentures, to make the nomination to appoint, in the prescribed manner, any person to become entitled to shares in, or debentures of, the Company, in the event of his death, during the minority.

Transmission of shares

66. (1) Any person who becomes a nominee by virtue of the provisions of Article 65, upon the production of such evidence as may be required by the Board and subject as hereinafter provided, elect, either (a) to be registered himself as holder of the share or debenture, as the case may be; or (b) to make such transfer of the share or debenture, as the case may be, as the deceased shareholder or debenture holder, as the case may be, could have made.

(2) If the person being a nominee, so becoming entitled, elects to be registered as holder of the share or debenture, himself, as the case may be, he shall deliver or send to the company a notice in writing signed by him stating that he so elects and such notice shall be accompanied with the death certificate of the deceased shareholder or debenture holder, as the case may be.

(3) All the limitations, restrictions and provisions of this Act relating to the right to transfer and the registration of transfers of shares or debentures shall be applicable to any such notice or transfer as aforesaid as if the death of the member had not occurred and the notice or transfer were a transfer signed by that shareholder or debenture holder, as the case may be.

(4) A person, being a nominee, becoming entitled to a share or debenture by reason of the death of the holder shall be entitled to the same dividends and other advantages to which he would be entitled if he were the registered holder of the share or debenture except that he shall not, before being registered a member in respect of his share or debenture, be entitled in respect of it to exercise any right conferred by membership in relation to meetings of the Company; provided that the Board may, at any time, give notice requiring any such person to elect either to be registered himself or to transfer the share or debenture, and if the notice is not complied with within ninety days, the Board may thereafter withhold payment of all dividends, bonuses or other moneys payable in respect of the share or debenture, until the requirements of the notice have been complied with.

The Company not liable for disregard of a notice prohibiting registration of transfer

67. The Company shall incur no liability or responsibility whatever in consequence of their registering or giving effect to any transfer of shares made or purporting to be made by the apparent legal owner thereof (as shown or appearing in the Register of Members) to the prejudice of persons having or claiming any equitable right, title or interest to or in the same shares notwithstanding that the Company may have had notice of such equitable right, title or interest or notice prohibiting registration of such transfer, and may have entered such notice or referred thereto in any book of the Company and the Company shall not be bound or required to regard or attend or give effect to any notice which may be given to them of any equitable title or interest or be under liability whatsoever for refusing or neglecting so to do though it may have been entered or referred in some book of the Company but the Company shall nevertheless be at liberty to regard and attend to any such notice and give effect thereto, if the Directors shall so think fit.

Transfer of Debentures

68. The provisions of these Articles shall, mutatis mutandis, apply to the allotment and transfer of or the transmission by law of the right to Debentures of the Company.

Restriction on transfer and pre-emptive rights

69. DELETED pursuant to SEBI letter no. CDMRD/DEA/OW/21544/2016 dated August 01, 2016.

DEMATERIALISATION OF SECURITIES

Dematerialisation of securities

70. (1) Notwithstanding anything contained in these Articles, the Company shall be entitled to dematerialise its securities and to offer securities in a dematerialised form pursuant to the Depositories Act, 1996.

Options for investors

(2) Every person subscribing to securities offer by the Company shall have the option to receive security certificate or to hold the securities with a depository. Such a person who is the beneficial owner of the securities can at any time opt out of a depository, if permitted by the law in respect of any security in the manner provided by the Depositories Act, and the Company shall, in the manner and within the time prescribed, issue to the beneficial owner the required Certificate of Securities.

Beneficial owners of securities

(3) If a person opts to hold his security with a depository, the Company shall intimate such depository the details of allotment of the security, and receipt of the information, the depository shall enter in its record the name of the allottee as the beneficial owner of the security.

Securities in depositories to be in fungible form

(4) All the securities held by a depository shall be dematerialised and be in fungible form. Nothing contained in Sections 153, 153A, 187B, 187C and 372A of The Act shall apply to a depository in respect of the securities held by it on behalf of the beneficial owners.

Rights of depositories and beneficial owners

(5) (a) Notwithstanding anything to the contrary contained in The Act or these Articles, a depository shall be deemed to be the registered owner for the purpose of effecting transfer of ownership of security on behalf of the beneficial owner.

(b) Save as otherwise provided in (a) above, the depository as the registered owner of the securities shall not have any voting rights or any other rights in respect of the securities held by it.

(c) Every person holding securities of the Company and whose name is entered as the beneficial owner in the records of the depository shall be a member of the Company. The beneficial owner of securities shall be entitled to all the rights and benefits and be subject to all the liabilities in respect of his securities which are held by a depository.

Service of documents

(6) Notwithstanding anything in The Act or these Articles to the contrary, where securities are held in a depository, the records of the beneficial ownership may be served by such depository on the Company by means of electronic mode or by delivery of floppies or discs.

Transfer of securities

(7) Nothing contained in Section 108 of The Act or these Articles shall apply to transfer of securities effected by a transferor and transferee both of whom are entered as beneficial owners in the records of a depository.

Allotment of securities dealt with in a depository

(8) Notwithstanding anything in The Act or these Articles, where securities are dealt with by a depository, the Company shall intimate the details thereof to the depository immediately on allotment of such securities.

Distinctive numbers of securities held in a depository

(9) Nothing contained in The Act or these Articles regarding the necessity of having distinctive numbers for securities issued by the Company shall apply to securities held with a depository.

Register and index of beneficial owners

(10) The Register and Index of beneficial owners maintained by a depository under the Depositories Act, 1996, shall be deemed to be the Register and Index of Members and Security holders for the purposes of these Articles.

CONVERSION OF SHARES INTO STOCK*Conversion of shares into stock and reconversion*

71. The Directors, with the sanction of a resolution of the Company in General Meeting, may convert any paid-up shares into stock and may reconvert any stock into paid-up shares of any denomination. When any shares have been converted into stock, the several holders of such stock may thenceforth transfer their respective interests therein or any part of such interest in the same manner and subject to the same regulations as and subject to which fully paid up shares in the Company's capital may be transferred or as near thereto as circumstances will admit.

Right of stockholders

72. The stock shall confer on the holders thereof respectively the same privileges and advantages as regards participation in profits and voting at meeting(s) of the Company and for other purposes as would have been conferred by shares of equal amount in the capital of the Company of the same class as the shares from which such stock is converted but no such privileges or advantages (except the participation in profits of the Company or in assets of the Company on winding up) shall be conferred by any stock which would not, if existing in shares, have conferred such privileges or advantages.

INCREASE, REDUCTION AND ALTERATION OF CAPITAL

Increase of Capital

73. The Company may, from time to time, in General Meeting increase its share capital by the creation of new shares of such amount as it thinks expedient and the new shares shall, subject to the provisions of The Act and these Articles, be created upon such terms and conditions and with such rights and privileges annexed thereto as the General Meeting creating the same shall direct and if no such directions be given, as the Directors shall determine.

Further issue of capital

74. The new shares (resulting from an increase of capital as aforesaid) may, subject to the provisions of The Act and these Articles, be issued or disposed of by the Company in the General Meeting or by the Directors under their powers in accordance with these Articles and the following provisions: -

(1) (a) Such new shares shall be offered to the persons who at the date of the offer are holders of the equity shares of the Company in proportion as nearly as circumstances admit to the capital paid-up on those shares at the date;

(b) The offer aforesaid shall be made by notice specifying the number of shares offered and limiting a time not being less than fifteen days from the date of the offer, within which the offer, if not accepted, will be deemed to have been declined;

(c) The offer aforesaid shall be deemed to include a right exercisable by the person concerned to renounce the shares offered to him or any of them in favour of any other person and the notice referred to in clause (b) shall contain a statement of this right;

(d) After the expiry of time specified in the notice aforesaid or on receipt of earlier intimation from the person to whom such notice is given that the person declines to accept the shares offered, the Board of Directors may dispose off them in such manner as they think most beneficial to the Company;

(2) Nothing in clause (c) of sub-article (1) shall be deemed:-

(a) to extend the time within which the offer should be accepted; or

(b) to authorise any person to exercise the right of renunciation for a second time on the ground that the person in whose favour the renunciation was first made has declined to take the shares comprised in the renunciation.

Shares under control of General Meeting

75. In addition to and without derogating from the powers for the purpose conferred on the Directors under Article 10, the Company in the General Meeting may in accordance with the provisions of Section 81 of The Act determine that any shares (whether forming part of the original capital of the Company or not) shall be offered to such persons (whether Members or holders of Debentures of the Company or not) in such proportion and on such terms and conditions and either at a premium or at par or at a discount (subject to compliance with the provisions of Section 79 of The Act) as such General Meeting shall determine.

Same as original capital

76. Except so far as otherwise provided by the conditions of issue or by these Articles any capital raised by the creation of new shares shall be considered part of the original capital and shall be subject to the provisions herein contained with reference to the payment of calls and instalments, transfer and transmissions, forfeiture, lien, surrender, voting and otherwise.

Reduction of capital

77. Subject to the provision of Section 100 of The Act, the Company may from time to time, by special resolution, reduce its share capital in any way authorised by law and in particular may pay off any paid up share capital upon the footing that it may be called up again or otherwise and may and if and so far as is necessary alter its Memorandum of Association by reducing the amount of its share capital and of its share accordingly.

Division and sub-division

78. The Company may in the General Meeting by ordinary resolution alter the conditions of its Memorandum of Association so as to :-

(1) Consolidate and divide all or any of its shares into shares of larger amount than its existing shares.

(2) Sub-divide shares or any of them into shares of smaller amount than originally fixed by the Memorandum of Association subject nevertheless to the provisions of The Act in that behalf. Subject to these Articles, the resolution by which any shares are sub-divided may determine that as between the holders of the shares resulting from such sub-division one or more of such shares may be given any preference or advantage or otherwise over the others or any other such shares.

(3) Cancel shares which at the date of such General Meeting have not been taken or agreed to be taken by any person and diminish the amount of the shares so cancelled.

JOINT HOLDERS OF SHARES

Joint holders of share

79. Where two or more persons are registered as the holders of any share, the person first named in the Register shall be deemed the sole holder for matters connected with the Company subject to the following and other provisions contained in the Articles :

(1) The Company shall be entitled to decline to register more than three persons as the joint holders of any share.

(2) The joint holders of any share shall be liable severally as well as jointly for and in respect of all calls and other payments which ought to be made in respect of such share.

(3) On the death of any such joint holders, the survivor(s) shall be the only person(s) recognised by the Company as having any title to the share but the Directors may require such evidence of death as they may deem fit and nothing herein contained shall be taken to release the estate of a deceased joint holder from any liability on shares held by him jointly with any other person(s).

(4) Any one of such joint holders may give effectual receipts for any dividends or other monies payable in respect of such share.

(5) Only the person whose name stands first in Register of Members as one of the joint holders of any share shall be entitled to delivery of the certificate relating to such share or to receive document (which expression shall be deemed to include all documents mentioned in Article 201) from the Company and any notice given to or document served on such person shall be deemed service on all the joint holders.

(6) Any one of two or more joint holders may vote at any meeting either personally or by attorney or by proxy in respect of such shares as if he were solely entitled thereto and if more than one of such joint holders are present at any meeting personally or by proxy or by attorney then that one of such persons so present whose name stands first or higher (as the case may be) in the Register in respect of such shares shall alone be entitled to vote in respect thereof but the other or others of the joint holders shall be entitled to be present at the meeting provided always that the joint holder present at the meeting personally shall be entitled to vote in preference to a joint holder present by attorney or by proxy stands first or higher (as the case may be) in the Register in respect of such shares. Several executors or administrators of a deceased Member in whose (deceased Member's) sole name any share stand, shall for the purpose of this clause be deemed to be joint holders.

BORROWING POWERS

Conditions on which money may be borrowed

80. Subject to the provisions of Sections 58A, 292 and 293 of The Act and the regulations made there under, the Board may, from time to time, by a resolution passed at a meeting of the Board accept deposits or borrow moneys from Members or from public and may raise and secure the payment of such sum or sums in such manner and upon such terms and conditions in all respects as it thinks fit.

Bonds, debentures etc., to be subject to control of Directors

81. Any bonds, debentures, debenture stock or other securities issued or to be issued by the Company shall be under the control of the Directors who may issue them upon such terms and conditions and in such manner and for such consideration as they shall consider being for the benefit of the Company.

Securities may be made assignable free from equities

82. Debenture, debenture stock, bonds or other securities may be made assignable free from any equities between the Company and the person to whom the same may be issued.

Issue at discount, etc. or with special privileges

83. Any bonds, debentures, debenture stocks or other securities may be issued at a discount, premium or otherwise and with any special privileges as to redemption, surrender, drawing, allotment of shares, attending at General Meetings of the Company, appointment of Directors and otherwise.

Mortgage of uncalled capital

84. If any uncalled capital of the Company is included in or charged by any mortgage or other security, the Directors may authorise the person in whose favour such mortgage or security is executed or any other person in trust for him to make calls on the Members in respect of such uncalled capital and the provisions herein before contained in regard to calls shall,

mutatis mutandis, apply to calls made under such authority and such authority may be made exercisable either conditionally or unconditionally and either presently or contingently and either to the exclusion of the Board's power or otherwise and shall be assignable, if expressed so to be.

Indemnity may be given

85. If the Directors or any of them or any other person shall become personally liable for the payment of any sum primarily due from the Company, the Directors may execute or cause to be executed any mortgage, charge or security over or affecting the whole or any part of the assets of the Company by way of indemnity to secure the Directors or person so becoming liable as aforesaid from any loss in respect of such liability.

Register of Charges to be kept

86. The Board shall cause a proper Register to be kept in accordance with the provisions of Section 143 of The Act of all mortgages, debentures and charges specifically affecting the property of the Company and shall duly comply with the requirements of the said Act in regard to registration of mortgages and charges and in regard to inspection to be given to creditors or Members of the Register of Charges and copies of instruments creating charges. Such sums as may be prescribed by The Act shall be payable by any person other than a creditor or Member of the Company for each inspection of the Register of Charges.

MEETINGS

Annual General Meeting

87. The Company shall in each year hold, in addition to other meetings, a general meeting which shall be styled as its "Annual General Meeting" in accordance with the provisions of Section 166 of The Act.

Extra-Ordinary General Meetings

88. All general meetings other than Annual General Meeting shall be called Extra-ordinary General Meetings.

Calling of Extraordinary General Meeting

89. (1) The Board may, whenever they think fit, and shall, on the requisition of such number of Members of the Company as is hereinafter specified, forthwith proceed to call an Extra-ordinary General Meeting of the Company.

(2) The requisition shall set out the matters for the consideration of which the meeting is to be called, shall be signed by the requisitionists and shall be deposited at the Registered Office of the Company.

(3) The requisition may consist of several documents in like form, each signed by one or more requisitionists.

(4) The number of Members entitled to requisition a meeting in regard to any matter shall be such number of them as hold at the date of deposit of the requisition, not less than one-tenth of such of the paid-up capital of the Company as at the date carries the right of voting in regard to that matter.

(5) Where two or more distinct matters are specified in the requisition, the provisions of sub-article (4) shall apply separately in regard to each such matter, and the requisition shall accordingly be valid only in respect of those matters in regard to which the condition specified in that sub-article is fulfilled.

(6) If the Board does not, within twenty one days from the date of deposit of a valid requisition in regard to any matters, proceed duly to call a meeting for the consideration of those matters, on a day not later than forty five days from the deposit of the requisition, the meeting may be called by such of the requisitionists as represent either majority in value of the paid-up share capital held by all of them or not less than one-tenth of such of the paid-up share capital of the Company as is referred to in sub-article (4), whichever is less. However, for the purpose of this sub-article (4), the Directors shall, in the case of a meeting at which a resolution is to be proposed as a special resolution give, such notice thereof as is required by sub-section (2) of Section 189 of The Act.

(7) A meeting called under sub-article (6) by the requisitionists or any of them:

(a) shall be called in the same manner, as nearly as possible, as that in which the meetings are to be called by the Board, but

(b) shall not be held after the expiration of three months from the date of the deposit of the requisition; provided that nothing contained in this sub-article shall be deemed to prevent a meeting duly commenced before the expiry of the period of three months aforesaid, from adjourning to some day after the expiry of that period.

(8) Where two or more persons hold any shares or interest in the Company jointly, a requisition, or a notice calling a meeting, signed by one or some of them only shall, for the purposes of this Article, have the same force and effect as if it had been signed by all of them.

(9) Any reasonable expenses incurred by the requisitionists by reason of the failure of the Board to call a meeting shall be reimbursed to the requisitionists by the Company and any sum so reimbursed shall be retained by the Company out of any sums due or to become due from the Company by way of fees or other remuneration for their services to such of the Directors as were in default.

Notice of Meeting

90. (1) A General Meeting of the Company may be called by giving not less than twenty one days notice in writing.

(2) A General Meeting may be called after giving shorter notice than that specified in sub-article (1), if consent is accorded thereto:

(a) in the case of an Annual General Meeting by all the Members entitled to vote thereat, and

(b) in the case of any other meeting by Members of the Company holding not less than ninety five per cent of such part of the paid-up share capital of the Company as gives them a right to vote at the meeting; provided that where any Members of the Company are entitled to vote only on some resolution to be moved at a meeting and not on the others, those Members shall be taken into account for the purposes of these sub-articles in respect of the former resolution or resolutions and not in respect of the latter.

Contents and manner of service of notice and persons on whom it is to be served

91. (1) Every Notice of a meeting of the Company shall specify the place and the day and the hour of the meeting and shall contain a statement of the business to be transacted thereat.

(2) Notice of every meeting of the Company shall be given

(a) to every Member of the Company in any manner authorised by sub-section (1) to sub-section (5) of Section 53 of The Act;

(b) to the persons entitled to a share in consequence of the death or insolvency of a Member by sending it through the post in a prepaid letter addressed to them by name, or by the title of representative of the deceased, or assignees of the insolvent or by any like description at the address, if any, in India supplied for the purpose by the persons claiming to be so entitled, or until such an address has been supplied, by giving the notice in any manner in which it might have been given if the death or insolvency had not occurred.

Omission to give notice not to invalidate proceedings at the meeting

92. The accidental omission to give notice to or the non-receipt of notice by any Member or other person to whom it should be given shall not invalidate the proceedings at the meeting.

Business at General Meetings

93. (1) In the case of an Annual General Meeting, all business to be transacted at the meeting shall be deemed special, with the exception of business relating to :

(a) the consideration of accounts, balance sheet and reports of the Board of Directors and Auditors;

(b) the declaration of a dividend;

(c) the appointment of Directors in the place of those retiring; and

(d) the appointment of, and fixing the remuneration of the Auditors; and

(2) in the case of any other General Meeting all business shall be deemed special;

(3) Where any items of business to be transacted at the meeting are deemed to be special as aforesaid, there shall be annexed to the notice of meeting a statement setting out all material facts concerning each such item of business, including in particular the nature of the concern or interest, if any, therein of every Director, and the Manager, if any; provided that where any item of special business as aforesaid to be transacted at a meeting of the Company relates to, or affects any other company, the extent of shareholding interest in that other company of every Director and the Manager, if any, of the Company shall also be set out in the statement if the extent of such shareholding interest is not less than twenty percent of the paid-up capital of that other Company.

(4) Where any item of business consists of the according of approval to any document by the meeting, the time and place where the document can be inspected shall be specified in the statement aforesaid.

Ordinary and Special resolutions

94. (1) A resolution shall be an ordinary resolution when at a General Meeting of which the notice required under The Act has been duly given, the votes cast (whether on a show of hands, or on a poll, as the case may be) in favour of the resolution (including the casting vote, if any, of the Chairman) by Members who, being entitled to do so, vote in person or where proxies are allowed, by proxy exceed the votes, if any, cast against the resolution by Members so entitled and voting.

(2) A resolution shall be a special resolution when :-

(a) the intention to propose the resolution as a special resolution has been duly specified in the notice calling the General Meeting or other intimation given to the Members of the resolution;

(b) the notice required under The Act has been duly given of the General Meeting; and

(c) the votes cast in favour of the resolution (whether on a show of hands, or on a poll as the case may be), by Members who, being eligible so to do vote in person, or where proxies are allowed, by proxy, are not less than three times the number of votes, if any, cast against the resolution by Members so entitled and voting.

Resolution requiring special notice

95. (1) Where, by any provisions contained in The Act or in these Articles, special notice is required of any resolution, notice of the intention to move the resolution shall be given to the Company not less than fourteen days before the meeting at which it is to be moved, exclusive of the day on which the notice is served or deemed to be served and the day of the meeting.

(2) The Company shall, immediately after the notice of the intention to move any such resolution has been received by it, give its Members notice of the resolution in the same manner as it gives notice of the meeting, or if that is not practicable, shall give them notice thereof, either by advertisement in a newspaper having an appropriate circulation or in any other mode allowed by these Articles, not less than seven days before the meeting.

PROCEEDINGS AT GENERAL MEETING

Quorum at General Meeting

96. Five Members personally present shall be a quorum for a General Meeting and no business shall be transacted at any general meeting unless the requisite quorum is present at the commencement of the business.

Business confined to election of Chairman whilst chair vacant

97. No business other than the election of a Chairman shall be discussed at any General Meeting whilst the chair is vacant.

Chairman of General Meeting

98. The Chairman of the Directors shall be entitled to take the Chair at every General Meeting. If there be no Chairman or if at any meeting he shall not be present within fifteen minutes after the time appointed for holding such meeting, or is unwilling to act, the directors present may choose one of their numbers to act as Chairman of the meeting and in default of their doing so, the Members present shall elect on show of hands one of the Directors to take the Chair and if no Director present be willing to take the Chair, the Members present shall elect on show of hands one of their number to be the Chairman of the Meeting.

Proceeding when quorum not present

99. If within half an hour after the time appointed for the holding of a General Meeting, a quorum is not present, the meeting if commenced on the requisition of shareholders shall be dissolved and, in any other case, shall stand adjourned to the same day in the next week, at the same time and place or to such other day and at such time and place as the Directors may determine. If at such adjourned meeting also a quorum is not present within half an hour from the time appointed for holding the meeting, the Members present shall be a quorum and may transact the business for which the meeting was called.

Adjourned Meeting

100. The Chairman with the consent of the meeting at which the quorum is present adjourn any meeting from time to time and from place to place, but no business shall be transacted at any adjourned meeting other than the business which might have been transacted at the meeting from which the adjournment took place. No notice of adjourned meeting shall be necessary to be given unless the meeting is adjourned for more than thirty days.

What is to be evidence of the passing of resolution where poll not demanded

101. At any General Meeting a resolution put to vote of the meeting shall be decided on a show of hands unless a poll is (before or on the declaration of the result of the show of hands) demanded in the manner hereinafter mentioned, and unless a poll is so demanded, a declaration by the Chairman that a resolution has, on a show of hands, been carried or carried unanimously or by a particular majority, or lost and an entry to that effect in the book of the proceedings of the Company shall be conclusive evidence thereof without proof of the number or proportion of the votes recorded in favour of or against the resolution.

Demand for poll

102. (1) Before or on the declaration of the result of the voting on any resolution on a show of hands, a poll may be ordered to be taken by the Chairman of the meeting of his own motion, and shall be ordered to be taken by him on a demand made in that behalf by any Member or Members present in person or by proxy and holding shares in the Company which confer a power to vote on the resolution not being less than one-tenth of the total voting power in respect of the resolution or on which an aggregate sum of not less than fifty thousand rupees has been paid-up.

(2) The demand for a poll, may be withdrawn at any time by the person who made the demand.

Time of taking poll

103. (1) If a poll is demanded on the election of a Chairman or on a question of adjournment, it shall be taken forthwith and without adjournment.

(2) A poll demanded on any other question shall be taken at such time not being later than forty-eight hours from the time when the demand was made, as the Chairman may direct.

Rights of a Member to use his votes differently

104. On a poll taken at a meeting of the Company, a Member entitled to more than one vote, or his proxy or other persons entitled to vote for him as the case may be, need not, if he votes, use all his votes or cast in the same way all the votes he uses.

Scrutinizers at poll

105. (1) Where a poll is to be taken, the Chairman of the meeting shall appoint two scrutinizers to scrutinise the votes given on the poll and to report thereon to him.

(2) The Chairman shall have power, at any time before the result of the poll is declared, to remove a scrutinizer from office and to fill vacancies in the office of the scrutinizer arising from such removal or from any other cause.

(3) Of the two scrutinizers appointed under this Article, one shall always be a Member (not being an Officer or employee of the Company) present at the meeting, provided that such a Member is available and willing to be appointed.

Manner of taking poll and result thereof

106. (1) Subject to the provision of The Act, the Chairman of the meeting shall have the power to regulate the manner in which a poll shall be taken.

(2) The result of the poll shall be deemed to be the decision of the meeting on the resolution on which the poll was taken.

Motion how decided in case of equality of votes

107. In the case of equality of votes, whether on show of hands or on a poll, the Chairman of the meeting at which the show of hands takes place or at which a poll is demanded, shall be entitled to a casting vote in addition to his own vote or votes to which he may be entitled as a Member.

Demand for poll not to prevent transaction of other business

108. The demand for a poll shall not prevent the continuance of a meeting for the transaction of any business other than the question on which the poll has been demanded.

Minutes of General Meetings

109. (1) The Company shall cause minutes of all proceedings of General Meetings to be entered in books kept for that purpose within thirty days of the conclusion of every such meeting concerned, entries thereof in books kept for that purpose with their pages consecutively numbered. The Minutes of each Meeting shall contain a fair and correct summary of the proceedings thereat. All the appointments of officers made at any of the meetings shall be included in the minutes of the meeting. Any such minutes, if purported to be signed by the Chairman of the meeting at which the proceedings took place or in the event of the death or inability of that Chairman by a Director duly authorised by the Board for the purpose, shall be evidence of the proceedings.

(2) The Minutes may be maintained in the books in the form of a binder containing loose leaves in the manner prescribed by the Central Government.

Inspection of Minute books

110. The books containing minutes of proceedings of General Meetings of the Company shall be kept at the Registered Office of the Company and shall be open to the inspection of any Member without charge between 11 a.m. and 1.00 p.m. on all working days.

Copies of Minutes

111. Any Member shall be entitled to be furnished within seven days after he had made a request in that behalf to the Company with a copy of any minutes referred to above at such charges as may be prescribed by The Act.

VOTES OF MEMBERS*Voting of Members*

112. Subject to any rights or restrictions for the time being attached to any class or classes of shares-

(1) upon a show of hands every Member of the Company entitled to vote and present in person or by attorney or proxy shall have one vote; and

(2) upon a poll, every Member of the Company who being an individual is present in person or by attorney or by proxy or being a corporation is present by a representative or proxy shall have a voting right in proportion to his share of the paid-up capital of the Company.

Voting by Corporations

113. (1) A corporation / institution / company / organisation / society, or any other body corporate, may if it is Member, by a resolution of the Board of Directors or other governing body in accordance with the provisions of Section 187 of The Act, authorise such person as it thinks fit to act as its representative.

(2) The production at the meeting of a copy of such resolution duly signed by one Director of such corporation or by a member of its governing body and certified by him as being a true copy of the resolution shall on production at the meeting, be accepted by the Company as sufficient evidence of the validity of his appointment.

(3) A person authorised by a resolution as aforesaid shall be entitled to exercise the same rights and powers (including the right to vote by a proxy) on behalf of the body corporate which he represents as that body could exercise if it were an individual Member.

114. No Member shall be entitled to vote either personally or by proxy for another Member at any General Meeting or meeting of a class of shareholders either upon a show of hands or upon poll in respect of any shares registered in his name on which any call or other sums presently payable by him have not been paid or in regard to which the Company has exercised any right of lien.

115. Any person entitled under the transmission clause to transfer any shares may vote at General Meetings in respect thereof as if he was the registered holder of such shares provided that at least forty-eight hours before the time of holding the meeting or adjourned meeting as the case may be at which he proposes to vote he shall satisfy the Directors of his right to transfer such shares unless the Directors shall have previously admitted his right to vote at such meeting in respect thereof.

Qualification of proxy

116. (1) Any Member of the Company entitled to attend and vote at a meeting of the Company shall be entitled to appoint another person (whether a Member or not) as his proxy to attend and vote instead of himself, but a proxy so appointed shall not have any right to speak at the meeting.

(2) In every notice calling a meeting of the Company, there shall appear with reasonable prominence a statement that a Member entitled to attend and vote is entitled to appoint a proxy to attend and vote instead of himself and that a proxy need not be a Member.

Votes may be given by proxy or attorney

117. Votes may be given either personally or by attorney or by proxy or in case of a corporation/institution/company/organisation/society also by a representative duly authorised as aforesaid.

Execution of instrument of proxy

118. The instrument appointing a proxy shall be in writing under the hand of the appointer or his attorney or if such appointer is a company or corporation under its common seal or under the hand of a person duly authorised by such company or corporation in that behalf or under the hand of its attorney who may be the appointer.

Deposit of instrument of appointment of proxy and inspection

119. No person shall act as proxy unless the instrument of his appointment and the Power of Attorney or other authority, if any, under which it is signed or a copy of that Power of Attorney or other authority, duly certified by a Notary Public, shall be deposited at the Office at least forty eight hours before the time of holding the meeting at which the person named in the instrument of proxy proposes to vote and in default the instrument appointing the proxy shall not be treated as valid. No

attorney shall be entitled to vote unless the Power of Attorney or other instrument appointing him as attorney or a copy thereof, duly certified by a Notary Public, has either been registered in the records of the Company at any time not less than forty eight hours before the time of the meeting at which the attorney proposes to vote or is deposited at the Office not less than forty eight hours before the time of same meeting as aforesaid. Notwithstanding that a Power of Attorney or other authority has been registered in the records of the Company, the Company may by notice in writing addressed to the Member or that attorney at least seven days before the date of a meeting require him to produce the original Power of Attorney or authority and unless the same is thereupon deposited with the Company not less than forty eight hours before the time fixed for the meeting, the attorney shall not be entitled to vote at such meeting unless the Directors in their absolute discretion excuse such non production and deposit. Every member entitled to vote at a meeting of the Company or any resolution to be moved thereat shall be entitled during the period beginning twenty four hours before the time fixed for the commencement of the meeting and ending with the conclusion of the meeting to inspect the proxies lodged at any time during the business hours of the Company provided that not less than three days notice in writing of the intention so to inspect is given to the Company.

Custody of the instrument

120. If any Instrument of appointment is confined to the object of appointing a proxy or substitute for voting at meetings of the Company, it shall remain permanently or for such time as the Director may determine, in the custody of the Company, and if embracing other objects a copy thereof, examined with the original, shall be delivered to the Company to remain in custody of the Company.

Instrument appointing proxy

121. Every instrument of proxy whether for a specified meeting or otherwise shall be in writing and if the appointer is a corporation under its common seal or the hand of an officer or an attorney duly authorised by it and shall as nearly as circumstances will admit be in the form specified in Schedule IX of The Act.

Validity of votes given by proxy notwithstanding death of Members, etc.

122. A vote given in accordance with the terms of an instrument of proxy shall be valid notwithstanding the previous death of the principal or revocation of the proxy or of any power of attorney under which such proxy was signed or the transfer of the shares in respect of which the vote is given provided that no intimation in writing of the death, revocation or transfer shall have been received at the office before the meeting

Time for objections to votes

123. No objection shall be made to the validity of any vote except at the meeting or poll at which such vote shall be tendered, and every vote, whether given personally or by proxy not disallowed at such meeting or poll, shall be deemed valid for all purposes.

Chairman of any meeting to be the judge of validity of any vote

124. The Chairman of any meeting shall be the sole judge to decide the validity of every vote tendered at such meeting. The Chairman present at the time of conducting of a poll shall be the sole judge of the validity of every vote tendered at such poll.

Equal rights of Members

125. Any Member whose name is entered in the Register of Members of the Company shall enjoy the same rights and be subject to the same liabilities as all other Members of the same class.

DIRECTORS

Number of Directors

126. The number of Directors shall not be less than three nor more than Sixteen and the number of Directors may be increased beyond Sixteen with the approval of the Central Government.

Composition of Board of Directors

126A. The Board shall include -

- (i) Public Interest directors;
- (ii) Shareholder directors; and
- (iii) Managing Director.

Notwithstanding anything to the contrary contained in these Articles, Securities Contract Regulation (Stock Exchange and Clearing Corporation) (Regulations), 2012, directives issued by SEBI, Circulars issued from time to time with regard to composition of the Board, general requirements related to manner of appointment of directors, key management personnel, 'code of conduct for Directors and key management personnel' and other incidental and consequential matters relating to governance of the Company shall be complied with.

The manner of election, appointment, tenure, resignation, vacation etc. of Directors shall be governed by the Companies Act, 2013, Securities Contract Regulation (Stock Exchange and Clearing Corporation) (Regulations), 2012, directives issued by SEBI, Circulars issued from time to time.

1.1 The number of public interest directors shall not be lesser than the number of shareholder directors in the Exchange.

1.2 The managing director shall be an ex-officio director on the Board of Director and shall not be included in either the category of public interest directors or shareholder directors. Any employee of the Exchange may be appointed on the Board of Directors in addition to the managing director, and such director shall be deemed to be a shareholder director. Atleast one public interest director shall be present in the meetings of the Board of Directors to constitute the quorum.

1.3 The persons to be appointed as Directors should satisfy the criteria of "fit and proper person" as prescribed by SEBI.

Public Interest Directors

126B. 1.1 The public interest directors on the Board of Directors of the Exchange shall be nominated by the SEBI. Public interest directors shall be nominated for a fixed term of three years, or for such extended period, as may be approved by SEBI. If any issue arises as to whether an assignment or position of a public interest director is in conflict with his role, the SEBI's decision shall be final. A public interest director may be renominated after a cooling-off period of one year or such period as the SEBI may deem fit in the interest of the securities market. Public interest directors shall be paid only sitting fees as specified in the Companies Act 2013.

1.2 The names of public interest directors shall be forwarded to SEBI after the approval of the Board of the Exchange. The shareholders approval shall not be necessary. A minimum of two names shall be submitted to SEBI for each vacancy of public interest directors.

1.3 The Exchange shall ensure that public interest directors are selected from diverse field of work. While deciding to propose a particular person as a public interest director, the Exchange shall also take into account the following factors:

- a) Qualification in the area of law, finance, accounting, economics, management, administration or any other area relevant to the financial markets.
- b) Atleast one person may be inducted having experience and background in finance / accounts who may preferably be inducted in the audit committee.
- c) Persons currently holding positions of trust and responsibility in reputed organisations or person who have retired from such positions.
- d) Persons who are likely to have interested positions in commercial contracts and financial affairs of stock exchanges, may be excluded. Also, persons who are regular traders/speculators in the market or are director in the board of the promoter entity of the Exchange shall be excluded.

1.4 Public interest directors shall not be simultaneously on the board of any other stock exchange or their subsidiary.

1.5 Public interest directors shall peruse the relevant laws, code of conduct, code of ethics, etc and submit an undertaking to the Exchange that they are aware of their role, responsibilities and obligations. The Exchange shall also provide at least seven days of training to every public interest director each year.

1.6 In case of extension of the term of the public interest director or appointment of a new public interest director, the Exchange shall apply to SEBI two months before the expiry of the term. In addition to the other requirements prescribed, the application for extension of term of the public interest director shall be accompanied with, his attendance details on meetings of various mandatory committees and on the Board of Directors of the stock exchange, reasons for waiver of the cooling off period.

1.7 The public interest director shall not be subject to retirement by rotation.

1.8 The existing public interest director shall continue holding the post, till a new public interest director is appointed in his place.

126C (1) No trading member or clearing member, or their associates and agents, shall be on the Board of Directors of the Exchange.

(2) No foreign portfolio investor shall have any representation in the Board of Directors of the Exchange.

Shareholder Directors

126D. 1.1. The names of persons to be appointed as shareholder directors shall first be approved by the Board of Directors of the Exchange, followed by Shareholders' approval before submitting the same to SEBI for approval.

1.2. The manner of election, appointment, tenure, resignation, vacation etc. of Shareholder Directors shall be governed by the Companies Act, 2013 save as otherwise specifically provided under the SECC Regulations or in accordance with the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956, circulars issued thereunder.

Code of Conduct for Directors and Key Management Personnel

126E 1.1. Every director of Exchange shall abide by the Code of Conduct.

The Code of Conduct is as under:

i. Meetings and minutes.

Every director of the Exchange shall—

- a) not participate in discussions on any subject matter in which any conflict of interest exists or arises, whether pecuniary or otherwise, and in such cases the same shall be disclosed and recorded in the minutes of the meeting;
- b) not encourage the circulation of agenda papers during the meeting, unless circumstances so require;
- c) offer their comments on the draft minutes and ensure that the same are incorporated in the final minutes;
- d) insist on the minutes of the previous meeting being placed for approval in subsequent meeting;
- e) endeavour to have the date of next meeting fixed at each board meeting in consultation with other members of the board;
- f) endeavour to ensure that in case all the items of the agenda of a meeting were not covered for want of time, the next meeting is held within fifteen days for considering the remaining items.

ii. Code of Conduct for the public interest directors.

- a) In addition to the conditions stated in Para (i) above, public interest directors of the Exchange shall, endeavour to attend all the board meetings and they shall be liable to vacate office if they remain absent for three consecutive meetings of the board or do not attend seventy five per cent. of the total meetings of the board in a calendar year.
- b) Public interest directors shall meet separately, at least once in six months to exchange views on critical issues.

iii. Strategic planning.

Every director of the Exchange shall—

- a) participate in the formulation and execution of strategies in the best interest of the Exchange and contribute towards proactive decision making at the board level;
- b) give benefit of their experience and expertise to the Exchange and provide assistance in strategic planning and execution of decisions.

iv. Regulatory compliances.

Every director of the Exchange shall—

- a) endeavour to ensure that the Exchange abides by all the provisions of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992, Securities Contracts (Regulation) Act, 1956, rules and regulations framed thereunder and the circulars, directions issued by SEBI from time to time;
- b) endeavour compliance at all levels so that the regulatory system does not suffer any breaches;
- c) endeavour to ensure that the Exchange takes steps commensurate to honour the time limit stipulated by SEBI for corrective action;
- d) not support any decision in the meeting of the board which may adversely affect the interest of investors and shall report forthwith any such decision to the SEBI.

v. General responsibility.

Every director of the Exchange shall—

- a) place priority for redressing investor grievances and encouraging fair trade practice so that the Exchange becomes an engine for the growth of the securities market;

- b) endeavour to analyse and administer the Exchange issues with professional competence, fairness, impartiality, efficiency and effectiveness;
- c) submit the necessary disclosures/statement of holdings/dealings in securities as required by the Exchange from time to time as per their Rules or Articles of Association;
- d) unless otherwise required by law, maintain confidentiality and shall not divulge/disclose any information obtained in the discharge of their duty and no such information shall be used for personal gains;
- e) maintain the highest standards of personal integrity, truthfulness, honesty and fortitude in discharge of their duties in order to inspire public confidence and shall not engage in acts discreditable to their responsibilities;
- f) perform their duties in an independent and objective manner and avoid activities that may impair, or may appear to impair, their independence or objectivity or official duties;
- g) perform their duties with a positive attitude and constructively support open communication, creativity, dedication, and compassion;
- h) not engage in any act involving moral turpitude, dishonesty, fraud, deceit, or misrepresentation or any other act prejudicial to the administration of the Exchange.

1.2. Every director and key management personnel of Exchange shall abide by the Code of Ethics as set out hereunder:

Code of Ethics

i. Objectives and underlying principles.

The Code of Ethics for directors and key management personnel of the Exchange seeks to establish a minimum level of business/ professional ethics to be followed by these directors and key management personnel, towards establishing a fair and transparent marketplace. The Code of Ethics is based on the following fundamental principles:

- Fairness and transparency in dealing with matters relating to the Exchange and the investors.
- Compliance with all laws/ rules/ regulations laid down by regulatory agencies/ the Exchange.
- Exercising due diligence in the performance of duties.
- Avoidance of conflict of interest between self interest of directors/ key management personnel and interests of the Exchange and investors.

ii. Ethics committee.

For overseeing implementation of this Code, an ethics committee shall be constituted by the Exchange under the respective Board of Directors.

iii. General standards.

- a) Directors and key management personnel shall endeavour to promote greater awareness and understanding of ethical responsibilities.
- b) Directors and key management personnel, in the conduct of their business shall observe high standards of commercial honour and just and equitable principles of trade.
- c) The conduct of directors and key management personnel in business life should be exemplary which will set a standard for other members of the Exchange.
- d) Directors and key management personnel shall not use their position to give/get favours to/from the executive or administrative staff of Exchange, technology or service providers and vendors of the Exchange.
- e) Directors and key management personnel shall not commit any act which will put the reputation of the Exchange, in jeopardy.
- f) Directors, committee members and key management personnel of the Exchange, should comply with all rules and regulations applicable to the securities market.

iv. Disclosure of dealings in securities by key management personnel of the Exchange.

- a) Key management personnel of the Exchange shall disclose on a periodic basis as determined by the Exchange (which could be monthly), all their dealings in securities, directly or indirectly, to the Board of Directors/ ethics committee/ Compliance Officer.

b) The dealings in securities shall also be subject to trading restrictions for securities about which key management personnel in the Exchange may have non-public price sensitive information. Requirement laid down under Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 1992 may be referred in this regard.

c) All transactions must be of an investment nature and not speculative in nature. Towards this end, all securities purchased must be held for a minimum period of sixty days before they are sold. However, in specific/exceptional circumstances, sale can be effected anytime by obtaining pre-clearance from the Compliance Officer to waive this condition after recording in writing his satisfaction in this regard.

Explanation.— "securities" for the purposes of this Code shall not include mutual fund units.

v. Disclosure of dealings in securities by directors of the stock exchange

a) All transactions in securities by the directors and their family shall be disclosed to the Board Directors of the Exchange.

b) All directors shall also disclose the trading conducted by firms/corporate entities in which they hold twenty per cent. or more beneficial interest or hold a controlling interest, to the Ethics Committee.

c) Directors who are Govt. of India nominees or nominees of Govt. of India statutory bodies or financial institutions and are governed by their own codes shall be exempt from this requirement.

vi. Avoidance of conflict of interest.

a) No director of the Board or member of any committee of the Exchange shall participate in any decision making/adjudication in respect of any person /matter in which he is in any way, directly or indirectly, concerned or interested.

b) Whether there is any conflict of interest or not in a matter, should be decided by the Board of Directors.

vii. Disclosures of beneficial interest.

All directors and key management personnel shall disclose to Board of Directors, upon assuming office and during their tenure in office, whenever the following arises:

a) any fiduciary relationship of self and family members and directorship/partnership of self and family members in any trading member or clearing member;

b) shareholding, in cases where the shareholding of the director, directly or through his family exceeds 5 per cent. in any listed company or in other entities related to the securities markets;

c) any other business interests.

viii. Role of the Chairperson and directors in the day to day functioning of the Exchange.

a) The Chairperson and directors shall not interfere in the day to day functioning of the Exchange and shall limit their role to decision making on policy issues and to issues as the Board of Directors may decide.

b) The Chairperson and directors shall abstain from influencing the employees of the Exchange in conducting their day to day activities.

c) The Chairperson and directors shall not be directly involved in the function of appointment and promotion of employees unless specifically so decided by the Board of Directors.

ix. Access to information.

a) Directors shall call for information only as part of specific committees or as may be authorised by the Board of Directors.

b) There shall be prescribed channels through which information shall move and further there shall be audit trail of the same. Any retrieval of confidential documents/ information shall be properly recorded.

c) All such information, especially which is non-public and price sensitive, shall be kept confidential and not be used for any personal consideration/ gain.

d) Any information relating to the business/operations of the Exchange, which may come to the knowledge of directors/ key management personnel during performance of their duties shall be held in strict confidence, shall not be divulged to any third party and shall not be used in any manner except for the performance of their duties.

x. Misuse of position.

Directors/ committee members shall not use their position to obtain business or any pecuniary benefit in the organization for themselves or family members.

xi. Ethics committee to lay down procedures.

a) The ethics committee shall lay down procedures for the implementation of the code and prescribe reporting formats for the disclosures required under the code.

b) The Compliance Officer shall execute the requirements laid down by the ethics committee.

While the objective of this Code is to enhance the level of market integrity and investor confidence, it is emphasized that a written code of ethics may not completely guarantee adherence to high ethical standards. This can be accomplished only if directors and key management personnel of the Exchange commit themselves to the task of enhancing the fairness and integrity of the system in letter and spirit.

First Directors

127. (1) The persons hereinafter named are the first Directors of the Company:-

- (i) Mr. Puranam Hayagreeva Ravikumar
- (ii) Mr. Ravi Dharam Narain
- (iii) Mr. Yogesh Chand Nanda

(2) The first Directors shall hold office until the close of the first Annual General Meeting of the Company provided that if vacancy arises in the office of any of the aforesaid first Directors before the close of the first Annual General Meeting of the Company then such vacancy may be filled by the Directors at their meeting.

Managing Director

128. 1.1 The appointment, renewal of appointment and termination of service of the managing director of the Exchange shall be subject to prior approval of the SEBI.

1.2 The Exchange shall, subject to the guidelines issued by the SEBI from time to time, determine the qualification, manner of appointment, terms and conditions of appointment and other procedural formalities associated with the selection/ appointment of the managing director.

1.3 The appointment of the managing director shall be for a tenure not less than three years and not exceeding five years.

1.4 The managing director the Exchange shall not—

- (a) be a shareholder or an associate of a shareholder of the Exchange or shareholder of an associate of the Exchange;
- (b) be a trading member or a clearing member, or his associate and agent, or shareholder of a trading member or clearing member or shareholder of an associate and agent of a trading member or a clearing member; or
- (c) hold any position concurrently in the subsidiary of Exchange or in any other entity associated with the Exchange:

Provided that the managing director of the Exchange may be appointed on the Board of Directors, but not as managing director, of the subsidiary of the Exchange.

1.5 The managing director shall be liable for removal or termination of services by the Board of Directors with the prior approval of the SEBI for failure to give effect to the directions, guidelines and other orders issued by the SEBI, or the rules, the articles of association, bye-laws and regulations of the Exchange.

1.6 The SEBI may suo motu remove or terminate the appointment of the managing director if deemed fit in the interest of securities market:

Provided that no managing director shall be removed unless he has been given a reasonable opportunity of being heard.

1.7 The Exchange shall constitute a Committee for the selection of the CEO /Managing Director /Executive Director, as the case may be. The managing director shall be selected through open advertisement in all editions of at least one national daily from amongst persons qualified in the fields of capital market/ finance/ management and possessing sufficient experience. In case of re-appointment, or extension the Exchange shall apply to SEBI two months before the last working day of such Managing Director.

1.8 In case a vacancy of managing director arises due to unforeseen reasons, the Exchange shall forward the new names to SEBI within 60 days from the date of submission of resignation or such vacation of office.

1.9 At the time of seeking approval of SEBI for the appointment of the managing director, the Exchange shall seek approval for the compensation of the managing director from SEBI. The compensation of the Managing Director of a Exchange shall be in accordance with the following compensation norms stiputed by SEBI:

- a) The variable pay component will not exceed one-third of total pay.
- b) 50% of the variable pay will be paid on a deferred basis after three years.
- c) ESOPs and other equity linked instruments in the Exchange will not form part of the compensation for the key management personnel.
- d) The compensation policy will have malus and clawback arrangements.

Apart from the above, the following shall also be taken into consideration:

- financial condition / health of the Exchange,
- average levels of compensation payable to employees in similar ranks,
- should not contain any provisions regarding incentives to take excessive risks over the short term,
- revenues, net profit of the Exchange,
- comparable to the industry standards,
- role and responsibilities of the managing director,
- periodic review

1.10 The aforesaid provisions shall also be applicable if the Exchange appoints a Chief Executive Officer who is not a Managing Director.

Alternate Director

129. (1) Subject to Section 313 of The Act, the Board of Directors may appoint an Alternate Director to act for a Director (hereinafter in this Article called "the original Director") at his suggestion or otherwise, during his absence for a period of not less than three months from the State in which meetings of the Board are ordinarily held.

(2) An Alternate Director appointed under sub-article (1) shall not hold office as such for a period longer than permissible to the original Director in whose place he has been appointed and shall vacate office if and when the original Director returns to the State in which meetings of the Board are ordinarily held.

(3) If the term of office of the original Director is determined before he so returns to the State aforesaid, any provision for the automatic reappointment of the retiring Directors in default of another appointment shall apply to the original and not to the Alternate Director.

Additional Directors and Director appointed to fill casual vacancy

130. The Directors shall have power at any time to appoint any person as a Director either to fill a casual vacancy or as an additional Director, but the total number of Directors shall not exceed the maximum number fixed by Articles. Any Director appointed as additional director shall hold the office only upto the next Annual General Meeting of the Company and shall then be entitled for appointment as Director. Any Director appointed to fill a casual vacancy shall hold office only up to the date up to which the Director in whose place he is appointed would have held office had it not been vacated.

Share Qualification of Director

131. No Director shall be required to hold any qualification shares of the Company.

Remuneration of Director

132. (1) The remuneration payable to Directors, including the Managing Director/ Whole time Director shall, subject to the applicable provisions of The Act and of these Articles and of any contract between him and the Company, be fixed by the Company in General Meeting from time to time, and may be by way of fixed salary and/or perquisites or commission on profits of the Company or participation in such profits, or by any or all these modes not expressly prohibited by The Act.

(2) The fees payable to a Director for attending a meeting of the Board or Committee thereof shall be as decided by the Board of Directors from time to time and subject to such ceiling as may be prescribed by The Act or the Central Government.

Directors not being residents of place where a meeting is held may receive extra compensation

133. The Directors may allow and pay to any Director, who is not a resident of the place where a meeting is held and who shall come to such place for the purpose of attending a meeting, such sum as the Directors may consider fair compensation for travelling, hotel and other expenses in addition to his remuneration to be paid to any member or members of their body, or a committee appointed by the Directors in terms of these Articles.

Special remuneration to Director for extra service, etc.

134. If any Director being willing, be called upon to perform extra service or special exertions in going out or residing at particular place or otherwise for any of the purposes of the Company, the Company may remunerate such Director either by a fixed sum or otherwise as may be determined by the Directors and such remuneration may be either in addition to or in substitution for his remuneration above provided.

Directors may act notwithstanding any vacancy

135. Subject to the provisions of The Act, the continuing Directors may act notwithstanding any vacancy in their body; but if the number falls below the minimum number fixed, the Directors shall not, except in emergencies or for the purpose of filling up vacancies or for summoning a General Meeting of the Company, act so long as the number is below the minimum and they may so act notwithstanding the absence of a necessary quorum under the provisions of Article 154.

Directors vacating office

136. (1) Subject to the provisions contained in sub-article (2) hereinbelow, the office of a Director shall become vacant if-

- (a) he is found to be of unsound mind by a Court of competent jurisdiction; or
- (b) he applies to be adjudicated an insolvent; or
- (c) he is adjudged an insolvent; or
- (d) he is convicted by a court of any offence involving moral turpitude and sentenced in respect thereof to imprisonment for not less than six months; or
- (e) he fails to pay any calls in respect of shares held by him alone or jointly with others within six months from the last date fixed for the payment of such calls made unless the Central Government has, by notification in the Official Gazette, removed the disqualification incurred by such failure; or
- (f) he absents himself from three consecutive meetings of the Directors or from all meetings of the Directors for continuous period of three months, whichever is longer, without leave of absence from the Board of Directors; or
- (g) he (whether by himself or by any person for his benefit or on his account), or any firm in which he is a partner or any private company of which he is a Director accepts a loan or guarantee or security for a loan from the Company in contravention of Section 295 of The Act; or
- (h) he acts in contravention of Section 299 of The Act; or
- (i) he becomes disqualified by an order of the Court under Section 203 of The Act; or
- (j) he is removed in pursuance of Section 284 of The Act by an ordinary resolution of the Company before the expiry of his period of office; or
- (k) he resigns from office by notice in writing addressed to the Company or to the Directors; or
- (l) he, his relative or partner or any firm in which he or his relative is a partner or any private company of which he is a Director or Member, holds any office of profit under the Company or any subsidiary hereof in contravention of Section 314 of The Act; or
- (m) having been appointed a Director by virtue of his holding any office or other employment in the Company, he ceases to hold such office or other employment in the Company.

(2) Notwithstanding anything contained in clauses (c), (d) and (i) of sub-article (1), the disqualification referred to in those clauses shall not take effect (a) for thirty days from the date of adjudication or sentence or order (b) where any appeal or petition is preferred within the thirty days aforesaid against the adjudication, sentence or conviction resulting in the sentence or order, until the expiry of seven days from the date on which such appeal or petition is disposed of or (c) where within the seven days aforesaid, any further appeal or petition is preferred in respect of the adjudication, sentence, conviction or order and the appeal or petition, if allowed, would result in the removal of the disqualification, until such further appeal or petition is disposed of.

Disclosure of interest by Director

137. (1) Every Director of the Company who is in any way, whether directly or indirectly, concerned or interested in a contract or arrangement, or proposed contract or arrangement entered into or to be entered into, by or on behalf of the Company, shall disclose the nature of his concern or interest at a meeting of the Board of Directors.

(2) (a) In the case of proposed contract or arrangement, the disclosure required to be made by a Director under sub-article (1) shall be made at the meeting of the Board at which the question of entering into the contract or arrangement is first taken into consideration, or if the Director was not at the date of that meeting, concerned or interested in the proposed contract or arrangement, at the first meeting of the Board held after he becomes so concerned or interested.

(b) In the case of any other contract or arrangement, the required disclosure shall be made at the first meeting of the Board held after the Director becomes concerned or interested in the contract or arrangement.

(3) (a) For the purpose of sub-articles (1) and (2), a general notice given to the Board by a Director, to the effect that he is a Director or a member of a specified body corporate or company or is a partner of a specified firm and is to be regarded as concerned or interested in any contract or arrangement which may, after the date of the notice, be entered into with that body corporate or company or firm, shall be deemed to be a sufficient disclosure of concern or interest in relation to any contract or arrangement so made;

(b) Any such general notice shall expire at the end of the financial year in which it is given, but may be renewed for further period of one financial year at a time, by a fresh notice given in the last month of the financial year in which it would otherwise expire;

(c) No such general notice and no renewals thereof shall be of effect unless either it is given at a meeting of the Board or the Director concerned takes reasonable steps to secure that it is brought up and read at the first meeting of the Board after it is given.

(4) Nothing in this Article shall be taken to prejudice the operation of any rule of law restricting a Director of the Company from having any concern or interest in any contracts or arrangements with the Company.

(5) Nothing in this Article shall apply to any contract or arrangement entered into or to be entered into between the Company and any other company where any of the Directors of the Company or two or more of them together holds or hold not more than two percent of the paid-up share capital in the other company.

Interested Director not to participate or vote in Board's proceedings

138. (1) No Director of the Company shall, as a Director, take any part in the discussion of, or vote on, any contract or arrangement entered into, or to be entered into, by or on behalf of the Company, if he is, in anyway, whether directly or indirectly concerned, or interested in the contract or arrangement; nor shall his presence count for the purpose of forming a quorum at the time of any such discussion or vote; and if he does vote, his vote shall be void.

(2) This Article shall not apply to :-

(a) any contract of indemnity against any loss which the Directors or any one or more of them, may suffer by reason of becoming or being sureties or surety for the Company;

(b) any contract or arrangement entered into or to be entered into with a public company, or a private company, which is a subsidiary of a public company, in which the interest of the Director aforesaid consists solely in his being a Director, of such company and the holder of not more than shares of such number or value therein as is requisite to qualify him for appointment as a Director thereof, he having been nominated as such Director by the company, or in his being a member holding not more than two per cent of the paid-up share capital of such other company.

Directors may be Directors of companies promoted by the Company

139. A Director may be, or become, a Director of any company promoted by the Company, or in which it may be interested as a vendor, member or otherwise, and subject to the provisions of The Act and these Articles, no such Director shall be accountable for any benefits received as Director or any member of such company.

ROTATION OF DIRECTORS

Non-rotational Directors

140. Directors other than SEBI nominated Public Interest Directors shall be persons whose period of office is liable to determination by rotation and, subject to the provisions of the Act, shall be appointed by the Company in a General Meeting.

Directors to retire annually, how determined

141. At every Annual General Meeting of the Company other than the first Annual General Meeting, one-third of such of the Directors for the time being as are liable to retire by rotation or, if their number is not three or a multiple of three, then the number nearest to one-third shall retire from office.

Which Directors to retire

142. The Directors to retire by rotation at every Annual General Meeting shall be those who are liable to retire and who have been longest in office since their last appointment, but as between persons, who became Directors on the same day, those who are to retire shall (unless they otherwise agree among themselves), be determined by lot.

Retiring Directors eligible for re-election

143. A retiring Director shall be eligible for re-election.

Company to fill up vacancy

144. The Company may, at the Annual General Meeting at which a Director retires as aforesaid, fill up the vacancy by appointing the retiring Director or some other person in that vacancy.

Retiring Directors to remain in office until successors appointed

145. If the place of the retiring Director is not filled up as provided in the preceding Article and the meeting has not expressly resolved not to fill the vacancy, the meeting shall stand adjourned till the same day in the next week, at the same time and place, or if that day is a public holiday, till the next succeeding day which is not a public holiday, at the same time and place and if at the adjourned meeting also, the place of the retiring Director is not filled up and that meeting also has not expressly resolved not to fill the vacancy, the retiring Director shall be deemed to have been re-appointed at the adjourned meeting, unless -

(1) at that meeting or at the previous meeting, a resolution for the re-appointment of such Director has been put to the meeting and lost;

(2) the retiring Director has, by a notice in writing addressed to the Company or its Board of Directors, expressed his unwillingness to be so reappointed;

(3) he is not qualified or is disqualified for appointment;

(4) a resolution, whether special or ordinary, is required for his appointment by virtue of any provisions of The Act; or

(5) the proviso to sub-article (2) of Article 146 is applicable to the case.

Appointment of Directors to be voted individually

146. (1) At every Annual General Meeting of the Company, a motion shall not be made for the appointment of two or more persons as Directors of the Company by a single resolution, unless a resolution that it shall be so made has first been agreed to by the meeting without any vote being given against it.

(2) A resolution moved in contravention of sub-article (1) of this Article shall be void whether or not objection was taken at the time to this being so moved; provided that where a resolution so moved is passed, no provision for the automatic re-appointment of retiring Directors in default of another appointment shall apply.

(3) For the purpose of this Article, a motion for approving a person's appointment or for nominating a person for appointment shall be treated as motion for his appointment.

Rights of persons other than retiring Directors to stand for Directorship

147. (1) No person, not being a retiring Director, shall be eligible for election to the Office of Director at any General Meeting, unless he or some other Member intending to propose him has, at least fourteen clear days before the meeting, left at the office a notice in writing under his hand signifying his candidature for the Office of Director or the intention of such Member, to propose him, as a candidate for that Office, as the case may be along with a deposit of five hundred rupees which shall be refunded to such person, or as the case may be, to such Member, if the person succeeds in getting elected as a Director.

(2) The Company shall inform its Members of the candidature of a person for the Office of Director or the intention of a Member to propose such person as a candidate for that office by serving individual notices on the Members not less than seven days before the meeting; provided that it shall not be necessary for the Company to serve individual notices upon the Members as aforesaid if the Company advertises such candidature or intention not less than seven days before the meeting in at least two newspapers circulating in the place where the Registered Office of the Company is located, of which one is published in the English language and the other in the regional language of that place.

Removal of Directors

148. (1) The Company may, subject to the provisions of The Act and these Articles, by an ordinary resolution remove a Director before the expiry of his period of office.

(2) A special notice shall be required of any resolution to remove a Director under this Article or to appoint somebody instead of a Director so removed at the meeting at which he is removed.

(3) On receipt of notice of a resolution to remove a Director under this Article, the Company shall forthwith send a copy thereof to the Director concerned, and the Director (whether or not he is a Member of the Company) shall be entitled to be heard on the resolution at the meeting.

(4) Where notice is given of a resolution to remove a Director under this Article and the Director concerned makes with respect thereto representations in writing to the Company (not exceeding a reasonable length) and requests for notification to Members of the Company, the Company shall, unless the representations are received by it too late for it to do so -

(a) in the notice of the resolution given to Members of the Company, state the fact of the representations having been made; and

(b) send a copy of the representations to every Member of the Company to whom notice of the meeting is sent (whether before or after receipt of the representations by the Company) and if a copy of the representations is not sent as aforesaid because they were received too late or because of the Company's default, the Director may (without prejudice to his right to be heard orally) require that the representations shall be read out at the meeting; provided that copies of the representations need not be read out at the meeting, if on the application either of the Company or of any other person who claims to be aggrieved, the Central Government is satisfied that the rights conferred by this sub-article are being abused to secure needless publicity for defamatory matter.

(5) A vacancy created by the removal of a Director under this Article may, if he had been appointed by the Company in the General Meeting or by the Board pursuant to Article 130, be filled by the appointment of another Director in his stead, by the meeting at which he is removed, provided special notice of the intended appointment has been given under sub-article (2) of this Article. A Director so appointed shall hold office until the date up to which his predecessor would have held office, had he not been removed as aforesaid.

(6) If the vacancy is not filled under sub-article (5) of this Article, it may be filled as a casual vacancy in accordance with the provisions so far as they may be applicable of Article 130 and all the provisions shall apply accordingly; provided that the Director who was removed from office shall not be re-appointed as a Director by the Board of Directors.

PROCEEDINGS OF DIRECTORS' MEETING

Meeting of Directors

149. The Directors may meet together for the conduct of business, adjourn and otherwise regulate their meetings and proceedings as they think fit; provided, however, that a meeting of the Board of Directors shall be held at least once in every three months, and at least four such meetings shall be held in every year.

When meeting to be convened

150. The Chairman may at any time and the Manager or such other Officer of the Company as may be authorised by the Directors shall upon the request of a Director convene a meeting of the Directors.

Notice of Meetings

151. Notice of every meeting of the Board of Directors of the Company shall be given in writing to every Director for the time being in India, and at his usual address in India to every other Director.

Chairman of the Board of Directors

152. The Chairperson of the Board of Directors of the Exchange shall be Public Interest Director and shall be appointed with the prior approval of SEBI.

All meetings of the Directors shall be presided over by such Chairman, if present, but if, at any meeting of Directors, the Chairman be not present at the time appointed for holding the same, then and in that case the Directors shall choose one of the Directors then present to preside at the meeting.

Question at a Board meeting, how decided

153. Questions arising at any meeting shall be decided by a majority of votes, and in case of an equality of votes, the Chairman of the meeting (whether the Chairman appointed by virtue of these Articles or the Director presiding at such meeting) shall have a second or casting vote.

Quorum and its competence to exercise powers

154. The quorum for meeting of the Board of Directors of the Company shall be one-third of its total strength (any fraction contained in that one-third being rounded off as one) or two Directors whichever is higher; provided that where at any meeting, the number of interested Directors exceeds or is equal to two-thirds of the total strength, the number of the remaining Directors, that is to say, the number of the Directors who are not interested, present at the meeting being not less than two, shall be the quorum during such time.

For the purpose of this Article:-

(1) "total strength" means the total strength of the Directors of the Company as determined in pursuance of The Act, after deducting there from the number of the Directors, if any, whose place may be vacant at the time ;

(2) "interested Director" means any Director whose presence cannot by reason of Article 138 or any other provision in The Act count for the purpose of forming a quorum at a meeting of the Board, at the time of the discussion or vote on any matter.

Procedure where meeting adjourned for want of quorum

155. (1) If a meeting of the Board could not be held for want of quorum, then, unless the Directors present at each meeting otherwise decide, the meeting shall automatically stand adjourned till the same day in the next week, at the same time and place, or if that day is a public holiday, till the next succeeding day which is not a public holiday at the same time and place.

(2) The provisions of Article 149 shall not be deemed to have been contravened merely by reason of the fact that a meeting of the board which had been called in compliance with the terms of that Article could not be held for want of quorum.

Directors may appoint Committee

156. The Directors may, subject to the provisions of The Act, delegate any of their powers to a Committee or Committees consisting of such member or members of their body as they deem fit, and they may, from time to time, revoke such delegation. Any Committee so formed shall in the exercise of the powers so delegated, conform to any regulations that may, from time to time, be imposed on it by the Directors.

Board Committees

156A. The Company shall constitute Committees as to ensure effective oversight of the functioning of the Exchange as mandated under the Companies Act, 2013, SEBI SECC Regulation and Circulars issued from time to time. Additionally, the Committees that are mandated for listed companies shall apply mutatis mutandis to Exchange. The Exchange shall lay down the policy for the frequency of meetings, quorum, etc., for the statutory committees. The meeting shall be conducted with at least one public interest director being present except in the case of oversight committees wherein minimum 50% of the public interest directors need to be present. In the case of public interest directors committee, all public interest directors shall be present.

Independent external persons appointed to committees: The independent external persons shall be from amongst the persons of integrity, having a sound reputation and not having any conflicts of interests. They shall be specialists in the field of work assigned to the committee. The Exchange shall frame the guidelines for appointment, tenure, code of conduct, etc., of independent external persons. Extension of the tenure may be granted at the expiry of the tenure pursuant to a review of the contribution, record of attendance at meetings, etc.

The Exchange shall constitute the following Committees and such other Committees as may be statutorily required:-

Operational Committees

1. Name of Committee: Membership Selection Committee

Functions Handled: Selection/ admission of members to the various segments of the exchange.

Composition: (i) The public interest directors shall form a majority of the membership selection committee.

(ii) A maximum of two key management personnel of the exchange can be on the committee one of which shall necessarily be the Managing Director of the stock exchange.

(iii) The committee may also include independent external persons.

2. Name of Committee: Disciplinary Action Committee

Functions Handled: (i) The Committee shall formulate the policy for regulatory actions including warning, monetary fine, suspension, withdrawal of trading, expulsion, to be taken for various violations by the members of the exchange.

(ii) Based on the laid down policy, the Committee shall consider the cases of violations observed during inspection, etc and impose appropriate regulatory measure on the members of the exchange.

(iii) While imposing the regulatory measure, the Committee shall adopt a laid down process, based on the 'Principles of natural justice'.

Composition: (i) The disciplinary action committee shall comprise of public interest directors and exchange officials.

(ii) The public interest directors shall form a majority of the committee.

(iii) A maximum of two key management personnel of the exchange can be on the committee one of which shall necessarily be the Managing Director of the Exchange.

3. Name of Committee: Investor Grievance Redressal Committee (IGRC)

Functions Handled: To deal with the complaints referred to it by the stock exchange, hear the parties and resolve their complaints.

Composition: a. The IGRC shall comprise of a single person for claims upto Rs. 25 Lakh, whereas, for claims above Rs. 25 Lakh, the IGRC shall comprise of three persons.

b. The IGRC shall comprise of independent persons with qualifications in the area of law, finance, accounts, economics, management or administration and experience in financial services, including securities market.

c. Further, the three member Committee shall comprise of atleast one technical expert for handling complaints related to technology issues (such as internet based trading, algorithmic trading, etc).

d. The members of IGRC shall not be associated with a trading member in any manner.

e. The disclosures and code of conduct prescribed under para 3.4 and 4 of SEBI circular Ref. No CIR/MRD/DSA/24/2010 dated August 11, 2010, shall be applicable, as far as may be, to members of IGRC also.

4. Name of Committee: Defaulters' Committee

Functions Handled: (i) To realize all the assets / deposits of the defaulter/ expelled member and appropriate the same amongst various dues and claims against the defaulter/ expelled member in accordance with the Rules, Byelaws and Regulations of the Exchange.

(ii) In the event both the clearing member and his constituent trading member are declared defaulter, then the defaulter's committee of the stock exchange and the defaulter's committee of the clearing corporation shall work together to realise the assets of both the clearing member and the trading member.

(iii) Admission or rejection of claims of client/trading members/clearing members over the assets of the defaulter/expelled member.

(iv) Recommendation in respect of the claims to the Trustees of the IPF on whether the claim is to be paid out of IPF or otherwise.

Composition: (i) The public interest directors shall form a majority of the defaulter's committee.

(ii) A maximum of two key management personnel of the exchange can be on the committee.

(iii) The committee may also include independent external persons such as retired judge, etc.

5. Name of Committee: Compensation Committee

Functions Handled: (i) The compensation committee shall lay down the policy for compensation of key management personnel in terms of the compensation norms prescribed by SEBI.

(ii) The compensation committee shall determine the tenure of the key management personnel to be posted to a regulatory department.

(iii) The tenure of a key management personnel, other than a director, shall be for a fixed period, as may be decided by the compensation committee.

Composition: (i) The Committee shall comprise of a majority of public interest directors and shall be chaired by a public interest director.

(ii) Shareholder directors or any person appointed by the Board of Directors of the Exchange for such purpose may form the balance of the Committee.

6. Name of Committee: Selection Committee

Functions Handled: Committee for the selection of the Managing Director

Composition: The Selection Committee shall comprise of four persons i.e, two public interest directors and two independent external persons. In case of non-availability of adequate number of public interest directors or independent external persons, then the number of public interest directors or independent external persons as required could be increased accordingly to form the committee. Further, the Stock Exchanges shall ensure that one public interest directors shall be part of the selection committee and the meetings at all times.

Oversight Committees

7. Name of Committee: Standing Committee on Technology

Functions Handled: (i) To monitor whether the technology used by the exchange remains upto date and meets the growing demands of the markets.

(ii) To monitor the adequacy of systems capacity and efficiency.

(iii) To look into the changes being suggested by the exchange to the existing software/hardware.

(iv) To investigate into problems of computerised trading system, such as hanging/ slowdown/breakdown.

(v) To ensure that transparency is maintained in disseminating information regarding slowdown/ breakdown in Online Trading System.

(vi) The Committee shall submit a report to the Board of Directors of the stock exchange. The Board will deliberate on the report and suitable action/remedial measure will be taken.

(vii) Any stoppage beyond five minutes will be explained and reported to the SEBI. The Exchange shall issue a press release specifying the reasons for the breakdown.

Composition: The Committee shall comprise of two outside experts proficient in technology and atleast one public interest director.

8. Name of Committee: Sub-Committee for Monitoring Compliance of suggestions given in SEBI inspection report

Functions Handled: (i) To review the actions taken to implement the suggestions of SEBI's Inspection Reports.

(ii) To place the same before the Board of Directors of the Exchange.

(iii) To follow up and ensure compliance/implementation of the inspection observations.

Composition: (i) The Committee shall comprise of a majority of public interest directors.

(ii) One shareholder director and

(ii) One key management personnel.

9. Name of Committee: Investor Services committee

Functions Handled: Supervising the functioning of Investors' Services Cell of the Exchange which includes review of complaint resolution process, review of complaints remaining unresolved over long period of time, estimate the adequacy of resources dedicated to investor services, etc.

Composition: (i) The investors services committee shall comprise of a majority of public interest directors.

(ii) The committee may also include independent external persons such as retired judge, etc.

10. Name of Committee: Public Interest Directors' Committee

Functions Handled: During their meetings, the Public Interest Directors shall review the following:

(i) Status of compliance with SEBI letters/ circulars.

(ii) Review the functioning of regulatory departments including the adequacy of resources dedicated to regulatory functions.

(iii) The public interest directors shall prepare a report on the working of the other committees where they are also the members. The report shall be circulated to the other public interest directors.

(iv) A consolidated report shall then be submitted to the Board of Directors the stock exchange.

(v) The public interest directors shall identify important issues which may involve conflict of interest for the stock exchange or may have significant impact on the market and report the same to SEBI.

Composition: All the public interest directors shall necessarily attend every meeting of the committee.

11. Name of Committee: Arbitration Committee

Functions Handled: (i) To select persons to be included in the Panel of Arbitrators (arbitration panel) to be formed by the Exchange in accordance with its Byelaws, Regulations and Circulars of SEBI Ref. No. CIR/MRD/DSA/24/2010 dated August 11, 2010.

(ii) To decide the formats, procedures and other requirements in respect of Exchange arbitration proceedings.

(iii) To estimate the adequacy of resources dedicated to arbitration.

Composition: (i) The Committee shall comprise of majority of public interest directors.

(ii) Shareholder directors may form the balance of the committee.

12. Name of Committee: Ethics Committee

Functions Handled: To oversee the implementation of the code of ethics. The ethics committee shall lay down procedures for the implementation of the code and prescribe reporting formats for the disclosures required under the code. The Compliance Officer shall execute the requirements laid down by the ethics committee.

Composition: The ethics committee shall comprise of public interest directors, shareholder directors, key management personnel and compliance officer.

13. Name of Committee: Independent oversight committee for Member regulation.

Functions Handled: (i) The committee shall oversee matters related to member regulation such as admission of members, inspection, disciplinary action, etc.

(ii) The head(s) of department(s) handling the above matters shall report directly to the committee and also to the managing director.

(iii) Any action of a recognised stock exchange against the aforesaid head(s) shall be subject to an appeal to the committee, within such period as may be determined by the Board of Directors.

(iv) The committee shall oversee SEBI inspection observations on membership related issues.

(v) To estimate the adequacy of resources dedicated to member regulation.

Composition: (i) The Committee shall be comprised of a majority of public interest directors and shall be chaired by a public interest director.

(ii) The balance shall be formed of independent outside experts.

14. Name of Committee: Independent oversight committee for trading and surveillance function.

Functions Handled: (i) The committee shall oversee trading and surveillance related functions such as monitoring of market through order and trade level alerts, security level alerts, processing of alerts, price band changes, rumour verifications, shifting of securities to trade for trade segment, detailed investigations undertaken, disciplinary actions, etc.

(ii) The head(s) of department(s) handling the above matters shall report directly to the committee and also to the managing director.

(iii) Any action of a Exchange against the aforesaid head(s) shall be subject to an appeal to the committee, within such period as may be determined by the Board of Directors

(iv) The committee shall oversee SEBI inspection observations on surveillance related issues and also decisions taken in the weekly surveillance meeting at SEBI.

(v) To estimate the adequacy of resources dedicated to trading and surveillance function.

Composition: (i) The Committee shall be comprised of a majority of public interest directors and shall be chaired by a public interest director.

(ii) The balance shall be formed of independent outside experts.

15. Name of Committee: Independent oversight committee for Product Design.

Composition: (i) The Committee shall be comprised of a majority of public interest directors and shall be chaired by a public interest director.

(ii) The balance shall be formed of independent outside experts.

16. Name of Committee: Advisory Committee

Functions Handled: To advise the Board of Directors on non-regulatory and operational matters including product design, technology, charges and levies.

Composition: The Committee shall comprise of trading members of the stock exchange. The chairperson of the Board of Directors shall be the head of the advisory committee and the managing director shall be a permanent invitee to every meeting of the advisory committee. The advisory committee shall meet at least four times a year with a maximum gap of three months between two meetings. The recommendations of the advisory committee shall be placed in the ensuing meeting of the Board of Directors of the Exchange for consideration and appropriate decision of the Board of Directors, and such recommendations along with the decision of the Board of Directors on the same, shall be disclosed on the website. Trading members shall not be part of any other committee of the Exchange

Prior to appointment to the advisory committee, the Board of Directors of the Exchange shall satisfy itself that the trading members are fit and proper persons in terms of regulation 20 of the SECC Regulations. The Board of Directors shall frame the eligibility norms, term of office, cooling off period etc., of members of the advisory committee in consultation with the trading members of the Exchange.

17. Name of Committee: Risk Management Committee

Functions Handled: (i) Formulate a detailed risk management policy which shall be approved by the Board of Directors.

(2) The head of the risk management department shall be responsible for implementation of the risk management policy and he shall report to the risk management committee and to the managing director of the Exchange.

(3) The risk management committee shall monitor implementation of the risk management policy and keep SEBI and the Board of Directors informed about its implementation and deviation, if any.

Composition: Public interest directors and independent external experts. The Committee shall report to the Board of Directors

Meetings of Committee how to be governed

157. The meetings and proceedings, of any Committee appointed pursuant to the preceding Article shall be governed by the provisions of these Articles for regulating the meetings and proceedings of the Directors, so far as the same are applicable thereto and are not superseded by any regulations made by the Directors under the last preceding Article.

Acts of Board or Committees valid notwithstanding defect of appointment

158. All acts done at any meeting of the Board or a Committee thereof or by any person acting as a Director, shall be valid notwithstanding that it may be afterwards discovered that the appointment of any one or more of such Directors or of any person acting as aforesaid, was invalid by reason of defect or disqualification or had terminated by virtue of any provision contained in The Act or these Articles; provided that nothing in this Article shall be deemed to give validity to acts done by a Director after his appointment has been shown to the Company to be invalid or to have terminated.

Circular Resolution

159. No resolution shall be deemed to have been duly passed by the Board or by a Committee thereof by circulation, unless the resolution has been circulated in draft, together with the necessary papers, if any, to all the Directors, or to all the members of the Committee then in India (not being less in number than the quorum fixed for a meeting of a Board or Committee, as the case may be) and to all other Directors or members, at their usual address in India and has been approved by such of the Directors as are then in India or by majority of such of them, as are entitled to vote on the resolution.

Minutes of proceedings of Directors and Committees.

160. The Company shall cause minutes of meetings of the Board of Directors and all Committees of the Board to be duly entered in a book or books provided for that purpose. The minutes shall contain

- (1) a fair and correct summary of the proceedings at the meeting;
- (2) the names of the Directors present at the meeting of the Board of Directors or of any Committee of the Board;
- (3) all orders made by the Board and Committee of the Board and all appointments of Officers and Committees of Directors;
- (4) all resolutions and proceedings of meetings of the Board and the Committees of the Board; and

(5) in the case of each resolution passed at a meeting of the Board or Committee of the Board, the names of the Directors, if any, dissenting from, or not concurring in, the resolution.

By whom Minutes to be signed and the effect of such Minutes

161. The minutes of any meeting of the Board or any Committee of the Board, if purporting to be signed by the Chairman of such meeting or by the Chairman of the next succeeding meeting, shall for all purposes whatsoever, be evidence of the actual passing of the resolutions recorded and the actual and regular transaction or occurrence of the proceedings so recorded and of the regularity of the meeting at which the same appear to have taken place.

Provisions of the Act to be complied with by the Directors

162. The Directors shall also comply with the provisions of Section 159, 295, 297, 299, 303, 305, 307 and 308 of The Act to the extent applicable.

POWERS OF DIRECTORS

General powers of Company vested in Directors

163. Subject to the provisions of The Act and these Articles, the business of the Company shall be managed by the Directors who may exercise all such powers and do all such acts and things as the Company is by its Memorandum of Association or otherwise authorised to exercise and do and are not by these Articles or by statute directed or required to be exercised or done by the Company in General Meeting, but subject nevertheless to the provisions of The Act and of the Memorandum of Association and these Articles from time to time made by the Company in General Meeting provided that no such regulation shall invalidate any prior act of Directors which would have been valid if such regulation had not been made.

Certain powers to be exercised by Board at meeting only

164. The Board shall exercise the following powers on behalf of the Company, and it shall do so only by means of resolutions passed at its meetings :-

- (1) the power to make calls on shareholders in respect of money unpaid on their shares;
- (2) the power to issue debentures;
- (3) the power to borrow moneys otherwise than by debentures;
- (4) the power to invest the funds of the Company; and
- (5) the power to make loans;

Provided the Board may, by a resolution passed at a meeting delegate to any Committee of Directors, the Chairman, the Managing Director, the Whole-time Director or any other Officer or in the case of a Branch office of the Company, the Principal Officer of the Branch office of the Company, the powers specified in sub-articles (3), (4) and (5) above to the extent specified in Section 292 of The Act.

Consent of Company necessary for exercise of certain powers

165. The Board shall not, except with the consent of the Company in General Meetings:-

- (1) sell, lease or otherwise dispose of the whole, or substantially the whole, of the undertaking of the Company, or where the Company owns more than one undertaking, of the whole, or substantially the whole, of any such undertaking;
- (2) remit or give time for the re-payment of any debt due by a Director;
- (3) invest, otherwise than in trust securities, sale proceeds resulting from the acquisition, without the consent of the Company, of any such undertaking as is referred to in sub-article (1) above or of any premises or properties used for any such undertaking and without which it cannot be carried on or can be carried on only with difficulty or only after a considerable time;
- (4) borrow moneys where the moneys to be borrowed together with the money already borrowed by the Company, (apart from temporary loans obtained from the Company's bankers in the ordinary course of business) will exceed the aggregate of the paid up capital of the Company and its free reserves, that is to say reserves not set apart for any specific purpose; or
- (5) contribute to charitable and other funds not directly relating to the business of the Company or the welfare of its employees, any amounts the aggregate of which will, in any financial year, exceed Rs. 50,000/- (Rupees fifty thousand only),

or five percent of its average net profits as determined in accordance with the provisions of The Act during the three financial years immediately preceding, whichever is greater.

Specific powers given to Directors

166. Without prejudice to the general powers conferred by these Articles but subject to the provisions of The Act, it is hereby expressly declared that the Directors shall have the following powers: -

(1) to pay the costs, charges and expenses preliminary and incidental to the promotion, formation, establishment and registration of the Company,

(2) to have an Official Seal for use abroad,

(3) to keep Foreign Register in accordance with the provisions of The Act,

(4) to purchase or otherwise acquire for the Company any property rights or privileges which the Company is authorised to acquire at such price and generally on such terms and conditions as they may think fit.

To pay for property

(5) at their discretion to pay for any property or rights or privileges acquired by or services rendered to the Company, either wholly or partially in cash, or in shares, bonds, debentures, debenture stock or other securities of the Company, and any such shares may be issued whether as fully paid up or with such amount credited as paid up thereon as may be agreed upon; and any such bonds, debentures, debenture stock or other securities may be either specially charged upon all or any part of the property of the Company and its uncalled capital or not so charged,

To insure properties

(6) to insure and keep insured against loss or damage by fire or otherwise for such period and to such extent as they may think proper all or any part of the buildings, machinery, goods, stores, produce and other moveable property of the Company either separately or co-jointly; also to insure all or any portion of the goods, produce machinery and other articles imported or exported by the Company and to sell, assign, surrender or discontinue any policies of insurance effected in pursuance of this power.

To open bank accounts

(7) to open accounts with any bank or bankers or with any Company, firm or individual and to pay money into and draw money from any such account from time to time as the Directors may think fit.

To enter into and secure contracts

(8) to enter into all such negotiations and contracts and rescind and vary all such contracts and execute and do all such acts, deeds and things in the name and on behalf of the Company as they may consider expedient for or in relation to any of the matters aforesaid or otherwise for the purpose of the Company and to secure the fulfillment of any contracts or engagements entered into by the Company by mortgage or charge of all or any of the property of the Company and its unpaid capital for the time being in such other manner as they think fit.

To attach conditions

(9) to attach to any shares to be issued as the consideration or part of the consideration for any contract with or property acquired by the Company, or in payment for services rendered to the Company, such conditions as to transfer thereof as they think fit.

To accept surrender of shares, etc.

(10) to accept from any Member on such terms and conditions as shall be agreed a surrender of his shares or stocks or any part thereof.

To appoint Trustees

(11) to appoint any person or persons (whether incorporated or not) to accept and hold in trust for the Company any property belonging to the Company or in which it is interested, or for any other purposes and to execute and do all such acts and things as may be requisite in relation to any such trust and to provide for the remuneration of such trustee or trustees.

To institute and defend legal proceedings

(12) to institute, conduct, defend, compound or abandon any legal proceedings by or against the Company or its Officers or otherwise concerning the affairs of the Company, and also to compound and allow time for payment or satisfaction of any debt due or of any claims or demands by or against the Company.

To refer to arbitration

(13) to refer any claim or demand by or against the Company to arbitration and observe and perform the awards.

To act in matters of bankruptcy and insolvency

(14) to act on behalf of the Company in all matters relating to bankruptcy and insolvency.

To give receipts

(15) to make and give receipts, releases and other discharges for moneys payable to the Company and for the claims and demands of the Company.

To authorise execution of bills, etc.

(16) to determine, from time to time, who shall be entitled to sign on the Company's behalf bills, notes, receipts, acceptances, endorsements, cheques, dividend warrants, releases, contracts and documents.

To invest moneys

(17) to invest and deal with any of the monies of the Company not immediately required for the purposes thereof, in such securities and in such manner as they may think fit and from time to time to vary or realise such investments.

To give security by way of indemnity

(18) to execute in the name and on behalf of the Company in favour of any director or other person who may incur or be about to incur any personal liability for the benefit of the Company such mortgages of the Company's property (present and future) as they think fit, and any such mortgage may contain a power of sale and such other powers, covenants and provisions as shall be agreed upon.

To distribute bonus

(19) to distribute by way of bonus amongst the staff of the Company a share in the profits of the Company, and to give to any officer or other person employed by the Company a commission on the profits of any particular business or transaction and to charge such bonus or commission as part of the working expenses of the Company.

To give interest in particular business or transaction, etc.

(20) to give to any director, officer or other person employed by the Company an interest in any particular business or transaction or otherwise or a share in the general profits of the Company and such interest, commission or share of profits shall be treated as a part of the working expenses of the Company;

Provided that the share of general profits of the Company payable to the Directors or to the officer of the Company or such other person shall not exceed in the aggregate sum equivalent to (i) one percent of the net profits of the Company, if the Company has Managing or Whole-time Director or a Manager; (ii) three per cent of the net profits of the Company, in any other case, as determined in accordance with the provisions of Sections 349 and 350 of The Act;

Provided further that this limitation or restriction on the percentage of net profits shall not be applicable to any distribution of a general bonus to employees of the Company.

To provide for the welfare of employees, etc.

(21) to provide for the welfare of employees or ex-employees of the Company or its predecessors in business and the spouse, widow or widower, father (including step-father), mother (including step-mother), brother (including step-brother), sister (including step-sister), son (including step-son), daughter (including step-daughter), son's widow, daughter's widower, deceased son's children, deceased daughter's children or dependents of such employees or ex-employees, by building or contributing to the building of houses or dwellings or by grant of money, pensions, allowances, bonus, ex-gratia or other payments or by creating and from time to time subscribing or contributing to provident funds and other associations, institutions, funds or trusts and by providing or subscribing or contributing towards places of instruction and recreation, hospitals and dispensaries, medical and other attendances and to subscribe or contribute to or otherwise assist charitable, benevolent, national and or other institutions or objects.

To subscribe for Charitable fund, etc.

(22) to subscribe or guarantee money for any national, charitable, benevolent, public, general or useful object or for any exhibition or any institution, club, society or fund.

To set aside sums for Reserves, create Reserve Fund, etc.

(23) before recommending any dividend, to set aside, out of the profits of the Company, such sums as the Directors may think proper for depreciation or to a depreciation fund or as reserve or to a reserve fund or sinking fund or any special fund to meet contingencies or to redeem debentures or for repairing, improving, extending and maintaining any part of the property of the Company or for such other purposes as the Directors may in their absolute discretion think conducive to the interests of the Company, and the Directors may invest the several sums so set aside or so much thereof as required to be invested upon such investments (subject to the restrictions imposed by The Act) as the Directors may think fit; and from time to time deal with and vary such investments and dispose of and apply and expend all or any part thereof for the benefit of the Company, in such manner and for such purposes as the Directors (subject to such restrictions as aforesaid) in their absolute discretion think conducive to the interests of the Company notwithstanding that the matters to which the Directors apply or upon which they expend the same, or any part thereof may be matters to or upon which the capital moneys of the Company might rightly be applied or expended; and the Directors may divide the reserve or any fund into such special funds and transfer any sum from one fund to another as the Directors may think fit, and may employ the assets constituting all or any of the above funds, including the depreciation fund, in the business of the Company or in the purchase or repayment of debentures and that without being bound to keep the same separate from the other assets, and without being bound to pay interest on the same, with power, however, to the Directors at their discretion to pay or allow to the credit of such fund interest at such rate as the Directors may think proper.

To appoint officers, etc.

(24) to appoint and at their discretion remove or suspend such committee or committees of experts, technicians, or advisers or such Managers, Officers, clerks, employees, and agents for permanent, temporary or special services as they may, from time to time, think fit, and to determine their powers and duties and fix their salaries and emoluments and require security in such instances and to such amounts as they may think fit, and also without prejudice as aforesaid, from time to time to provide for the management and transaction of the affairs of the Company in any specified locality in India in such manner as they think fit and the provisions contained in sub-articles (25) and (26) following shall be without prejudice to the general powers conferred by this sub-article.

To ensure compliance of local laws

(25) to ensure compliance of the requirements of any local law, which in their opinion, shall in the interest of the Company be necessary or expedient to comply with.

To establish local boards

(26) From time to time and at any time, to establish any Local Board for managing any of the affairs of the Company in any specified locality in India or elsewhere and to appoint any persons to be members of any Local Boards and to fix their remuneration. And from time to time and at any time, but subject to provisions of Section 292 and 293 of The Act and of these Articles, to delegate to any person so appointed any of the powers, authorities and discretions for the time being vested in the Directors, and to authorise the members for the time being of any such Local Board, or any of them to fill up any vacancies therein and to act notwithstanding vacancies and any such appointment or delegation may be made on such terms and subject to such conditions as the Directors may think fit, and the Directors may at any time remove any persons so appointed, and may annul or vary any such delegations. Any such delegates may be authorised by the Directors to sub-delegate all or any of the powers, authorities and discretions for the time being vested in them.

To appoint attorneys

(27) to appoint, at any time and from time to time but subject to the provisions of Section 292 of The Act and these Articles, by Power of Attorney, any persons to be the attorney or attorneys of the Company for such purposes and with such powers, authorities and discretions (not exceeding those vested in or exercisable by the Directors under these Articles) and for such period and subject to such conditions as the Directors may, from time to time, think fit and any such appointment (if the Directors think fit) may be made in favour of the Members or in favour of any company or the Members, Directors, nominees or managers of any company or firm or otherwise in favour of any fluctuating body of persons whether nominated directly or indirectly by the Directors, and any such power of attorney may contain such powers for the protection or convenience of persons dealing with such attorney as the Directors may think fit.

To formulate schemes, etc.

(28) to formulate, create, institute or set up such schemes, trusts, plans or proposals as they may deem fit for the purpose of providing incentive to the officers, employees and workers of the Company including without limiting the generality of the foregoing, formulation of schemes for the subscription by the officers, employees and workers to shares in, or debentures of, the Company.

Delegation of powers

(29) subject to the provisions of The Act and these Articles, to delegate the powers, authorities, and discretion vested in the Directors to any person, firm, company or fluctuating body or persons as aforesaid.

Sub-Delegation of powers by Delegates

(30) any such delegatee or attorney as aforesaid may be authorised by the Directors to sub-delegate all or any of the powers authorities and discretion for the time being vested in him.

Powers of the Board

167 (1) The Board shall have power to organise, maintain, control, manage, regulate and facilitate the operations of the Exchange(s) and of commodities transactions by trading members of the Exchange subject to the provisions of these Articles and of the SCRA Act and the Rules framed thereunder.

(2) Subject to the provisions of these Articles and of the SCRA Act and the Rules framed thereunder or any Directives by the SEBI, the Board shall have power and wide authority to make Rules, Bye-laws and Regulations from time to time, for any or all matters relating to the conduct of the business of the Exchange, the business and transactions of trading members between trading members inter se as well as between trading members and persons who are not trading members, and to control, define and regulate all such transactions and to do such acts and things which are necessary for the purposes of the Exchange or of the Company.

(3) Without prejudice to the generality of the foregoing, the Board shall have power to make Rules, Bye-laws and Regulations, amongst other purposes, for all or any of the following matters:-

- (a) Conditions for admission to membership of the Exchange;
 - (b) Conduct of business of the Exchange;
 - (c) Conduct of trading members with regard to the business of the Exchange, including all matters relating to all transactions in commodities of all kinds and all contracts which have been made subject to Rules, Bye-laws, Regulations or Usage of the Exchange;
 - (d) Form and conditions of contracts to be entered into, and the time, mode and manner of performance of contracts between trading members inter se or between trading members and their constituents;
 - (e) Conditions and levy for admission of commodities for dealings on the Exchange;
 - (f) Time, place and manner for transacting business on the Exchange;
 - (g) Penalties for disobedience or contravention of the Rules, Bye-laws and Regulations or of general discipline of Exchange, including expulsion or suspension of the trading members;
 - (h) Declaration of any trading member as defaulter or suspension, or resignation or exclusion from trading membership of the Exchange and of consequences thereof;
 - (i) Scale of commission or brokerage which trading members can charge;
 - (j) Conditions, levy for admission or subscription for admission to or continuance for trading membership of Exchange;
 - (k) Charge payable by trading members for transactions in such scrips, commodities, their derivatives, etc as may be laid down from time to time;
 - (l) Investigations of the financial condition, business conduct and dealings of trading members;
 - (m) Settlement of disputes, complaints, claims arising between trading members and persons who are not trading members inter se as well as between trading members and persons who are not trading members relating to any transaction in commodities made subject to the Rules, Bye-laws and Regulations and usage of the Exchange including settlement by arbitration in accordance with the Rules, Bye-laws and Regulations and usage of the Exchange in force from time to time;
 - (n) Establishment and functioning of Clearing House(s) or other arrangements for clearing;
 - (o) Appointment of Committee or Committees for any purposes of the Exchange.
- (4) The Board shall be empowered to delegate to Executive Committee(s) or to any person, all or any of the powers vested in it, to manage all or any of the affairs of Exchange.
- (5) Subject to the provisions of these Articles and of the SCRA Act and the Rules framed thereunder any directives from the SEBI, the Board shall be empowered to vary, amend or repeal or add to Rules, Bye-laws and Regulations framed by it.

EXECUTIVE COMMITTEE

168. (1) The Board shall constitute, and empower one or more Executive Committee(s), to manage the whole or part of the affairs of the Exchange.

(2) The composition and the maximum strength of the Executive Committee shall be such as may be prescribed in the Rules of the Exchange from time to time.

(3) The Managing Director of the Company shall be the ex-officio Chairman of the Executive Committee and Chief Executive of the Exchange.

(4) The Board may give such directives from time to time, in relation to the conduct of the affairs of the Exchange, and such directives shall be binding upon the Exchange and the EC(s). If at any time the Board is satisfied that circumstances exist which render it necessary in public interest to do so, the Board may supersede and/or dissolve the Executive Committee and appoint and reconstitute a new Executive Committee with such powers and on such terms as the Board may in its discretion think fit.

(5) The Executive Committee may subject to the terms and conditions of delegations by the Board and to the extent of such delegation exercise all such powers and do all such acts and things as may be exercised or done by the Board.

*SECRETARY**Appointment and removal of Secretary*

169. The Directors may from time to time appoint a secretary to perform any functions, which by The Act are to be performed by the Secretary and to execute any other ministerial or administrative duties, which may from time to time be assigned to the secretary by the Directors and at their discretion remove any such Secretary. The Directors may also at any time appoint any person or persons (who need not be the Secretary) to keep the register required to be kept by the Company; provided that if the paid up capital of the Company shall exceed prescribed limits then in such event, the Company shall appoint a Whole time Secretary as provided in Section 383-A of The Act and he shall possess such qualifications as may be prescribed from time to time by the rules made under Section 2(45) of The Act.

*THE SEAL**The Seal, its custody and use*

170. The Directors shall provide a Common Seal for the purpose of the Company and shall have power from time to time to destroy the same and substitute a new seal in lieu thereof, and the Directors shall provide for the safe custody of the Seal for the time being, and the Seal shall never be used except by or under the authority of the Directors or a Committee of Directors and in the presence of one Director, the Secretary or any other person who may be authorised in this regard at the least, who shall sign every instrument to which the Seal is affixed; provided that certificates of shares and debentures may be under the signatures of such persons as provided by the Companies (Issue of Share Certificates) Rules, 1960 in force from time to time. Save as otherwise expressly provided by The Act, a document or proceeding requiring authentication by the Company may be signed by a Director, or the Secretary or any other Officer authorised in that behalf by the Board and need not be under its Seal.

Seal abroad

171. The Company may exercise the powers conferred by Section 50 of The Act and such powers shall accordingly be vested in the Directors.

*DIVIDENDS**Division of profits*

172. The profit of the Company, subject to any special rights relating thereto created or authorised to be created by the Memorandum of Association or these Articles and subject to the provisions of The Act and these Articles, shall be divisible among the Members in proportion to the amount of capital paid up in the shares held by them respectively.

Capital paid up in advance at interest not to earn dividend

173. Where capital is paid up in advance of calls upon the footing that the same shall carry interest, such capital shall not, whilst carrying interest, confer a right to dividend or to participate in profits.

Dividends in proportion to amount paid up

174. The Company may pay dividends in proportion to the amount paid up or credited as paid up on each share, where a larger amount is paid up or credited as paid up on some shares than on others.

The Company in General Meeting may declare a dividend

175. The Company in Annual General Meeting may declare a dividend to be paid to the Members according to their respective rights and interests in the profits and may fix the time for payment.

Dividend to be paid out of profits

176. (1) No dividend shall be declared or paid otherwise than out of profits of the financial year arrived at after providing for depreciation in accordance with the provisions of Section 205 of The Act or out of the profits of the Company for any previous financial year or years arrived at after providing for depreciation in accordance with those provisions and remaining undistributed or out of both provided that ;

(a) if the Company has not provided for depreciation for any previous financial year or years, it shall before declaring or paying dividend for any financial year provide for such depreciation out of the profits of that financial year or out of the profits of any other previous financial year or years;

(b) if the Company has incurred any loss in any previous financial year or years, the amount of the loss or an amount which is equal to the amount provided for the depreciation for that year or those years, whichever is less, shall be set off against the profits of the Company for which the dividend is proposed to be declared or paid or against the profits of the Company for any previous financial year or years, arrived at in both the cases after providing for depreciation in accordance with the provisions of sub-section (2) of Section 205 of The Act or against both.

(2) The Company shall not pay any dividend on its shares until all its capitalised expenses (including preliminary expenses, organisational expenses, share selling commission, brokerage, amounts of losses incurred and any other item of expenditure not represented by tangible assets) have been completely written off.

(3) Notwithstanding anything to the contrary contained in sub-article (2) or in The Act, the Company may pay dividends on its shares without writing off :

(a) the depreciation, if any, in the value of its investments in approved securities in any case where such depreciation has not actually been capitalised or otherwise accounted for a loss;

(b) the depreciation, if any, in the value of its investments in the shares, debentures or bonds (other than approved securities) in any case where adequate provision for such depreciation has been made to the satisfaction of the auditor of the Company.

No larger dividend than recommended by Directors, etc.

177. No larger dividend shall be declared than is recommended by the Directors but the Company in General Meeting may declare a smaller dividend, subject to the provisions of Section 205 of The Act, and no dividend shall carry interest as against the Company. The declaration of the Directors as to the amount of the net profits of the Company in any year shall be conclusive.

Interim dividend

178. The Directors may, from time to time, pay to the Members such interim dividends as, in their judgement, the position of the Company justifies.

Retention of dividends until completion of transfer.

179. The Directors may retain the dividends payable upon shares in respect of which any person is entitled to transfer until such person shall become a Member in respect of such shares.

No Member to receive dividend while indebted to the Company and Company's right of reimbursement thereof

180. Subject to Section 205 of The Act, no Member shall be entitled to receive payment of any interest or dividend in respect of his share or shares, whilst any money may be due or owing from him to the Company in respect of such share or shares of or otherwise howsoever, either alone or jointly with any other person or persons, and the Directors may deduct from the interest or dividend payable to any Member all sums of money so due from him to the Company.

Right to dividend only on registration of transfer of shares

181. A transfer of shares shall not pass the right to any dividend declared thereon before the registration of the transfer.

Special provision with reference to dividend

182. No dividend shall be payable except in cash; provided that nothing in this Article shall be deemed to prohibit the capitalisation of profits or reserves of the Company for the purpose of issuing fully paid up bonus shares or paying up any amount for the time being unpaid on any shares held by the Members of the Company.

Dividends how remitted

183. Any dividend payable in cash may be paid by cheque or warrant sent through the post to the registered address of the Member or in case of joint holders to that one of them first named in the Register in respect of the joint holding. Every such cheque shall be made payable to the order of the person to whom it is sent. The Company shall not be liable or responsible to any cheque or warrant lost in transit or for any dividend lost to the Member or person entitled thereto by the forged endorsement of any cheque or warrant or the fraudulent or improper recovery thereof by any other means.

Unclaimed or unpaid dividends

184. (1) If a dividend declared by the Company has not been paid or claimed within thirty days from the date of declaration to any shareholder entitled to the payment of the dividend, the Company shall within seven days from the date of expiry of the said period of thirty days, open a special account in that behalf in any Scheduled Bank called "The Unpaid Dividend Account of National Commodity & Derivatives Exchange Limited" and transfer the total amount of such dividend remaining unpaid or unclaimed, to such Account.

Explanation: In this Sub-Article, the expression "dividend which remains unpaid" means any dividend the warrant in respect of which has not been encashed or which has otherwise not been paid or claimed.

(2) Any money transferred to the unpaid dividend account of the Company which remains unpaid or unclaimed for a period of seven years from the date of such transfer, shall be transferred by the Company to the Fund established under sub-section (1) of section 205C of The Act.

Dividends and call together

185. Subject to Section 205A of The Act, any General Meeting declaring a dividend may make a call on the Members in respect of moneys unpaid on shares for such amount as the meeting fixes so that the call on each Member shall not exceed the dividend payable to him and so that the call be made payable at the same time as the dividend, and the dividend may, if so arranged between the Company and the Members, be set off against the call.

a. PURCHASE OF ITS OWN SECURITIES

Buy back of own shares

186. Notwithstanding anything contained in these Articles, the Company may, when and if thought fit, buy back such of the Company's own shares or securities as it may think necessary, subject to such limits, upon such terms and conditions, and subject to such approvals, as may be required under the provisions of The Act.

CAPITALISATION*Capitalisation*

187. (1) Any General Meeting may resolve that any moneys, investments or other assets forming part of the undivided profits, [including profits or surplus moneys arising from the realisation and (where permitted by law) from the appreciation in value of any capital assets of the Company], standing to the credit of the Reserve or Reserve Fund or any other Fund of the Company or in the hands of the Company and available for dividend or representing premium received on the issue of shares and standing to the credit of the securities premium account be capitalised:

(a) by the issue and distribution of fully paid up shares, debentures, debenture-stock, bonds or other obligations of the Company, or

(b) by crediting shares of the Company which may have been issued to and are not fully paid up with the whole or any part of sum remaining unpaid thereon.

(2) Such issue and distribution under clause (a) of sub-article (1) of this Article and such payment to the credit of unpaid share capital under clause (b) of sub-article (1) of this Article shall be made to among and in favour of the Members or any class of them or any of them entitled thereto and in accordance with their respective rights and interests and in proportion to the amount of capital paid up on the shares held by them respectively in respect of which such distribution under clause (a) of sub-article (1) of this Article or payment under clause (b) of sub-article (1) of this Article shall be made on the footing that such Members become entitled thereto as capital.

(3) The Directors shall give effect to any such resolution and apply such portion of the profits of Reserve or Reserve Fund or any other Fund on account as aforesaid and may be required for the purpose of making payment in full for the shares, debentures or debenture-stock, bonds or other obligations of the Company so distributed under clause (a) of sub-article (1) of this Article or, as the case may be, for the purpose of paying in whole or in part, the amount remaining unpaid on the shares which may have been issued and are not fully paid up under clause (b) of sub-article (1) of this Article; provided that no such distribution or payment shall be made unless recommended by the Directors and if so recommended, such distribution and

payment shall be accepted by such Members as aforesaid in full satisfaction of their interest in the said capitalised sum. For the purpose of giving effect to any such resolution, the Directors may settle any difficulty which may arise in regard to the distribution or payment as aforesaid as they think expedient and, in particular, they may issue fractional certificates and may fix the value for distribution of any specific assets and may determine that cash payments be made to any Members on the footing of the value so fixed and may vest any such cash shares, debentures, debenture-stock, bonds or other obligations in trustees upon such trusts for the person entitled thereto as may seem expedient to the Directors and generally may make such arrangements for the acceptance, allotment and sale of such shares, debentures, debenture-stock, bonds or other obligations and fractional certificates or otherwise as they may think fit.

(4) Subject to the provisions of The Act and these Articles, in cases where some of the shares of the Company are fully paid up and others are partly paid up only, such capitalisation may be effected by the distribution of further shares in respect of the fully paid up shares, and by crediting the partly paid up shares with the whole or part of the unpaid liability thereon but as between the holders of the fully paid-up shares, and the partly paid up shares, the sums so applied in the payment of such further shares and in the extinguishment or diminution of the liability on the partly paid up shares shall be so applied pro rata in proportion to the amount then already paid or credited as paid on the existing fully paid up and partly paid up shares respectively. When deemed requisite, a proper contract shall be filed in accordance with The Act and the Board may appoint any person to sign such contract on behalf of the holders of the shares of the Company which shall have been issued prior to such capitalisation and such appointment shall be effective.

ACCOUNTS

Accounts

188. The Directors shall cause true accounts to be kept of (1) all sums of money received, expended by the Company and the matters in respect of which such receipt and expenditure take place; (2) all sales and purchases of goods by the Company and (3) the assets, credits and liabilities of the Company, and generally of all its commercial, financial and other affairs, transaction and engagement and of all other matters, necessary for showing the true financial state and condition of the Company, and the accounts shall be kept in English and in the manner as the Directors may deem fit. The books of accounts shall be kept at the Registered Office or such other place or places in India as the Directors may think fit and shall be open to inspection by the Directors during business hours.

Inspection by Members of accounts and books of the Company

189. The Directors shall from time to time determine whether and to what extent and at what times and places and under what conditions or regulations the accounts and books of the Company or any of them shall be open to the inspection of Members not being Directors and no Member (not being a Director) shall have any right of inspecting any Account or book or document of the Company except as conferred by law or authorised by the Directors or by the Company in the General Meeting.

Statement of Accounts and Report to be furnished to General Meeting

190. The Directors shall place before the Company in the Annual General Meeting a Profit and Loss Account for the period since the preceding account and a Balance Sheet containing a summary of the property and liabilities of the Company made up to a date not more than 6 months before the date of meeting, or in case where an extension of time has been granted for holding the meeting, not more than 6 months as aforesaid and the extension so granted, and every such Balance Sheet shall as required by Section 217 of The Act, be accompanied by a Report (to be attached thereto) of the Directors as to the state and condition of the Company, and as to the amount, if any, which they recommended to be paid, out of the profits, by way of dividend and the amount, if any, set aside by them for the Reserve Fund, General Reserve or Reserve Account shown specifically in the Balance Sheet or to be shown specifically in a subsequent Balance Sheet.

Form and contents of Balance Sheet and Profit and Loss Account

191. Every Balance Sheet and Profit and Loss Account of the Company shall give a true and fair view of the state of affairs of the Company and shall, subject to the provisions of Section 211 of The Act, be in the Forms set out in Parts I and II respectively of Schedule VI of The Act, or as near thereto as circumstances admit or in such other format as may be approved by the Central Government.

Authentication of Balance Sheet and other documents; Copies thereof to be sent to Members

192. (1) The Balance Sheet and the Profit and Loss Account shall be signed by the Manager or Secretary, if any, and by not less than two Directors of the Company, one of whom shall be a Managing Director where there is one or when only one Director is for the time being in India, by such Director and Manager or Secretary. The Balance Sheet and the Profit and Loss Account shall be approved by the Board before they are signed on behalf of the Board in accordance with the provisions of this Article and before they are submitted to the Auditor for their report thereon. The Auditors' Report shall be attached to the

Balance Sheet and the Profit and Loss Account or there shall be inserted at the foot of the Balance Sheet and Profit and Loss Account a reference to the Report.

(2) A copy of such Balance Sheet and the Profit and Loss Account so audited together with a copy of the Auditors' Report shall, at least twenty one days before the meeting at which the same are to be laid before the Members of the Company, subject to the provisions of Section 219 of The Act, be sent to every Member of the Company, to every debenture-holder whose address the Company is aware and a copy of the same shall be deposited at the Office for inspection by the Members of the Company during a period of at least twenty one days before that meeting.

Copies of Balance Sheet and Profit and Loss Account and Auditors' Report shall be filed with the Registrar of Companies

193. After the Balance Sheet and Profit and Loss Account have been laid before the Company at a General Meeting, three copies thereof signed by the Manager or Secretary or if there be none of these, by a Director as required by Section 220 of The Act, shall be filed with the Registrar of Companies together with the requisite Returns in accordance with the requirements of Section 159 and 161 of The Act.

AUDIT

Accounts to be audited

194. Once at least in every year the accounts of the Company shall be balanced and audited and the correctness of the Profit and Loss Account and Balance Sheet ascertained by one or more Auditors.

Appointment of First Auditor

195. The first Auditor or Auditors of the Company shall be appointed by the Board within one month of the date of registration of the Company and the Auditor or Auditors so appointed shall hold office until the conclusion of the first Annual General Meeting, provided that the company may, at a General Meeting remove any such auditor or all such auditors and appoint in his or their place any other person or persons who have been nominated for appointment by any member of the Company and of whose nomination notice has been given to the members of the Company not less than fourteen days before the date of the meeting. If the Board fails to appoint the first Auditors as provided under this Article, the Company in General Meeting may appoint the first Auditor or Auditors.

Appointment and qualification of Auditors

196. The Company at each Annual General Meeting shall appoint an Auditor or Auditors being Chartered Accountant or Accountants to hold office until the next Annual General Meeting and the following provisions shall have effect, that is to say:

(1) If an appointment or re-appointment of an Auditor or Auditors is not made at an Annual General Meeting, the Company shall, within seven days thereof, give notice of the fact to the Central Government, who may appoint an Auditor of the Company for the current year and fix the remuneration to be paid to him by the Company for his services.

(2) The Directors may fill up any casual vacancy that may occur in the office of Auditor by the appointment of a person or persons being a Chartered Accountant or Accountants, who shall hold such office until the conclusion of the next Annual General Meeting but while any such vacancy continues, the surviving or continuing Auditor or Auditors, if any, may act; provided that where such vacancy is caused by the resignation of the Auditor, the vacancy shall only be filled by the Company in General Meeting.

(3) A body corporate, an officer or employee of the Company, or a partner of or person in the employment of such an officer or employee or any person, indebted to the Company for an amount exceeding One Thousand Rupees or who has given any guarantee or provided any security in connection with the indebtedness of any third person to the Company for an amount exceeding One Thousand Rupees and a person holding any security of the company carrying voting rights shall not be appointed Auditor of the Company.

(4) If any person after being appointed Auditor becomes disqualified under sub-article (3), he shall be deemed to have vacated his office.

(5) Retiring Auditors shall, subject to the provisions of sub-section (2) of Section 224 of The Act, be reappointed.

(6) No person other than a retiring Auditor shall be capable of being appointed to the office of Auditor at any Annual General Meeting unless special notice of a resolution for appointment of that person to the office of Auditor has been given by a Member to the Company, not less than fourteen days before the meeting, in accordance with Section 190 of The Act and all other provisions of Section 225 of The Act shall be complied.

Remuneration of Auditors

197. The remuneration of the Auditors of the Company shall be fixed by the Company in the Annual General Meeting except that the remuneration of Auditors appointed to fill any casual vacancy, may be fixed by the Directors and where his appointment has been made by the Central Government pursuant to sub-article (1) of the Article 196, it may be fixed by the Central Government.

Auditors: their powers, duties and their Report

198. Every Auditor of the Company shall have a right of access, at all the times, to the books and accounts and vouchers of the Company and shall be entitled to require from the Directors and officers of the Company, such information and explanations as may be necessary for the performance of the duties of the Auditors and the Auditors shall make a report to the Shareholders on the accounts examined by them, and on every Balance Sheet and Profit and Loss Account and every other document declared by The Act to be part of or annexed to the Balance sheet or Profit and Loss Account, which are laid before the Company in General Meeting during their tenure of office, and the report shall state whether, in their opinion and to the best of their information and according to the explanations given to them, the said accounts give the information required by The Act in the manner so required and give a true and fair view:- (1) in the case of the Balance Sheet, of the state of the Company's affairs as at the end of its financial year and (2) in the case of the Profit and Loss Account, of the profit or loss for its financial year. The Auditors' Report shall also state:- (a) whether they had obtained all the information and explanations which to the best of their knowledge and belief were necessary for the purpose of their audit; (b) whether, in their opinion, proper books of account as required by law have been kept by the Company so far as it appears from the examination of those books and proper returns adequate for the purpose of their audit have been received from the branches not visited by them; and (c) whether the Company's Balance Sheet and Profit and Loss Account dealt with by the Report are in agreement with the books of account and returns, (d) whether, in his opinion, the profit and loss account and balance sheet comply with the accounting standards referred to in sub-section (3C) of section 211 of The Act, where any of the matters referred to in items (1) and (2) or (a), (b), (c) and (d) aforesaid is answered in the negative or with a qualification, the Auditors' Report shall state the reason for the same. The Auditors' Report shall be attached to the Balance Sheet and Profit and Loss Account or set out at the foot thereof and such Report shall be read before the Company in Annual General Meeting and shall be open to inspection by any Member of the Company.

Auditors' right to attend Meetings

199. All notices of, and other communications relating to, any General Meeting of the Company which any Member of the Company is entitled to have sent to him, shall also be forwarded to the Auditors of the Company and the Auditors shall be entitled to attend any General Meeting and to be heard at any General Meeting which they attend or any part of the business which concerns them as Auditors.

Accounts when audited and approved to be conclusive except as to errors discovered within 3 months

200. Every account when audited and approved by an Annual General Meeting shall be conclusive, except as regards any error discovered therein within three months after the approval thereof. Whenever any such error is discovered within that period, the account shall forthwith be corrected and thenceforth shall be conclusive.

NOTICE

Notice

201. (1) A notice (which expression for the purposes of these Articles shall be deemed to include any summons, notice, process, order, judgement or any other document in relation to or in the winding up of the Company) may be given by the Company to any Member either personally or by sending it by post to him to his registered address, or if he has no registered address in India, to the address, if any, within India supplied by him to the Company for giving of notices to him.

(2) Where a document (which shall for this purpose be deemed to include any summons, requisition, process, order, judgement or any other documents in relation to the winding up of the Company) or a notice is sent by post, the service of such notice shall be deemed to be effected by properly addressing, pre-paying and posting a letter containing the notice; provided that where a Member has intimated to the Company in advance that documents should be sent to him under a certificate of posting or by registered post, with or without acknowledgement due, and has deposited with the Company a sum sufficient to defray the expenses of doing so, service of the document or notice shall not be deemed to be effected unless it is sent in the manner intimated by the Member, and unless the contrary is proved, such service shall be deemed to have been effected in the case of a notice of a meeting at the expiry of forty eight hours after the letter containing the same is posted, and in any other case, at the time at which the letter would have been delivered in the ordinary course of post.

Notice to Members having no registered address

202. If a Member has no registered address in India and has not supplied to the Company an address within India for the giving of notices to him, a notice advertised in a newspaper circulating in the neighbourhood of the Office shall be deemed to be fully given to him on the day on which the advertisement appears.

Advertisement

203. Subject to the provisions of The Act, any document required to be served or sent by the Company on or to the members or any of them, and not expressly provided for by these Articles, shall be deemed to be duly served or sent, if advertised once in one daily English and one daily vernacular newspaper circulating in Maharashtra.

Service of notice to first of joint holders

204. A document or notice may be served or given by the Company on or to the joint holders of a share by serving or giving the document or notice on or to the joint holder named first in the Register of Members in respect of such share.

Persons entitled to notice of General Meetings

205. (1) Notice of every General Meeting shall be given in same manner hereinbefore authorised to (a) every Member of the Company (including bearers of share warrants), (b) every person entitled to a share in consequence of the death or insolvency of a Member who, but for his death or insolvency, would be entitled to receive notice of the meeting and also to (c) the Auditor or Auditors of the Company.

(2) A Notice may be given by the Company to the persons entitled to a share in consequence of the death or insolvency of a Member by sending it through the post or in a prepaid letter addressed to them by name or by the title of representatives of the deceased or assignee of the insolvent or by any like descriptions at the address, if any, in India supplied for the purpose by the persons claiming to be so entitled or (until such an address has been so supplied) by giving the notice in any manner in which the same might have been given if the death or insolvency had not occurred.

Notice by Company and signature thereon

206. Any notice to be given by the Company shall be signed by the Secretary, if any, or by such officer as the Directors may appoint. Such signature may be written, printed or lithographed.

Service of notice on Company

207. All document or notices to be served or given by a member on or to the Company or any officer thereof shall be served or given by sending it to the Company or officer at the office by post under a certificate of posting or by registered post, or by leaving it at the office.

Transferee bound by prior notice

208. Every person, who by operation of law, transfer or other means whatsoever, shall become entitled to any share, shall be bound by every notice in respect of such share, which previously to his name and address and title to the share being notified to the Company, shall have been duly given to the person from whom he derives his title to such share.

Notice valid though Member deceased

209. Subject to the provisions of The Act, any notice given in pursuance of these Articles or documents delivered or sent by post to or left at the registered address of any Member or at the address given by him in pursuance of these Articles, shall notwithstanding such Member be then deceased and whether or not the Company has notice of his decease be deemed to have been duly served in respect of any registered share, whether held solely or jointly with other persons by such Member until some other persons be registered in his stead as the holder or the joint holder thereof, and such service shall for all purposes of these Articles be deemed a sufficient service of such notice or document on his or her heirs, executors or administrators and all persons, if any, jointly interested with him or her in any such share.

Authentication of Documents

210. Save as otherwise expressly provided in The Act, or these Articles a document or proceedings requiring authentication by the Company may be signed by a Director or Secretary or any officer authorised by the Board of Directors in this regard and need not be under its seal.

SECRECY CLAUSE

Secrecy Clause

211. No member shall be entitled to require discovery of or any information respecting any detail of the Company's business or trade or any matter which may be in the nature of a trade secret, mystery of trade or secret process which may relate to the conduct of the business of the Company and which in the opinion of the Directors, will be inexpedient in the interest of the Members of the Company to communicate to the public.

INDEMNITY AND RESPONSIBILITY

Directors and others' right to indemnity

212. (1) Subject to the provisions of Section 201 of The Act, every Director of the Company, the Chairman, Managing Director, Wholetime Director, Manager, Secretary and other officer or other employees for the time being of the Company, if any, for the time being acting in relation to any of the affairs of the Company and every one of them shall be indemnified by the Company against and it will be the duty of the Directors to pay, out of the funds of the Company, all bonafide costs, losses and expenses (including travelling expenses) which any such Director, Chairman, Managing Director, Wholetime Director, Manager, Secretary, officer or employee may incur or become unable to, by reason of any contract entered into or act or deed done by him as such Director, Chairman, Managing Director, Wholetime Director, Manager, Secretary, officer or employee or in any way in the discharge of his duties.

(2) Subject as aforesaid, every Director or the Chairman, Managing Director, Wholetime Director, Manager, Secretary, officer or employee of the Company shall be indemnified against any liability incurred by him in defending any proceedings, whether civil or criminal instituted against him as such Director, Chairman, Managing Director, Wholetime Director, Manager, Secretary, or officer of the Company in which judgement is given in his favour or in which he is acquitted or in connection with any application under Section 633 of The Act in which relief is given to him by the Court.

(3) Save and except so far as the provisions of this Article shall be avoided by Section 201 of The Act, none of them shall be answerable for the acts, receipts, neglects or defaults of the other or other of them, or for joining in any receipt for the sake of conformity, or for insolvency of any bankers or other persons with whom any moneys or effects belonging to the Company shall or may be lodged or deposited for safe custody or for the insufficiency or deficiency of any security upon which any moneys belonging to the Company shall be placed out or invested or for any other loss, misfortune or damage which may happen in the execution of their respective offices or trusts or in relation thereto, except when the same shall happen by or through their own willful neglect or default respectively.

(4) Subject to the provisions of Section 201 of The Act, no Director or other officer of the Company shall be liable for the acts, receipts, neglect or default of any other Director or officer of the Company or for joining in any receipt or other act for conformity for any loss or expenses happening to the Company through the insufficiency or deficiency to title to any property acquired by the order of the Director for or on behalf of the Company or for the insufficiency or deficiency of any security in or upon which any of the moneys of the Company shall be invested or for any loss or damage arising from the bankruptcy, insolvency or tortuous act or any person with whom any moneys, securities or effects shall be deposited or for any loss occasioned by any error of judgement or oversight on his part, or for any other loss, or damage whatsoever, which shall happen in the execution of the duties of his office or in relation thereto unless the same happens through his own negligence or dishonesty.

WINDING UP

Distribution of assets on winding up

213. (1) If the Company shall be wound up and assets available for distribution among the Members as such shall be insufficient to repay the whole of the paid-up capital, such assets shall be distributed so that, as nearly may be, the losses shall be borne by the Members in proportion to the capital paid-up, or which ought to have been paid up at the commencement of the winding up, on the shares held by them respectively and if in a winding up the assets available for distribution among the Members shall be more than sufficient to repay the whole of the capital paid-up at the commencement of the winding up, the excess shall be distributed amongst the Members in proportion to the capital, at the commencement of the winding up, paid up or which ought to have been paid up on the shares held by them respectively; provided, however, nothing contained in this Article shall prejudice the rights of the holders of shares issued upon special terms and conditions.

Manner of distribution of assets

(2) (a) If the Company shall be wound up, whether voluntarily or otherwise, the Liquidator may with the sanction of special resolution or any other sanction required by The Act, may/shall divide among the contributories, in specie or in kind, the whole or any part of the assets of the Company and may, with like sanction, vest the whole or any part of the assets of the Company in trustees upon such trusts for the benefit of the contributories or any of them, as the Liquidator, with the like sanction shall think fit.

(b) If thought expedient, any such division may, subject to the provisions of The Act, be otherwise than in accordance with the legal rights of the contributories (except where unalterably fixed by the Memorandum of Association) and, in particular, any class may be given preference or special rights or may be excluded altogether or in part, but, in case any division otherwise than in accordance with the legal rights of the contributories shall be determined, any contributory, who would be prejudiced thereby, shall have a right to dissent and ancillary rights as if such determination were a special resolution passed pursuant to Section 494 of The Act.

(c) In case any shares to be divided as aforesaid involve a liability to calls or otherwise any person entitled under such division to any of the said shares may within 10 days after the passing of the Special Resolution by notice in writing direct the liquidators to sell his portion and pay him the net proceeds and the liquidators shall, if practicable, act accordingly.

We, the several persons whose names, addresses, descriptions as hereunto subscribed, are desirous of being formed into a company in pursuance of these Articles of Association.

Sr. No.	Name, address and description of the Subscribers	Signature(s)	Signature, Name, Address, Description and Occupation, if any, of the witness
1.	ICICI Bank Limited ICICI Bank Towers, Bandra Kurla Complex, Bandra (East) Mumbai 400 051. Represented by its Senior General Manager Mr. Puranam Hayagreeva Ravikumar S/o. Late Mr. Puranam Venkata Subrahmanyam Occupation : Commercial Banking	ICICI Bank Ltd. Sd./- Authorised Signatory	Witness to all subscribers Sd./- Bharat Ramakant Upadhyay 313, Shri Saidham Co-op. Hsg. Society, 90 Feet Raod, Ghatkopar (East), Mumbai – 400 077. Occupation : Practising Company Secretary
2.	Life Insurance Corporation of India Central Office Yogakshema, Jeevan Bima Marg, P.B. No. 19953 Mumbai 400 021. Represented by its Chief – Investments, Mr. Vasudeo Rajaram Galkar, S/o. Mr. Rajaram Narayan Galkar Occupation : Life Insurance	For Life Insurance Corporation of India Sd./- Authorised signatory	
3.	National Bank for Agriculture and Rural Development Plot No. C-24, G Block, Bandra Kurla Complex, Bandra (East) Mumbai 400 051. Represented by its Chairman, Mr. Yogesh Chand Nanda S/o. Mr. Tek Chand Nanda Occupation : Financing of Agriculture & Rural Development	For National Bank for Agriculture and Rural Development Sd./- Chairman	
4.	National Stock Exchange of India Limited Exchange Plaza, Plot C-1, Block G, Bandra Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai 400 051. Represented by its Sr. Vice President & Company Secretary, Mr. J. Ravichandran S/o. Mr. S. Jagannathan Occupation : Stock Exchange	For National Stock Exchange of India Limited Sd./- J. Ravichandran Company Secretary & Sr. Vice President	
5.	Narendra Kumar Gupta S/o. Mr. Biharidass, R/O A-204, Mercury, Vasanth Galaxy, Bangur Nagar, Goregaon (West), Mumbai 400 090. Occupation : Service	Sd./-	
6.	Mr. J. Ravichandran S/o. Mr. S. Jagannathan 703, NEAT House, Road No. 86, Dadar (West), Mumbai 400 028. Occupation : Service	Sd./-	

Sr. No.	Name, address and description of the Subscribers	Signature(s)	Signature, Name, Address, Description and Occupation, if any, of the witness
7.	Bhashyam S S/o. Mr. K. Seshan B-403, Riviera Building, Opp. Sai Gardens, Akurli Road, Lokhandwala Township, Kandivili (East) Mumbai 400 101. Occupation : Service	Sd./-	

Date : April 17, 2003

Place : Mumbai

Date:- September 20, 2016

Place: - Mumbai

SAMIR SHAH

Managing Director & CEO

NORTH KARANPURA TRANSCO LIMITED

New Delhi – 110021

North Karanpura Transco Limited, having its registered office at C-105, Anand Niketan, New Delhi – 110021, intends to apply to the Government of India to confer upon him all the powers under section 164 of the Electricity Act, 2003 for the placing of electric lines or electrical plant for the transmission of electricity or for the purpose of telephonic or telegraphic communications necessary for the proper coordination of works which telegraph authority possess under the Indian Telegraph Act 1885 with respect to the placing of telegraph lines and posts for the purpose of a telegraph established or maintained, by the Government or to be so established or maintained and will undertake the survey, construction, installation, inspection, erection and other works to be followed by commissioning, operation, maintenance and other works for the following transmission schemes :-

Name of the scheme:

“Immediate Evacuation for North Karanpura (3X660MW) generation project of NTPC along with creation of 400/220 kV sub-station at Dhanbad - Proposal of JUSNL (ERSS-XIX)”

Works covered under the Scheme:-

Transmission Lines:

1. North Karanpura – Gaya 400kV D/c line with quad moose conductor
2. North Karanpura – Chandwa (Jharkhand) Pooling Station 400kV D/c line with quad moose conductor
3. LILO of both circuits of Ranchi – Maithon-RB 400kV D/c line at Dhanbad (Twin Moose)

Substations:

Establishment of 400/220 kV, 2x500 MVA sub-station at Dhanbad

400kV

• ICTs: 400/220 kV, 2x500 MVA • ICTs bays: 2 no. • Line bays: 4 no. • 400 kV bus reactor bays: 2 no.

• Bus reactor: 2x125 MVAR • Space for future bays: 4 no • Space for future 400/220 kV, 500 MVA ICT along with associated bay

220kV

• ICTs bays: 2 no. • Line bays: 4 no. • Space for future bays: 4 no

The transmission lines covered under the scheme will pass through, over, around and between the following villages, towns and cities in the state of Bihar and Jharkhand.

1 a) North Karanpura – Gaya 400kV D/c line line with quad moose conductor State: Bihar		
Name of Village	Tehsil	District
Moti Chak, Maulanagar, Mardana, Mora Mardana, Rahim Chak, Dwarika Chak, Ghanta Dih, Belahi, Matihani, Bighatola, Safi, Bara, Majhauri, Sarvodaypur, Aunra, Asni, Shivganj, Satgharwa, Mirchehar, Gyan Khap, Puran Bigha, Pathagarh, Path, Gohti, Turi Chhota, Jindapur, Shekhwar, Parmiya, Shripur, Gangahar, Ahmadnagar, Gaura, Sobha Khap, Pachhan, Ramgarh, Bhoju Bigha, Bhanwarbar, Kabar Bigha, Koshila, Haridaspur, Nabi Chak, Sahdev Khap, Iguna, Kusaha, Bahera, Kurum Dih, Karma, Bishunpur, Meghan Bigha, Tiura.	Bodh Gaya	Gaya
Majhauri, Khairat, Sakhaun, Pajiauna, Tikaiti, Bhulantola, Salempur, Binda, Belghoghar, Kundil, Gangwar, Buniad Bigha, Selari, Suraundha, Dahiya, Bahargadha, Dhana Chak, Gholsari, Bhagauti, Sarwan Khas, Dharamthan, Sonbarsa, Bodha Bigha, Dhirja Bigha, Manan Bigha, Kalauwa Khurd, Bajarkar, Makhdum Pur, Chhota Sarwan, Karman, Bhadeya, Kalauwa Kalan, Dhanawan, Batasi, Bela, Rajaganj, Gangti, Padam Chak, Chhoraban, Adalpur, Paili, Chainpur, Son Diha, Hasanpur, Sobh, Raksi, Mayapur, Bhagahar, Baghar, Bibi Peshra, Bhat Bigha, Banki, Jahangira, Darbar, Jolahatola, Dewanian, Gosain Peshra, Deori Dumri, Beri, Man Kumhari, Shahbazpur, Sokhia, Jhahj, Shivganj, Tilaiya Kalan, Tilaiya Khurd, Nawa Dih, Goswan, Kathautiya, Chando, Gunwa Dih, Tula Chak, Mansa Dih, Jhanji, Imliyatand, Bheriya, Chordaha, Nauka Dih, Murhi, Mahugain, Rebda, Parariya, Pathalgarhi(Chhanalli), Jumnarhi, Patluka, Dhamna, Kadal, Barsuddi, Hasa Sanri, Bhusa, Sontha, Latkuta, Munpara, Etwan, Bela, Dhangain, Pakariya, Pokhariya, Nawa Dih, Amukhap, Duari, Purani Dhangain, Kumbhi, Tiletand.	Barachatti	Gaya
Larhu, Lalganj, Tetariya, Mahuliya, Kedar Bigha, Chanda, Amahana, Balkoa, Parwariya, Jogar, Sakin Jogar, Bagahi, Lathua, Amsot, Bumbuwar, Mahugain, Bazu Khurd, Bazu Kalan, Bumuar, Baju Kalan, Roshan Chak, Chauari, Gamhira, Durjan Khap.	Mohanpur	Gaya
Nawa Dih, Mansi Dih, Bhaluwa, Ghorwa Dih, Karmauni, Dhab, Nama Dih, Dariaura, Boti Bigha, Tetariya Kalan, Nimhar, Angana, Barmoriya, Jainagar, Ghomghawa, Kundilwa, Daktar Bigha, Shri Chak, Shahpur(Salempur), Akauni, Babu Bigha, Gauspur, Habibpur, Ahuradhi, Gamhariya, Pirasin, Dharampur, Karhara, Fatehpur, Gobindpur, Rampur, Shivganj, Wari, Munshi Chak, Mistritand, Jwal Bigha, Angra, Nimiatand, Ghatheriya, Nima, Bajaura, Khaira, Makhrur (Kuti Chak), Nigri, Bahra Bhurkunda, Sita Chak, Ghirsindi Khurd, Ganesh Chak, Nauka Dih, Ghirsindi Kalan, Despura, Dumri, Kesapi, Ratni, Karamthan, Surai Mandal, Mani Chak, Madhuan, Jodha Bigha, Belhariya, Tetariya, Tewari Chak, Chanda, Amarua, Nanhu Bigha, Bakhtora, Bunda Bigha, Sabal Bigha, Patti, Musehni, Bangla, Bhelwa, Bighatola, Kalyanpur, Banwara, Ratal Chak, Kangali Bigha, Sundar Kumhari, Kurmawan, Musahna, Kharne, Sopalo, Musahna, Bharhar, Trilokapur, Babhandev, Jehal Dih, Makampur, Munrial, Kharaunchi, Dulam Dih, Lalmati, Baharwabad, Bahera Dih, Gosain Dih, Maulanagar, Kendua Dih(Kimgarhi), Patharkatta, Kharanti, Parbatiyatola, Patilatola, Bhitgharwa, Nadarpur, Khagrai, Masaundha, Gomtha Mitha, Badauli, Bahera Dih, Garwaiya, Raganiyatand, Khapiya, Pachama, Lahuari, Domchuan, Nakatiya, Mahuari, Garhaitari, Kewaliatola, Bathanmau.	Dobhi	Gaya

1b) North Karanpura – Gaya 400kV D/c line line with quad moose conductor State: Jharkhand		
Name of Village	Tehsil	District
Kolwa, Jogni Pahar, Luta, Phata, Begwatari, Jawadohar, Gue, Kedimau, Lutatoli, Jal Diha, Pandarkola, Kurkheta, Satwat, Kadalgori, Goratoli, Sarhad(Surhud), Karamo, Sahotra, Surhud.	Hunter-Ganj (Shaligram Ram Narayapur)	Chatra

Birlutudag, Kotap, Hemraluta, Dumariya, Debra, Chheota, Rosna, Bhagwanpur, Jhabargarha, Dhamdhama, Geri, Pranpur, Rajpur, Pandedih, Rehodag, Kalindinagar, Misirdih, Kade, Holamgarha, Sidhu, Kudri, Jori, Kewai, Mayapur, Dumri, Manjholi Kalan, Nawa Dih, Barabagi, Bire Khap, Kushma Dih, Majholi Khurd, Tatra, Bakchuma, Pakariyatand.	Kanha-Chatti	Chatra
Kari, Ara, Devariya, Tetariyatand, Charkapipar, Abukatu, Maktama, Ekauna, Ambadhohar, Kacha, Chamabandha, Galgalwa, Dehuri, Mardanpur, Rud Khurd, Karhirha, Holamgara Kalan, Karmatand, Lachhanpur, Ara, Holamgara Khurd, Gandharia, Dharampur, Son Bigha, Mishraul, Chaur, Unta, Pandepura, Baherakucha, Sanghri, Cheri Khap, Kalyan Khap, Raksi, Dewaria, Sisang, Jangi, Kharik, Loagara, Am Dih, Jainpur, Nawa Dih, Mayapur, Madhwa Khap, Ramtunda, Lem, Gangajit, Dariyatu, Purnatandtola, Bhojiya, Satau, Kamta Khurd, Singhpur, Banagaratola, Kamat, Obra, Ghagharatandtola, Maramdiri, Dahuri, Kanaudi, Asariha, Latber, Lupanga, Japut, Turi, Tilra, Godra.	Chatra	Chatra
Marga, Nawadih, Damaul	Pathalgada	Chatra
Delho, Chadram, Kori, Chalangbar, Lobga, Kasia Dih, Nawa Dih, Ichak Khurd, Bajobar, Bangasandam, Siriya, Harakhnathpuri, Gopera, Majhalitand(Sikri), Majhalitand, Simariya, Bana, Sandi, Banhe, Lipda, Rol, Goa Kalan, Goa Khurd, Tikulia, Kutu, Aratu, Ichak Kalan, Bara, Phatahatola, Pundra, Sabana, Kadle, Chontha, Dari, Kodwari, Rani Pokhar, Sohar Khurd(Kewta), Khapia, Bakchoma (Pancha Pherwa), Edla, Khuterwa, Pagar, Sahar Kalan, Murwe, Katia, Tumbapatra, Jatiahi, Sidhapatra, Sadma.	Simariya	Chatra
Rahrethwa, Gobindpur, Bongagarha, Bhatkurtoli, Dhangara, Kharika, Alagdiha, Birbir, Sidhpa, Padampur, Kasiadih, Lembua, Bukru, Jamuniyatanr, Daridag, Hesatu, Chatti, Barwadih, Rol, Tesarchepa, Badbiga, Karhanitola, Giddi, Nawadih, Phulwariya, Tekhtha, Teliyadih, Misrol, Khadhahiya, Barkitaritoli, Garhwaiyatoli, Bhaghahitongri, Kabra, Marangloiya, Titahiatanrtoli, Brinda, Humbitoli, Handutoli, Kadhamdiri, Katahi Misraul, Shivpur, Kisunpur, Nawdiha, Ghaghra, Pokla, Dergharhatoli, Kasiyadih, Bansatoli, Honhe, Kurhapatra, Nawaaih, Soparam, Serandag, Binglat, Barkute, Koyad, Kumrang Kalan, Kurlonga, Saradhu, Hechabaliya, Barkitanr, Kumrang Khurd, Ursu, Kundi, Haharwe, Pardahi, Chapadih, Sidalu, Basariya, Ubkapani, Dewalgara, Tetartanr, Nawatanr, Chahetar, Masilaung, Raham, Asnatari, Barkitanr, Dunduwa, Naiparam(Manjrahi), Kamta, Garilaung, Tandwa.	Tandwa	Chatra
Kurkuta, Peksa, Dagdawa, Kirkira, Kendua, Pahara.	Gidhaur	Chatra
Pachra, Sijhua, Bukru, Dombabagi, Agartoli, Peto.	Keredari	Hazaribagh
Manatu, Banaiat, Pakurwatoli, Soharwatanrtoli.	Bariyatu	Latehar

2. North Karanpura – Chandwa Pooling Station 400kV D/c line
State- Jharkhand

Name of Village	Tehsil	District
Bukru, Dombabagi.	Keredari	Hazaribagh
Tandwa, Raham, Dunduwa, Naiparam (Manjrahi), Haharwe, Kamta, Garilaung, Ursu, Barkitanr, Kumrang Kalan, Kumrang Khurd, Basariya, Ubkapani, Masilaung, Chahetar, Sidalu, Asnatari, Nawatanr, Samidih, Dhumna, Tetartanr, Dewalgara, Gonda, Suiyatanr (Jogipura), Burhi Patra, Sat Pahari, Chirianga, Khandhar, Kharpatitanr, Nawatanr, Lakardhari, Parsatri, Chapratoli, Sidpa, Chatro Khap, Ramnitn, Khuntitoli, Bangatiya, Bali, Banpur, Madna Patra, Saraiya, Koilara, Baghlata, Dahu, Dahutanr, Barwatoli, Bargaon, Ulatu Semratn, Ulatu Nawatanr, Barwatanr, Nawada, Barwatoli, Dahu Pahar.	Tandwa	Chatra
Pannatani, Kondra, Ara, Ganeshpur, Akhatiya, Chamrenga, Chamartoli, Sardamtanr, Parastoli, Keri, Bishrampur, Dudhmatiya, Toritanr, Kondra, Barhkar, Kalimati, Dumartoli, Hundratn, Okea, Barkabandh, Murpa, Harhi Pahar, Jilanga, Mansingha, Jipua, Kolpatia, Basriyagarha, Maranloiya, Itke, Hebna, Bara, Turisot, Barwatoli, Pindarkom, Bishunpur, Thalia, Balbal, Piprahi, Gerenja, Harapu, Makaiyatanr, Bhainsadon, Pargarha, Kharatiatoli, Dhadhu, Chitarpur, Baratpur, Jawatoli, Purunipani.	Balumath	Latehar

Mahuatanr, Tilayadamar, Salaiya Pahar, Hukutoli, Chhochhari Tongri, Haraiyatoli, Chakla, Barwatoli, Lalka Tongri, Kelhawa, Satmiliya, Amwatanr, Ambuatanr, Sahilatawa Pahar, Nagar, Sadabartoli, Nawatoli, Dhasawa Pahar, Lohsinghatoli, Karmahi, Basriyatoli, Ambadohar, Chatro, Sondihartoli, Bhelwahi, Timki, Domarkhar, Damodar, Pokiatoli, Gaudamar, Chirokhar, Chetua, Thuthabar, Hariyatoli, Jobiyatoli, Angarha, Kusumtoli, Tujitoli, Virahdatoli, Bhusarh, Ardhe, Kujri, Kamta, Piparahi, Hisri, Belwahi, Nanphalia.	Chandwa	Latehar
---	---------	---------

3) LILO of both circuits of Ranchi – Maithon-RB 400kV D/C line at Dhanbad Substation (Twin Moose) State- Jharkhand		
Name of Village	Tehsil	District
Kharikabad, Phaphuad, Jangalpur, Murgabani, Ashna, Kashitanr, Gahira, Toladewli, Devli, Nero, Moranga, Moradih, Jambad, Kaladabar, Kharidih, Daldali, Champapur, Rangadih, Barwa, Dumdumi, Parasi, Ghoramurga, Bhelatanr, Domandih, Narodih, Mahubani, Chak Chirobad, Harangadih, Chandraidih.	Gobindpur	Dhanbad
Sonabad, Baruigarha, Tetuliya, Tetulia, Ramkanali, Dubhi, Koirad, Jhirka, Billi, Lakhiyabad, Kashitanr, Chandd, Katajani, Kalubathan, Kerabank, Elakend, Kusiya, Chhota Ambona, Fatepur, Jamkudar, Bara Ambana, Pipratnr, Sitalpur, Surjudih, Salukchapra, Barmuri, Dudhiya.	Chirkunda	Dhanbad

Copy of the route alignment is available in the office of the undersigned. Notice is hereby given to the general public to make observation / representation on the proposed transmission system within two months from the date of publication of this notice to the office of the undersigned in writing. For further particulars and clarifications please contact:

Designation: Project Director (Transmission)

Head office Address: 7A, Sambhav Building, Judges Bungalow Road, Bodakdev, Ahmedabad, Gujarat- 380015

E-mail Address: nktl.transco@gmail.com

Phone No. : 079- 2555 6961 | FAX No.: 079- 2555 7216

मुद्रण निदेशालय द्वारा, भारत सरकार मुद्रणालय, एन.आई.टी. फरीदाबाद में
अपलोड एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा ई-प्रकाशित, 2016

UPLOADED BY DIRECTORATE OF PRINTING AT GOVERNMENT OF INDIA PRESS, N.I.T.
FARIDABAD AND E-PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2016

www.dop.nic.in